



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14—सितम्बर 20, 2019 (भाद्रपद 23, 1941)=

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14—SEPTEMBER 20, 2019 (BHADRA 23, 1941)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुम्बई-400001, दिनांक 17 जुलाई 2019

बैंकिंग वि. पीएसबीडी. सं. 503/16.01.160/2019-20—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे, जो 10 जून 2019 से प्रभावी होंगे:—

“द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर, “सीएसबी बैंक लिमिटेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

लिलि वडेशा

कार्यपालक निदेशक

दिनांक 30 जुलाई 2019

सं. जी एस आर

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 48 (5) के अनुसरण में, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तुलनपत्र, 31 मार्च 2019 (अप्रैल 2018 – मार्च 2019) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ प्रकाशित की जाती है।

ए. के. पाटी

मुख्य महाप्रबंधक और सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,

मुम्बई

वार्षिक लेखे 2018-19

नाबार्ड का तुलन-पत्र लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह 2018-19

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति में तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं। ('एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरण')।

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उल्लिखित एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और इसके नकदी प्रवाह की सही और साफ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और विवरण हमारी रिपोर्ट के एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं।

हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों में 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक प्रशिक्षण संस्थान का विवरण शामिल है जिनका हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया है और इनका, प्रधान कार्यालय सहित अग्रिमों में 81.46%, जमा राशियों में 99.99%, ब्याज आय में 82.36% और ब्याज व्ययों में 99.25% हिस्सा बनता है। इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्र का चयन बैंक के प्रबंधन परामर्श से किया गया है। हमने बैंक के शेष कार्यालयों अर्थात् 14 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा नहीं किया है लेकिन उनकी विवरणियों की समीक्षा प्रधान कार्यालय ने की है।

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें

3. हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे हैं जो वर्ष के लिए एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मदों पर एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते। अपने व्यावसायिक मत में हमने निम्नलिखित को ऐसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में अभिव्यक्त करना है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मद का विवरण	मद की लेखापरीक्षा प्रक्रिया
<p>अनेक आईटी प्रणालियाँ:</p> <p>बैंक अनेक और अलग-अलग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों के माध्यम से जेनरेट की गई अनेक रिपोर्टों पर निर्भर करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • सीएलएमएस- लेनदेनों की प्रोसेसिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रणाली। • टीएलएमएस- ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस- मानव संसाधन और वेतन • विविध वर्कफ़्लो जिनमें सीएलएमएस में डाटा डाला जाता है। • एफ़एमएस- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/ इंटरप्ले से रिपोर्टें निर्मित या जेनरेट होते हैं। <p>एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त रीति से किए जाएँ यह सुनिश्चित करने में सामान्य और एप्लीकेशन और आईटी नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त नियंत्रण रहने से संभावित धोखाधड़ी या एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली भूलों की जोखिम का शमन करने में मदद मिलती है।</p> <p>बैंक का प्रबंधन कई सुधारात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिनसे उम्मीद है कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों की जोखिम कम करने में सहायक होंगी। इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारणात्मक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है।</p> <p>इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा मद दी गई है।</p>	<p>हमने कई लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियाँ अपनाईं जिनमें शामिल हैं:</p> <p>एप्लीकेशनों पर परिचालन प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले डाटा आधारों तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों से संबंधित सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा जांचों की रूपरेखा में निम्नलिखित को शामिल किया गया:</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • आईटी प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए प्रमुख लेनदेनों के वर्कफ़्लो की समीक्षा की गई; • वित्तीय रिपोर्टिंग से संगत प्रणाली सृजित रिपोर्टों के तर्काधार सहित प्रमुख, स्वचालित और मैनुअल व्यवसर चक्र नियंत्रणों की चयन के आधार पर जांच की गई; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तारीखों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेटिंग, परिणामी रिपोर्टों के साथ इनतेरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर सीएलएमएस, टीएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएस के इंटरफेस की जांच की गई;

वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

4. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन, वित्तीय विवरण और उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, शामिल हैं (अन्य सूचना)।

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है। एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती। जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हम से यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व के अंतर्गत यथापेक्षित अभिभासन के प्रभारियों को इस विषय को संप्रेषित करें।

एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

5. प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार एकल आधार पर इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें।

एकल आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचलनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए प्रबंधन और निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं।

निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल आधार पर वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

6. हमारा उद्देश्य है इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन एकल आधार पर तैयार किए गए विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।

अन्य मद

7. एकल आधार पर तैयार किए गए इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष के लिए बैंक की जो तुलनात्मक वित्तीय सूचनाएं दी गई हैं वे पूर्व में व्यास एंड व्यास, सनदी लेखाकर द्वारा भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिन्हें मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित किया गया था और जिनकी मई 25, 2018 की रिपोर्टों में उन वित्तीय विवरणों पर अनाशोधित अभिमत व्यक्त किया गया था। इस मद के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- ख. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में जो लेनदेन आए हैं वे बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।
- ग. हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।
- घ. हमारे अभिमत में एकल आधार पर तैयार किए गए ये वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी
(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 105146 डब्ल्यू

हसमुख बी डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033494

स्थान : मुंबई
दिनांक: 22 मई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(“एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व” शीर्षक पैरा 6 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार में हमारी लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही,

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुसप्रस्तुति की जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने की जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली जोखिम से बड़ी होती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।
- हम विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से और न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- हम बैंक के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों उपयुक्तता और लेखांकन संबंधी अनुमानों तथा किए गए संबन्धित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकलते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबन्धित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होती है। तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलाने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं। हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबन्धित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों। हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एकल आधार पर तैयार तुलन पत्र

(रु. हजार)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1.	नकदी और बैंक शेष	9	12124,96,39	18684,68,69
2.	निवेश	10	39610,29,07	30985,43,18
3.	अग्रिम	11	430272,61,74	352110,55,00
4.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)	12	505,88,13	471,19,46
5.	अन्य आस्तियां	13	4956,72,99	4389,75,26
	कुल		487470,48,32	406641,61,59
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कानूना के अनुसार		1088,25,16	834,38,70
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू

हसमुख देढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं. एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्षआर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशकअनिल कुमार बंसल
निदेशकसी पार्थसारथी
निदेशकए के पाटी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

दिनांक: 22 मई 2019

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रु. हजार)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2018-19	2017-18
1.	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		26141,80,31	21226,01,09
2.	निवेश परिचलनों/जमाराशियों से आय		3353,90,69	2983,03,07
3.	अन्य आय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-7 देखें)		172,19,80	181,64,82
	कुल "अ"		29667,90,80	24390,68,98

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2018-19	2017-18
1.	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	14	22198,71,63	17847,06,94
2.	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	1892,56,14	1934,33,36
3.	संवर्धन गतिविधियों पर व्यय	15 आ	61,41,36	52,53,81
4.	प्रावधान	16	522,27,54	186,13,11
5.	मूल्य ह्रास		33,59,36	16,82,25
	कुल "आ"		24708,56,03	20036,89,47
6.	कर-पूर्व लाभ (अ-आ)		4959,34,77	4353,79,51
7.	प्रावधान			
	क) आकार के लिए		1604,00,00	1405,00,00
	ख) आस्थगित कर के लिए (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)		-9,21,00	-13,15,00
8.	कर-पश्चात् लाभ		3364,55,77	2961,94,51
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(रु. हजार)

क्रम सं.	विनियोजन/आहरण	2018-19	2017-18
1.	वर्ष का लाभ अधोनीत	3364,55,77	2961,94,51
2.	जोड़ें:		
	लाभ और हानि लेखा को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण (अनुसूची 1 और 2 देखें)		
क)	सहकारिता विकास निधि	16,65,67	18,77,58
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	35,45,43	28,93,47
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि	1,69,03	2,55,94
घ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	14,34,15	148,01,07
ङ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	5,39,31	2,49,48
च)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	21,32,28	20,88,29
छ)	जलवायु परिवर्तन निधि	16,45	1,03,53
ज)	ग्राम्य विकास निधि	16,18,62	6,78,99
2.1	बंद की गई निधियों से आहरण		
क)	एमएफडीईएफ	0	28,03
3.	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	3475,76,71	3191,70,89
	घटाएं : निम्नलिखित में अंतरित किया गया : [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	800,00,00	700,00,00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	1,00,00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,00,00	1,00,00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	35,45,43	28,93,47
ङ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	61,84,15	374,01,07
च)	सहकारिता विकास निधि	16,65,67	18,77,58
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि	1,69,03	2,55,94
ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	10,39,31	6,27,28
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	21,32,28	20,88,29
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	46,18,62	26,78,99
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	5,16,45	6,03,53
ठ)	प्रारक्षित निधि	2475,05,77	2005,44,74
	कुल	3475,76,71	3191,70,89

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू

हसमुख देढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं. एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल
निदेशक

सी पार्थसारथी
निदेशक

ए के पाटी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

दिनांक: 22 मई 2019

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2019 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	18356,39,15	2475,05,77	0	20831,44,92
2	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00	35,45,43	35,45,43	50,00,00
3	प्रारक्षित पूंजी	74,80,53	0	0	74,80,53
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1150,00,00	61,84,15	14,34,15	1197,50,00
5	सहकारिता विकास निधि	60,00,00	16,65,67	16,65,67	60,00,00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	7785,00,00	800,00,00	0	8585,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	100,00,00	1,69,03	1,69,03	100,00,00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	20,00,00	10,39,31	5,39,31	25,00,00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60,00,00	21,32,28	21,32,28	60,00,00
10	ग्राम्य विकास निधि	60,00,00	46,18,62	16,18,62	90,00,00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	15,00,00	5,16,45	16,45	20,00,00
	कुल	27731,19,68	3473,76,71	111,20,94	31093,75,45
	गत वर्ष	24770,97,15	3189,70,89	229,48,36	27731,19,68

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2019 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14491,00,00	1,00,00	1,00,00	14493,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1591,00,00	1,00,00	1,00,00	1593,00,00
	कुल	16082,00,00	2,00,00	2,00,00	16086,00,00
	गत वर्ष	16078,00,00	2,00,00	2,00,00	16082,00,00

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2019 को शेष
अ.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V निधि	1,10,95	1,62,99	2,46	2,26,95	49,45
2	केएफडब्ल्यू - एनबी-यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	0	3,89,24	0	3,89,24	0
3	केएफडब्ल्यू-एनबी-यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	14,73	,0	0	0	14,73
4	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम निधि [अनुसूची 18 का आ-1 देखें]	0	0	0	0	0
5	केएफडब्ल्यू जोखिम शमन निधि					
6	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0	7,98,70	0	0	7,98,70
7	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	1,21,73	0	3,49	63,42	61,80
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	0	5,28,36	28	4,70,29	58,35
9	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0	7,55,31	21	7,31,68	23,84
10	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)-परियोजना निर्माण अनुदान	0	1,21,00	0	48,64	72,36
11	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि खाता	7,23,17	17,33,83	1,24,27	14,40,24	11,41,03
12	जीआईजेड मृदा परियोजना	213,50,35	109,50,48	7,63,88	127,70,50	202,94,21
13	केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना	16,56	1,25,33	0	2	1,41,87
अ.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान	0	30,68,74	0	30,68,74	0
आ.	अन्य निधियां					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1241,53,18	73,50,71	80,17,16	93,58,99	1301,62,06
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	242,34,01	19,01,88	0	21,33,20	240,02,69

3	विभेदक ब्याज निधि- (टीएडब्ल्यूए)	10,00	0	0	0	10,00
4	आदिवासी विकास निधि	5,77,47	0	0	0	5,77,47
5	जनजाति विकास निधि (ii)	1122,52,97	100,23,70	89,83,71	128,64,37	1183,96,01
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2224,19,38	334,12,32	147,92,77	337,78,28	2368,46,19
7	वित्तीय समावेशन निधि - डिजिटल	214,03,23	97,65,00	0	227,72,89	83,95,34
8	पीओडीएफ-आईडी (iv)	68,77,93	160,37,91	2,71,81	58,40,10	173,47,55
9	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	62,73,23	85,00	0	0	63,58,23
10	आरपीएफ और आरआईएफ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22,77,14	0	0	-1,89,69	24,66,83
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्स - (सी-पेक)	2,32,79	0	18,73	0	2,51,52
12	एलटीआईएफ - ब्याज उतार- चढ़ाव प्रारक्षित निधि	25,63,20	0	1,13,31	0	26,76,51
	कुल	5456,12,02	972,10,50	330,92,08	1057,67,86	5701,46,74
	गत वर्ष	4943,94,59	1182,30,65	232,94,66	903,07,87	5456,12,02

*अनुसूची 18 का आ-2 देखें

नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण/ उपयोग के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है।

निधियों में जमा किए गए विभेदक ब्याज के अंतर की राशि पर अदा किए गए आय-कर सहित:

- (i) रु. 25.69 करोड़
- (ii) रु. 35.03 करोड़
- (iii) रु. 116.76 करोड़
- (iv) रु. 56.04 करोड़

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2019 को शेष
अ	सरकारी सब्सिडी योजनाएं					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	55,47	0	0	-2,07	57,54
2	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	8,40	0	0	0	8,40
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0	0	0	0	0
4	फसल उत्पादन हेतु फार्म जल प्रबंधन	7,17	0	0	0	7,17
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78,91,84	0	0	0	78,91,84
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	2,66	0	22	0	2,88
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	6,33	0	51	0	6,84
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	16,11	2,76,17	0	1,28,05	1,64,23
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,29,45	0	0	0	4,29,45
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	7,70,72	0	0	-6,57,37	14,28,09
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	3,14,43	0	0	-7,40,48	10,54,91
12	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत संरचना	82,87,18	50,00,00	0	50,94,43	81,92,75
13	आईएसएएम - संवर्धन व्ययों के लिए प्राप्त अनुदान खाता	1,23	0	0	0	1,23
14	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ ईडीईजी	104,16,52	175,00,00	0	101,72,36	177,44,16
15	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1,66,72	0	0	0	1,66,72
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	5,70	0	46	0	6,16
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बैफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	1,52	0	12	0	1,64
18	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	78,57,52	323,00,00	0	250,87,05	150,70,47
19	सौर मिशन के लिए सीएसएस	1,83	0	0	-22	2,05
20	सीएसएस - जेएनएनएसएम - सौर प्रकाश खाता	7,77,95	0	0	1,43,16	6,34,79
21	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग	29,92,85	0	0	9,74	29,83,11
22	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	2,39,55	13,59,00	0	12,55,59	3,42,96
23	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	49,07	0	0	45,84	3,23
24	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4,60,75	0	0	0	4,60,75
आ	अन्य सरकारी योजनाएं					

1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	285,15,45	0	0	-1,85	285,17,30
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	74,17,39	0	0	22,90,57	51,26,82
3	प्रोड्यूस निधि	92,83,64	0	0	31,28,19	61,55,45
4	23 गैर लाइसेंसी जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111,22,00	0	0	0	111,22,00
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	18	0	0	0	18
6	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0	30,28	0	13,96	16,32
7	कच्छ सूखा रोध परियोजना	21,64	0	0	0	21,64
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज (एलटीसीसीएस)	20,00,00	0	0	0	20,00,00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना	6,22,39	0	0	-13,94	6,36,33
10	समग्र हथकरघा पैकेज	21,23	0	0	-1,54	22,77
11	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर) \$	425,68,30	5845,31,32	0	6128,95,34	142,04,28
	कुल	1423,33,19	6409,96,77	1,31	6588,46,81	1244,84,46
	गत वर्ष	2145,70,04	8066,61,53	1,00	8788,99,38	1423,33,19

*अनुसूची 18 का आ-II देखें

नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण/ उपयोग के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है।

अनुसूची 5 - जमाराशियां

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारें	0	0
3	अन्य		
	चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	82,84,26	164,46,64
	वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	119762,50,73	116313,92,78
	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	45000,00,00	45000,00,00
	अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	10000,00,00	10000,00,00
	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5971,00,00	4671,00,00
	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	43000,31,20	38000,58,00
	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	330,00,00	300,00,00
	कुल	224146,66,19	214449,97,42

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	कर मुक्त बॉण्ड	5000,00,00	5000,00,00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	39434,40,00	38055,00,00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1,29,40	1,29,40
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	421,09,88	3187,82,73
5	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	17998,80,00	7330,00,00
6	बॉण्ड - एलटीआईएफ	23463,80,00	15155,00,00
7	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	10785,40,00	5292,00,00
8	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	8698,20,00	0
	कुल	105802,99,28	74021,12,13

अनुसूची 7 - उधार

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
	(अ) भारत में		
1	केंद्र सरकार	0	0
2	जेएनएन सोलर मिशन	2,81,20	2,81,20
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
4	अन्य:		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	14036,75,65	4001,11,56
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	25626,21,32	32040,36,49
	(iii) सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो	6049,40,35	2457,06,58
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	4067,09,87	3228,58,32
	(v) रेपो खाता	0	2010,73,48
	(vi) बैंकों से मीयादी ऋण	26999,94,11	0
	(vii) वाणिज्य बैंकों से सुविधा	50,00,00	0
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	1093,64,57	811,88,35
	कुल	77925,87,07	44552,55,98

अनुसूची 8 – चालू देयताएं और प्रावधान

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	5835,75,01	8871,41,08
2	विविध लेनदार [अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-4 देखें]	687,31,80	375,87,15
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएमआई)	104,80,49	109,15,09
4	ग्रेजुटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-26 देखें)	18,43,52	29,97,03
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-26 देखें)	379,18,93	141,42,95
6	साधारण छुटी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-26 देखें)	356,05,87	356,05,87
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-26 देखें)	135,10,14	131,05,89
8	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	3,31,52	1,69,60
9	मीयादी जमा राशियों पर दावा न किया गया ब्याज	11,52	11,52
10	परिपक्व किन्तु दावा न की गई मीयादी जमाराशियां	4,78	4,78
11	परिपक्व किन्तु दावा न किए गए बॉण्ड	144,20,22	71,93,02
12	बांड प्रीमियम	62,15,60	10,52,60
13	ऋण सर्विसिंग प्रारक्षित निधि [अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-30.11 देखें]	1,74,63	7,70,54
14	प्रावधान और आकस्मिकताएं		
(क)	निवेश मूल्यहास खाता - सरकारी प्रतिभूतियां	14,34,15	146,44,37
(ख)	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन - एचटीएम	52,45,38	26,66,77
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	1729,00,00	1420,50,00
(घ)	अनर्जक निवेश	248,32,70	34,14,25
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर	14,44,89	14,44,89
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्यों हेतु प्रावधान	8,50,96	8,50,96
(छ)	आय कर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर छोड़कर]	3093,57,02	587,62,81
	कुल	12888,89,13	12345,31,17

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	हाथ में रोकड़	0	0
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	अ) भारत में बैंकों में		
	भारतीय रिज़र्व बैंक	1405,57,37	187,31,46
	(ii) भारत में अन्य बैंकों में		
	चालू खाते में	392,60,41	17,28,99
	बैंकों में जमा	9225,00,00	16815,00,00
	मार्गस्थ प्रेषण	528,59,10	460,84,72
	सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो	573,19,51	1204,23,52
	आ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	12124,96,39	18684,68,69

अनुसूची 10 - निवेश

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1	सरकारी प्रतिभूतियां क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां [अंकित मूल्य रु. 14922,56,40,000 (रु. 12481,14,10,000)] [बाजार मूल्य रु. 15350,09,35,860.40 (रु. 12674,43,46,439)] ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य रु. 713,71,70,000 (रु. 2715,43,40,000)] [बाजार मूल्य रु. 664,35,21,402.10 (रु. 2560,16,62,705)]	15501,07,52 664,35,21	13029,00,98 2560,16,63
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर:		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - प्रत्येक रु. 10,000 के इक्विटी शेयर]	1,00,00	1,00,00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (1,60,00,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	966,27,55	966,27,55
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि.. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	60,00,00	60,00,00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (10,70,096) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	30,22	30,22
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	16,87,50	16,87,50
(च)	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स] @ [1,60,00,000 (1,60,00,000) - प्रत्येक रु. 10 के शेयर]	16,00,00	16,00,00
(छ)	सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लि इक्विटी [55,000 (55,000) - प्रत्येक रु. 1000 के शेयर]	9,74,60	9,74,60
(ज)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [4,000 (4000) - प्रत्येक रु. 10 के शेयर]	40	40
(झ)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) - प्रत्येक रु. 10 के शेयर]	1,50,00	1,50,00
(ञ)	नेशनल ई-रेपोजीटरी लि. [105,30,000 (0) - प्रत्येक रु. 10 के शेयर]	10,53,00	10,53,00
(ट)	अन्य इक्विटी निवेश [बाजार मूल्य रु. 82,44,91,556 (रु. 76,35,07,111)]	48,44,67	54,28,96
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
(i)	रासकृयावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-21 देखें)	1738,61,48	2592,77,98
(ii)	आ-अपरिवर्तनीय डिबेंचर	3145,97,13	2426,54,78

5	सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता		
(क)	सहायक संस्थाओं में शेयरधारिता		
(i)	नाबार्ड फ़िनान्शियल सर्विसेज लि, कर्नाटक [10,20,06,300 (10,20,06,300) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	102,00,63	102,00,63
(ii)	नैबसमृद्धि (एग्री - फ़िनान्स [आंध्र प्रदेश] लि. [5,26,44,000 (2,63,22,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	59,81,80	26,38,91
(iii)	नैबकिसान (एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फ़िनान्शियल [टीएन] लि) [71,66,67,000 (46,66,67,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	85,02,66	46,75,16
(iv)	नाबार्ड कंसल्टंसी सर्विसेज प्रा. लि. [50,00,000 (50,00,000) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	5,00,00	5,00,00
(v)	नैबवेंचर लि [50,00,000 (0) - प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर]	5,00,00	0
(ख)	संयुक्त उद्यम	0	0
6	Others		
(क)	म्यूचुअल फंड	7586,71,84	0
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य रु. 600,00,00,000 (रु. 3650,00,00,000)]	552,55,40	3423,54,30
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य रु. 8950,00,00,000 (रु. 5525,00,00,000)]	8615,49,36	5206,20,83
(घ)	उद्यम पूंजी निधियां/ एआईएफ	192,07,40	180,74,61
(ङ)	ईओएल की ओर दर्शाए निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-26.1.3 देखें]	225,90,70	249,76,14
	कुल	39610,29,07	30985,43,18

उक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं।

अनुसूची 11 - अग्रिम

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1	पुनर्वित्त ऋण		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	66736,60,36	66128,18,38
(ख)	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	137,35,45	632,76,66
(ग)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 का नोट आ -21 देखें)	150670,42,04	120094,96,12
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	4449,50,01	2949,50,70
(iii)	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	3,12	14,07
2	प्रत्यक्ष ऋण		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	120162,99,02	110061,76,71
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	4984,05,37	4296,12,13
(ग)	दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	70,27,93	42,12,53
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	9125,74,48	7241,57,49
(ङ.)	उत्पादक संगठन विकास के लिए ऋण	138,71,23	219,61,25
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	11375,25,00	11954,00,00
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	276,24,39	239,40,24
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	34248,75,47	20446,52,47
(झ)	पीएमएवाई - जी ऋण	18008,23,00	7329,43,00
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	8698,20,00	0
(ट)	डीआईडीएफ	432,00,00	0
(ठ)	जीसीएफ के अंतर्गत ऋण	344,42,50	0
(ड)	अन्य ऋण		
(i)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	10,59	0
(ii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	26,56,44	33,68,88
(iii)	जनजाति विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	2,95,32	6,08,15
(iv)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	164,10,29	181,59,72
(v)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धनात्मक गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	218,71,95	252,91,48
(vi)	कृषि क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	96	2,88
(vii)	सह-वित्तपोषण ऋण	0	12,14
(viii)	नाबार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण [अनुसूची 18 का आ-30.11 देखें]	1,36,82	0
	कुल	430272,61,74	352110,55,00

अनुसूची 12 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-19 देखें) अथ शेष वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन बही मूल्य परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-19 देखें)	180,02,84 0 180,02,84 0 180,02,84 57,18,86 122,83,98	176,16,65 3,86,19 180,02,84 0 180,02,84 55,29,63 124,73,21
2	अथ शेष वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्यहास बही मूल्य फर्नीचर और फिक्सचर्स	413,30,25 7,59,10 420,89,35 0 420,89,35 263,82,27 157,07,08	407,47,74 5,82,51 413,30,25 0 413,30,25 244,24,01 169,06,24
3	अथ शेष वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्यहास बही मूल्य कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण	67,95,51 1,56,73 69,52,24 99,65 68,52,59 62,11,30 6,41,29	61,98,40 6,59,09 68,57,49 61,98 67,95,51 60,91,15 7,04,36
4	अथ शेष वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत इति शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्यहास बही मूल्य भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-19 देखें) अथ शेष	114,72,30 9,39,01 124,11,31 2,41,34 121,69,97 104,62,78	102,59,41 16,06,23 118,65,64 3,93,34 114,72,30 98,60,20

5	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	17,07,18	16,12,10
	वाहन		
	अथ शेष	8,83,39	8,70,06
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	4,96,63	2,06,67
	उप-जोड़	13,80,03	10,76,73
	घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3,75,36	1,93,33
	इति शेष (लागत पर)	10,04,67	8,83,40
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	3,91,74	4,92,58
6	बही मूल्य	6,12,93	3,90,82
	चल रहे पूंजीगत कार्य	196,35,67	150,32,73
	कुल	505,88,13	471,19,46

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	उपचित ब्याज	3520,26,40	3301,90,48
2	प्राप्य डिस्काउंट	121,32,29	418,67,60
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,02,65	1,27,61
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	36,63,09	35,73,55
5	स्टाफ को आवास ऋण	141,02,75	127,77,02
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	94,62,70	96,62,62
7	विविध अग्रिम	79,63,28	66,98,18
8	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	203,55,02	194,34,02
9	भारत सरकार/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-3 देखें)	749,39,88	146,44,18
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	9,24,93	0
	कुल	4956,72,99	4389,75,26

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
(क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा	6088,80,39	6276,76,17
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	2029,82,73	1954,54,21
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	435,96,20	438,73,22
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	279,49,16	221,74,67
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1812,84,69	1586,40,35
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	16,08,05	13,48,10
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमा	6,77,66	7,87,99
(ज)	सीबीएस जमा	72	1,05
(झ)	मीयादी मुद्रा उधार	253,76,07	159,40,74
(ञ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	6127,42,54	4475,30,27
(ट)	कॉर्पोरेट ऋण	826,18,76	0
(ठ)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	30,39,71	22,50,95
(ड)	अल्पावधि जमा के समक्ष उधार	4,63	50,23
(ढ)	वाणिज्यिक पेपर पर डिस्काउंट	2785,01,16	1527,90,18
(ण)	जमा प्रमाणपत्र पर डिस्काउंट	563,72,27	346,75,31
(त)	रेपो ब्याज व्यय	157,08,89	198,95,61
(थ)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	330,93,39	232,95,66
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	373,17,79	360,19,52
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम पर व्यय	41,61,92	22,96,68
4	स्वैप प्रभार	39,54,90	6,03
	कुल	22198,71,63	17847,06,94

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)	1044,15,86	865,67,89
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	432,72,13	699,13,36
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	62,27,17	54,96,15
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबन्धित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	34,77	33,59
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	8,58	9,82
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	35,20,76	34,79,23
7	यात्रा व्यय	41,59,35	39,30,88
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	5,72,61	5,43,73
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	18,11,06	18,66,50
10	मरम्मत	50,02,11	39,31,80
11	लेखापरीक्षकों की फीस	31,40	31,84
12	विधिक प्रभार	1,48,66	1,16,54
13	विविध व्यय	103,06,61	95,23,65
14	विविध आस्तियों पर व्यय	10,42,97	7,65,39
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	87,02,12	72,22,99
	कुल	1892,56,14	1934,33,36

अनुसूची 15 आ - संवर्धन गतिविधियों पर व्यय

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	सहकारिता विकास निधि	16,65,67	18,77,59
(ii)	उत्पादक संगठन विकास निधि	1,69,03	2,55,94
(iii)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	5,39,31	2,49,48
(iv)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	21,32,28	20,88,28
(v)	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	16,45	1,03,53
(vi)	ग्राम्य विकास निधि	16,18,62	6,78,99
	कुल	61,41,36	52,53,81

अनुसूची 16- प्रावधान

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	308,50,00	184,50,00
2 (क)	अनर्जक आस्तियाँ	214,08,00	1,33,93
2 (ख)	अनर्जक आस्तियाँ - स्टाफ	-30,46	29,18
3	पुनःसंचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	0	0
4	अन्य आस्तियाँ / प्राप्त	0	0
	कुल	522,27,54	186,13,11

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(रु. हजार)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	32,75,96	83,99,67
	उप जोड़ "अ"	32,75,96	83,99,67
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक गारंटी	25,02,86	21,69,75
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	0	0
	उप जोड़ "आ"	25,02,86	21,69,75
	कुल (अ + आ)	57,78,82	105,69,42

अनुसूची 18

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं; इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों से सुसंगत हैं।

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और परिचालनों के परिणामों और कामकाज की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएं ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं।

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध, निम्नलिखित मदों को छोड़ कर आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज;
- (ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंड ब्याज के रूप में आय;
- (iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार;
- (iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई द्वारा रु. 10,000 से अनधिक व्यय;

3.2 निर्गमित बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बड़ा राशि को बाण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया। बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है;

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है;

3.4 (i) उद्यम पूंजी निधि से आय को वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया;

- (ii) जिन सब्सिडी वाले मामलों में नाबार्ड पास थू एजेंसी के रूप में कार्य करता है उनमें सब्सिडी के निर्गम की गणना भुगतान आधार पर की जाती है जो संबंधित योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन है।

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- (i) दंड ब्याज
- (ii) लागत और प्रभार
- (iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
- (iv) मूलधन

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)

- 1) अचल आस्तियों का मूल्य, अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य

प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब विद्यमान आस्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ उनके पूर्व में आकलित निष्पादन के स्तर से अधिक हो जाता है।

- 2) भूमि में स्वामित्व वाली और पट्टा वाली भूमि शामिल है।
- 3) जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है, वहाँ परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है।
- 4) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की नीति का संशोधन किया गया था और 30 वर्ष जीवन अवधि मानकर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर गणना की गई है।
- 5) रु.1 लाख और इससे कम मूल्य की अचल आस्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। कीमती, परंतु आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनकी प्रत्येक की कीमत यदि रु. 10,000 से अधिक है; उन्हें पूंजीकृत किया गया है। सभी सॉफ्टवेयर जिनका मूल्य रु. 1 लाख और उससे कम है और जिन्हें अलग से खरीदा गया है, उन्हें लाभ और हानि लेखा में लिया गया है।
- 6) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

आस्तियों के प्रकार	मूल्यहास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- 7) खरीदने के वर्ष में आस्ति पूंजीकृत होने के महीने से और आस्ति के बिक्री करने के वर्ष के महीने तक मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- 8) चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं और इसे अचल आस्तियों में प्रकट किया गया है।
5. निवेश
 - क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचएमटी)" श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है।
 - ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एफएएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
 - ग) जहाँ लागत अंकित मूल्य के समान या कम है वहाँ परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है वहाँ यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में यथावश्यक प्रावधान किया गया है। यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है।
 - घ) "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।
 - ड) "एफएएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार समायोजित किया गया है। यदि कोई निवल मूल्यहास है, तो "एफएएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

- च) "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बैंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार बाजार दर के अनुसार समायोजित किया गया है। मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि को "एचएफटी" श्रेणी के निवेशों में मान्य किया गया है। अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन किया गया है।
- छ) सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ज) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर किया गया है।
- झ) जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार रु. 1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है।
- ञ) असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- ट) शेयर बाजार में खरीदे/ बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है।
- ठ) ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किये गये/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है।
- ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, उस को हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारत औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है।
- त) उद्यम पूंजी निधियों में निवेश को संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार लेखबद्ध किया गया है।

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भविष्य का मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भविष्य के मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

क) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है।

ख) निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधानों को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया गया है:

क. विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनःमूल्यांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए देयता को पूर्णतया हेज किया गया है और तुलनपत्र में कांटेक्ट मूल्य (तुलन पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है।

8. विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए लेखांकन

- क) विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकोती को हेज करने के लिए की जाती हैं।
- ख) हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है।
- ग) हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का वर्ष के अंत में एफडीईआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनःमूल्यांकन किया गया है। पुनःमूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे को लाभ और हानि लेखा में रु. वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुनःमूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है। प्रीमियम/ डिस्काउंट को पूरी अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है।
- घ) विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर लाभ / घाटे को 'विदेशी मुद्रा ऋण खाते में लाभ/हानि' शीर्ष के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से लाभ और हानि लेखा में लिया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी माने जाते हैं और तदनु रूप कर्मचारी लाभ के प्रावधान किये जाते हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यथा आवश्यक बीमांकिकीय मूल्यांकन किया गया है।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबहाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

i) नियत अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, बैंक में भविष्य निधि योजना है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंशदान को उपचय के आधार पर मान्य किया गया है।

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं। बैंक ने एक नियत अंशदान योजना रु. एनपीएस - 'कार्पोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो कि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है।

ii) नियत लाभ योजना

क. सभी पात्र कर्मचारियों के मामले में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है। योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। बीमांकिकीय लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया गया है।

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी क्षतिपूर्तियुक्त अनुपस्थितियों के लिए अधिकृत हैं। बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं। अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकिकीय अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया गया है।

10. आय पर कर

- क) चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं और निर्धारणों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है।
- ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है।
- ग) अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर भुगतान/ प्रावधान किए गए करों को संबंधित निधियों के व्यय के रूप में लेखों में गणना की गई है।

11. खंड रिपोर्टिंग

- क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।
- ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे “अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय” में शामिल किया गया है।
- ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उनको “अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय” में शामिल किया गया है।
- घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने वाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं।

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- क) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:
 - i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा
 - ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन
- ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

- क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है;
- ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है; और
- ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी;
- ख) कोई वर्तमान दायित्व, जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो; और
- ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न के बराबर हो।

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।

13.4 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है।

14. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी, बैंकों की मांग जमाराशियां तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है।

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय मर्दे

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मर्दे उस समय अलग से प्रकट की गई हैं जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय 0.5% से ज्यादा हो।

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है जिन्हें 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक होना है। भारतीय रिज़र्व द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली संसूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडबल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडबल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार, यूपीएनआरएम के अंतर्गत हुई अभिवृद्धि/ आय और व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है। इस निधि से दिए गए ऋणों को अन्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे अनुसूची 11 के तहत प्रकट किया गया है। यूपीएनआरएम से संबंधित उधार को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे अनुसूची 7 के तहत प्रकट किया गया है। वर्ष के दौरान, निधि के अंतर्गत आय की अपेक्षा रु. 56.98 करोड़ के व्यय को लाभ और लेखा में प्रभारित किया गया है।
2. अप्रयुक्त शेष राशि पर प्राप्त ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार/ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया। संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	2018-19 के लिए ब्याज की दर	2017-18 के लिए ब्याज की दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	4%	4%
2.	केएफडबल्यू- नाबार्ड आईजीडबल्यूडीपी (धनद्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	4%	4%
3.	केएफडबल्यू सहायक उपाय	4%	4%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	4%	4%

5.	आदिवासी विकास निधि	4%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	4%	4%
7	केएफडब्ल्यू- नाबार्ड -V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	4%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी) - परियोजना निर्माण अनुदान	4%	--
9	एलटीआईएफ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	4%	--
10	पीओडीएफ - आईडी	4%	--
11	पशुधन विकास निधि (उ प्र और बिहार)	8.05%	6.57%
12	गरीबी उन्मूलन के लिए बहू गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	8.05%	6.57%
13	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	8.05%	6.57%

3. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) रु. 1.44 करोड़ (रु. 43.35 करोड़) में शामिल हैं जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है। इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	निधि का नाम	31-03-2019	31-03-2018
1	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	0.91	2.00
2	केएफडब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (राजस्थान)	0.00	0.62
3	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.53	3.72
4	केएफडब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (गुजरात)	0.00	0.97
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि	0.00	35.92
6	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.00	0.12

4. विविध लेनदार में रु. 30.43 करोड़ (रु. 30.32 करोड़) का सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीआईएफ) के संबंध में अंशदाताओं का बकाया भी शामिल है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों में रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डबल्यूआईएफ) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि वॉटरशेड विकास निधि, जनजाति विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ में जमा की गई। पिछले वर्ष यह राशि वॉटरशेड विकास निधि, जनजाति विकास निधि, वित्तीय समावेशन और पीओडीएफ निधि में जमा की गई थी।
6. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	योजना	2018-19	2017-18
1	दीर्घावधि सिंचाई निधि	89.46	0.00
2	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	-264.83	319.09
3	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)	8.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	19.63	12.83

7. अन्य आय में मौसमी कृषि परिचालन के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और मस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्रशासनिक प्रभार के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य रु. 106.90 करोड़ (रु. 123.03 करोड़) की राशि शामिल है।
8. बैंक के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है। 01 नवंबर 2017 से यह पुनरीक्षण लंबित है। वेतन समझौते के लंबित रहने तक वर्ष के दौरान वेतन और भत्ता शीर्ष के अंतर्गत रु. 200 करोड़ (रु. 100 करोड़) का प्रावधान किया गया।
9. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों की गणना के अनुसरण में, लाभ और हानि लेखा में रु. 9.21 करोड़ (रु. 13.15 करोड़) आस्थगित कर दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़)

क्र. सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2019	31-03-2018
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	171.63	170.22
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	31.92	24.12
	जोड़	203.55	194.34

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है।

10. आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि रु. 373.15 करोड़ निर्धारित की गई है। बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था और उक्त देयता का भुगतान कर दिया गया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की है।
11. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के कर निर्धारण को पुनः खोला, जो कि आयकर आयुक्त-अपील [सीआईटी(ए)] के विरुद्ध फैसला था। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुंबई में अपील दायर की है। आईटीएटी के साथ लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
12. वित्तीय कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 313.07 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया जिसे सीआईटी(ए) द्वारा खारिज कर दिया गया। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
13. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 294.31 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) ने खारिज कर दिया है। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
14. कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 340.81 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) ने खारिज कर दिया है। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।

15. कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 392.94 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) ने खारिज कर दिया है। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
16. कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 438.37 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) ने खारिज कर दिया है। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
17. कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 428.16 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) ने खारिज कर दिया है। सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुम्बई में अपील की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्दे नज़र आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड राशि को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
18. कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण रु. 372.00 करोड़ की कर देयता का निर्धारण किया गया। तथापि, बैंक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध सीआईटी(ए) में अपील दायर की है।
19. (क) पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टेकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए रु. 14.00 करोड़ (रु. 14.00 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका अंतरण किया जाना अभी बाकी है।
(ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पट्टाकृत परिसर और पूर्णस्वामित्व भूमि के मूल्यहास नीति को संशोधित किया गया है। मूल्यहास नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 10.39 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।
20. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो।
21. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृषावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अंशदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:
क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है।
ख) उस पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में रु. ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है।
ग) आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से रु. अनुमन्य अ
22. वित्तीय विवरणियों की तारीख को, आरआईडीएफ के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को किए गए संवितरण में से रु. 472.56 करोड़ (रु. 560.63 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं। संबंधित/अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
23. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत रु. 5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बांड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी। तदनुसार नाबार्ड ने 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय रु. 1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय रु. 3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए। ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं। ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड का निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार है। चालू वर्ष के लिए इन बांडों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज रु. 365.74 करोड़ (रु. 365.79 करोड़) है।

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

एक्सिस हाउस, द्वितीय तल

वाडिया इंटरनेशनल सेंटर

पांडुरंग बुधकर मार्ग

वरली, मुंबई -400 025

24. उद्यम पूंजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशों से संबंधित दिनांक 01 जुलाई, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई / 2015-16 / 104 डीबीआर.सं. एफआईडी एफआईसी. 3/ 01.02.00/ 2015-16 के अनुसार, उद्यम पूंजी निधि इकाइयों में लगाई गई रु. 33.78 करोड़ (रु. 15.92 करोड़) की राशि को एचटीएम श्रेणी से 3 वर्ष पूर्ण होने पर एएफएस श्रेणी में अंतरित कर दिया गया।

25. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	750.00 (648.00)	783.15 (676.64)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	8301.13 (8856.00)	8639.18 (8972.64)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट निधि	50.00 (27.00)	52.21 (28.19)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफाल्ट निधि	50.00 (25.00)	52.21 (26.10)

26. 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत लेखा मानक 15 (संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

26.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

बैंक की परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ के तहत पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है।

26.1.1 पेंशन

क. परिभाषित लाभ देयताओं के अथशेष और इतिशेष का मिलान:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4496.91	3694.29
वर्तमान सर्विस लागत	74.55	76.52
ब्याज लागत	332.77	286.31
बीमांकिकीय अभिलाभ/हानि	292.11	592.77
भुगतान किया गया लाभ	-219.98	-152.98
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4976.36	4496.91

ख. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार और पूर्व वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक तुलन-पत्र में मान्य की गई राशि:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	4976.36	4496.91	3694.29	2911.93	2411.55
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	4615.81	4355.48	3276.21	2801.56	2351.61
वर्ष के अंत में तुलन पत्र में मान्य देयता	379.19	141.43	418.08	110.37	59.94

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि लेखा में मान्य किए गए व्यय:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
चालू सर्विस लागत	74.55	76.52
ब्याज लागत	332.77	286.31
निवल बीमांकिकीय अभिलाभ/हानि	298.94	539.72
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-312.76	-239.87
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	393.49	662.68

घ. बीमांकिकीय अनुमान:

विवरण	2018-19	2017-18
मृत्यु दर तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अंतिम)	2006-08 (अंतिम)
डिस्काउंट दर (प्रति वर्ष)	7.35%	7.40%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%	6.50%
आहरण दर	1.00%	1.00%

26.1.2 ग्रैच्युटी

क. परिभाषित लाभ देयताओं के अथशेष और इतिशेष का मिलान:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	540.25	487.52
वर्तमान सर्विस लागत	35.66	26.73
ब्याज लागत	39.98	37.78
बीमांकिकीय अभिलाभ/ हानि	7.61	31.28
भुगतान किया गया लाभ	-114.60	-43.06
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	508.90	540.25

ख. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार और पूर्व वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक तुलन-पत्र में मान्य की गई राशि:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	508.90	540.25	487.52	303.02	285.34
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	498.10	510.28	313.46	301.51	303.01
वर्ष के अंत में तुलन पत्र में मान्य देयता	18.44	29.97	174.06	1.51	-17.67

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि लेखा में मान्य किए गए व्यय:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
चालू सर्विस लागत	35.66	26.73
ब्याज लागत	39.97	37.78
निवल बीमांकिकीय अभिलाभ / हानि	-22.46	44.57
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-41.74	-19.93
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	11.43	89.14

घ. बीमांकिकीय अनुमान:

विवरण	2018-19	2017-18
मृत्यु दर तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अंतिम)	2006-08 (अंतिम)
डिस्काउंट दर (प्रति वर्ष)	7.35%	7.40%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

26.1.3 श्रद्धांजलि का नकदीकरण

क. परिभाषित लाभ देयताओं के अथशेष और इतिशेष का मिलान:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	356.06	305.50
वर्तमान सर्विस लागत	8.28	6.19
ब्याज लागत	26.35	23.68
बीमांकिकीय अभिलाभ/ हानि	-15.10	40.92
भुगतान किया गया लाभ	-31.83	-20.23
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	343.76	356.06

ख. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार और पूर्व वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक तुलन-पत्र में मान्य की गई राशि

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	343.76	356.06	305.50	265.45	239.69
बैंक द्वारा निर्धारित निधि *	225.91	249.76	258.25	263.37	257.61
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य की गई देयता	130.15	106.30	47.25	2.08	-17.92

* छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता के समक्ष बीमा कंपनियों में निवेश की गई राशि

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि लेखा में मान्य किए गए व्यय:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
चालू सर्विस लागत	8.28	6.18
ब्याज लागत	26.35	23.67
निवल बीमांकिकीय अभिलाभ / हानि	-13.62	46.78
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-22.49	-27.02
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	-1.48	49.62

घ. बीमांकिकीय अनुमान:

विवरण	2018-19	2017-18
मृत्यु दर तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अंतिम)	2006-08 (अंतिम)
डिस्काउंट दर (प्रति वर्ष)	7.35%	7.40%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

26.1.4 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य रु. 4.04 करोड़ (रु. 4.18 करोड़) को लाभ हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है।

26.1.5 बीमांकिकीय मूल्यांकन में लिए गए वेतन वृद्धि की दर के आकलन में नाबार्ड से संबन्धित तथ्यों, मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों एवं रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखा गया है।

26.1.6 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित देयताएं शामिल हैं।

26.1.7 सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन

सेवानिवृत्ति पश्चात् समस्त देयताओं को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया गया है और उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

26.1.8 पेंशन, ग्रैच्युटी और छुट्टी नकदीकरण निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश - 31 मार्च 2019 की स्थिति

विवरण	पेंशन	ग्रैच्युटी	छुट्टी नकदीकरण
	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	18.00	--	--
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	31.00	--	--
इंश्योरर द्वारा प्रबंधित निधियां	--	100.00	100.00
अन्य	51.00	--	--
कुल	100.00	100.00	100.00

26.2 परिभाषित अंशदान योजना:

क. भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है। परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को रु. 30.18 करोड़ (रु. 92.84 करोड़) का अंशदान किया है।

ख. 01 जनवरी 2012 को या इसके बाद भर्ती को कर्मचारियों नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में रु. 2.95 करोड़ (रु. 2.23 करोड़) का अंशदान किया है।

27. पूंजी

27.1 तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार पूंजी अंशदान की स्थिति:

31 मार्च 2018 की स्थिति में नाबार्ड की चुकता पूंजी में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी 99.60%:0.40% थी। चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की शेष शेयरधारिता भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति में संपूर्ण शेयर पूंजी भारत सरकार की हो गई है। विवरण निम्नानुसार है:

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	(रु. करोड़)	%	(रु. करोड़)	%
भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00%	20.00	0.40%
भारत सरकार	12,580.00	100.00%	4,980.00	99.60%
कुल	12,580.00	100.00%	5,000.00	100.00%

दिनांक 10 अप्रैल 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 1410 के माध्यम से नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर रु. 30000 करोड़ कर दिए जाने के बाद पूंजी खाता अग्रिम में धारित रु. 5580 करोड़ की शेष राशि को वर्ष 2018-19 में शेयर पूंजी खाते में अंतरित कर दिया गया। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने नाबार्ड की पूंजी में तीन खेपों में (08 June 2018 को रु. 500 करोड़, 10 October 2018 को रु. 1000 करोड़ और 31 December 2018 को रु. 500 करोड़) रु. 2000 करोड़ डाले।

27.2 पूंजी पर्याप्तता

27.2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.96% (18.85%) रहा।

27.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण-दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित रु. 14493 (रु. 14491) करोड़ की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है।

27.2.3 जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी के अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	सामान्य इक्विटी	41739.28	36511.78
(ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टीयर 1 पूंजी (i+ii)	41739.28	36511.78
(iv)	टीयर 2 पूंजी	2798.07	2480.43
(v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	44537.35	38992.21
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	234868.85	206869.25
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	17.77	17.65
(viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.77	17.65
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)	18.96	18.85
(x)	एआईएफआई में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00	99.60
(xi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	2000.00	0.00
(xii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) स्थायी असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत:	0.00	0.00
	(ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	(ग) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	308.50	184.50

ड) अस्थिर प्रावधान

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	खाते में अथशेष (काउंटरसाईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)	14.44	14.44
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की प्रमाणा	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के अंत में अस्थिर प्रावधान का इतिशेष	14.44	14.44

च) आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

30.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्ति (%)	0.00	0.00
(ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	164.45	163.23
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	10.62	9.15
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	7.01	7.93
(घ)	इतिशेष	168.06	164.45
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	4.70
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	4.70
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	निवल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
(क)	अथशेष	164.45	163.23
(ख)	वर्ष के दौरान प्रावधान	9.37	9.15
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित प्रावधान	5.76	7.93
(घ)	इतिशेष	168.06	164.45

30.2 अनर्जक निवेश

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवल निवेश में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00	0.00
(ii)	निवल अनर्जक निवेश (सकल) में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	16.00	16.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	210.05	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इतिशेष	226.05	16.00
(iii)	निवल अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	निवल अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	16.00	16.00
(ख)	वर्ष के दौरान प्रावधान	210.05	0.00
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित प्रावधान	0.00	0.00
(घ)	इतिशेष	226.05	16.00

30.3 अनर्जक आस्तियां (30.1+30.2)

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवल आस्तियों में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.00	0.00
(ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क)	अथशेष	180.45	179.23
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	220.67	9.15
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	7.01	7.93
(घ)	इतिशेष	394.11	180.45
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क)	अथशेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	4.70
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	4.70
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
(क)	अथशेष	180.45	179.23
(ख)	वर्ष के दौरान प्रावधान	219.42	9.15
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित प्रावधान	5.76	7.93
(घ)	इतिशेष	394.11	180.45

चालू वित्तीय वर्ष में एक ऋण खाते को पुनःसंरचित किया गया।

[illegible]

	जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनःसंचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा																				
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंचित खातों का अवनयन	उधार कर्ताओं की सं.																			
		बकाया राशि																			
		प्रावधान																			
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंचित खातों का अपलेखन	उधार कर्ताओं की सं.																			
		बकाया राशि																			
		प्रावधान																			
7	31 मार्च 2019 की स्थिति में पुनःसंचित खाते	उधार कर्ताओं की सं.										1	2	2	0	5	1	2	2	0	5
		बकाया राशि										1.22	2.02	14.23	0.00	17.47	1.22	2.02	14.23	0.00	17.47
		प्रावधान										0.06	2.02	14.23	0.00	16.31	0.06	2.02	14.23	0.00	16.31

30.5 अनर्जक अग्रीमोन में उतार-चढ़ाव

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं..	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	164.45	163.23
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि	10.62	9.15
	उप-जोड़ (अ)	175.07	172.38
घटाएं:			
(i)	उन्नयन	5.65	0.00
(ii)	वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	1.36	7.44
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत से इतर अपलेखन	0.00	0.49
	उप-जोड़ (आ)	7.01	7.93
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियां (अ-आ)		168.06	164.45

30.6 अपलेखन और वसूली

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
01 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का अथशेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च को इतिशेष (अ-आ)	0.00	0.00

टिप्पणी: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दी गई है।

30.7 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
कुल आस्तियां	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

30.8 मूल्यहास और निवेशों के लिए प्रावधान

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(1)	निवेश		
(i)	सकल निवेश *		
	क. भारत में	37871.68	28392.65
	ख. भारत के बाहर	---	---
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान *		
	(क) भारत में	240.39	164.01
	(ख) भारत के बाहर	---	---
(iii)	निवल निवेश *		
	(क) भारत में	37631.29	28228.64
	(ख) भारत के बाहर	---	---
(2)	निवेशों के मूल्यहास के समक्ष धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i)	अथशेष	164.01	138.43
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	224.39	148.01
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन यदि कोई हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित/प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	148.01	122.43
(v)	घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से अंतरण यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इतिशेष	240.39	164.01

- इन आंकड़ों में रासकृयावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है।

30.9 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान और आकस्मिकताएं	2018-19	2017-18
1	निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	224.39	148.01
2	अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	228.11	1.63
3	आयकर के लिए प्रावधान (निवल)	1594.79	1391.85

30.10 प्रावधानन व्याप्ति अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष में कारोबार के बंद होने तक पीसीआर [सकल अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधानन अनुपात (काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर सहित)] 103.67% (108.24%) था।

30.11 दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना के लिए योजना के अंतर्गत ऋण (एस4ए)

वर्ष 2016-17 के दौरान दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना के लिए योजना के अंतर्गत रु. 46.91 करोड़ तक के दबावग्रस्त ऋण खातों (एचसीसी) के लिए समाधान योजना पर विचार किया गया। समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	(राशि रु. करोड़)
भाग- अ	
(i) बकाया ऋण	24.63
भाग - आ	
(i) इक्विटी शेयर	8.06
(ii) वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर	14.22
कुल	46.91

31 मार्च 2019 की स्थिति में उक्त ऋण खाते का निवल बकाया रु. 35.11 करोड़ (रु. 33.60 करोड़) था। यह खाता अनर्जक आस्ति बना हुआ है और एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया शेष के समक्ष 100% प्रावधान किया गया है। एस4ए व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त रु. 1.75 करोड़ (रु. 7.71 करोड़) को ऋण सर्विसिंग प्रारक्षित निधि खाते में रखा गया है।

31. निवेश पोर्टफोलियो: गठन और परिचालन

31.1 रेपो लेनदेन

(राशि रु. करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	206.69 (0.99)	5470.43 (2010.73)	2360.25 (48.61)	0.00 (2010.73)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	40.28 (0.95)	520.06 (328.85)	8.51 (43.65)	0.00 (0.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (18.33)	0.00 (18.33)	0.00 (6.11)	0.00 (0.00)

31.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की राशि	निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियां	रेट न की गई प्रतिभूतियां	अनलिस्टेड प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	581.40 (869.61)	581.40 (869.61)	-	--	-
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	16.13 (251.18)	16.13 (251.18)	-	-	-
(iii)	बैंक	8615.49 (5206.21)	8615.49 (5206.21)	-	-	-
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	3100.99 (4729.19)	3100.99 (4729.19)	-	-	-
(v)	सहायक/संयुक्त वेंचर	-	-	-	-	-
(vi)	अन्य	16165.43 (15589.18)	16165.43 (15589.18)	-	-	-
(vii)	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	240.39 (164.01)	240.39 (164.01)	-	-	-
	कुल	28239.05 (26481.36)	28239.05 (26481.36)	-	-	-

31.3 एचटीएम श्रेणी से/में बिक्री और अंतरण

वर्ष के दौरान रु. 60 करोड़ (रु.2849.67 करोड़) की प्रतिभूति राशि को एचटीएम से एफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया और रु. 1674 करोड़ (रु. 2500 करोड़) की प्रतिभूति राशि को एफ़एस से एचटीएम श्रेणी में अंतरित किया गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश का बाज़ार मूल्य रु. 6527.28 (रु. 5107.50 करोड़) करोड़ था जबकि उसका बही मूल्य रु. 6663.92 करोड़ (रु. 5396.44 करोड़) था। बही मूल्य बाज़ार मूल्य से रु.136.64 करोड़ (रु. 288.94 करोड़) अधिक था जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया।

32. खरीदी/बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

32.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बिक्री की गई वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा।

अ. बिक्री ब्यौरा

: शून्य

आ. प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश के बही मूल्य का ब्यौरा

: शून्य

32.2 खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य

आ. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य

32.3 परिचालनगत परिणाम

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.64	6.53
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.04	0.05
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.23	1.22
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.76	0.80
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़)	0.89	0.74

33. ऋण संकेंद्रण जोखिम

33.1. पूंजी बाजार एक्सपोजर

(राशि रु. करोड़)

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	1387.53	1316.67
2	शेयर/ बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ अथवा व्यक्तियों को क्लीन बेसिस पर शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों के समक्ष अग्रिम;	0.00	0.00
3	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किसी अन्य उद्देश्य के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाई द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	0.00	0.00
5	स्टॉकब्रोकर्स को प्रतिभूतियुक्त और बिना प्रतिभूति के अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केटमेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	0.00	0.00
6	शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर की प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ अथवा संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए क्लीन बेसिस पर कंपनियों को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00

9	मर्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों को लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	192.07	180.75
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		1579.60	1497.42

33.2 देश जोखिम में एक्सपोजर : शून्य

33.3 विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं – एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक एक्सपोजर

33.3.1 वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य

33.3.2 पूंजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

(राशि रु. करोड़)

	श्रेणी	2018-19		2017-18	
		ऋण एक्सपोजर		ऋण एक्सपोजर	
		पूंजी निधियों के % रूप में	कुल आस्तियां	पूंजी निधियों के % रूप में	कुल आस्तियां
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	40.43	3.69	57.04	5.47
II	सबसे बड़ा समूह उधारकर्ता	लागू नहीं		लागू नहीं	
III	वर्ष के बीस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	482.50	44.08	459.96	44.10
IV	वर्ष के बीस सबसे बड़े समूह उधारकर्ता	लागू नहीं		लागू नहीं	

33.3.3 पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं

33.3.4 फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

33.3.5 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार किया है : शून्य

33.4 उधारों/ ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(क) उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	268436.00	225787.25
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	65.81	67.80

(ख) ऋण एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	214894.92	179347.95
(ii)	एआईएफआई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत	49.73	50.54

(ग) एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण

एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण नीचे दिया गया है:

(राशि रु. करोड़)

सं.	विवरण	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %
		वित्तीय वर्ष 2018-19			वित्तीय वर्ष 2017-18		
I.	अनुषंगी कृषि गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र	432144.41	132.51	0.03	354831.81	145.07	0.04
1	केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	61.71	0.00	0.00	84.11	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	141379.65	0.00	0.00	121866.60	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	7375.94	0.00	0.00	7869.90	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	58665.66	0.00	0.00	54840.60	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46888.92	0.00	0.00	45569.54	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	76915.34	0.00	0.00	71360.02	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	72069.30	132.51	0.18	32776.01	145.07	0.44
9	अन्य रासकृयावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी- एमएफआई/ एडीएफसी	28787.88	0.00	0.00	20465.04	0.00	0.00
II.	अन्य	271.20	35.55	13.11	243.78	19.38	7.95
1	निर्माण क्षेत्र	35.49	35.49	100.00	19.02	19.02	100.00
2	कर्मचारी ऋण	235.71	0.06	0.03	224.76	0.36	0.16
	कुल (I+II)	432415.60	168.06	0.04	355075.59	164.45	0.05

34. व्युत्पन्न

34.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप - शून्य

34.2 एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न - शून्य

34.3 व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:

(i) बैंक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) का व्यापार नहीं करता है। तथापि, इसने 94.46 मिलियन यूरो (103.49 मिलियन यूरो) और 50 मिलियन यूएस डॉलर (0 यूएस डॉलर) के अपने अंतरराष्ट्रीय उधारों की ऋण राशि की हेजिंग की है। विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार के अनुसार संविदा कृत मूल्य पर दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक का खुला एक्सपोजर 1.08 मिलियन यूरो है।

(ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मुख्य राशि रु. 1088.25 करोड़ (रु. 834.39 करोड़) रही और लेखा बहियों में मूलधन बकाया देयता का मूल्य रु. 1039.65 करोड़ (रु. 811.88 करोड़) था। इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	1088.25	--	871.68	--
	ख) ट्रेडिंग के लिए	--	--	--	--
(ii)	बाजार दर से समायोजित पोजीशन				
	क) आस्ति (+)	1.40	--	28.17	--
	ख) देयता (-)	7.09	--	--	--
(iii)	ऋण एक्सपोजर [2]	26.70	--	51.83	--
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	15.08	--	9.43	--
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--	--	--	--
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर	--	--	--	--
	ख) ट्रेडिंग पर	--	--	--	--

35. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फोर्ट (एलओसी): शून्य

36. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं कई परिपक्वता निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है:

विवरणियां	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0.00 (6.83)	3711.15 (1792.79)	0.00 (21.48)	32932.08 (22094.60)	47558.17 (54523.84)	69410.86 (57038.05)	50545.29 (51567.73)	19989.11 (27404.65)	224147 (214449.97)
अग्रिम	6709.36 (504.00)	5911.91 (42.66)	10926.47 (2901.74)	52256.46 (55235.95)	82870.48 (85358.26)	114935.32 (98760.15)	73037.99 (60302.17)	83635.17 (51598.41)	430283 (354703.33)
निवेश	8580.13 (3719.93)	5771.35 (1845.99)	12220.95 (27699.29)	551.84 (3350.00)	484.76 (830.23)	1769.56 (1908.71)	501.54 (529.12)	7991.38 (6278.88)	37871.53 (46162.13)

उधार	10580.35 (4719.05)	216.30 (84.68)	25057.60 (31939.70)	6027.02 (19545.88)	14351.01 (12860.47)	12900.00 (15835.00)	7699.94 (0.00)	0.00 (32777.00)	76832.22 (117761.80)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	58.55 (0.00)	59.21 (23.35)	77.19 (8.28)	180.15 (187.87)	182.73 (77.16)	535.82 (386.91)	1093.65 (683.56)

(राशि रु. करोड़)

37. आरक्षित से आहरण : शून्य

38. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2018-19	2017-18
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	8.29	8.58
आस्ति पर प्रतिफल (%)	0.76	0.80
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़)	0.89	0.74

39. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन : शून्य

40. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक की शिकायत

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	7	0
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	128	143
ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	133	136
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	7

41. तुलनपत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है।

42. लेखा मानक 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' में यथापेक्षित आकस्मिक देयता में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
अथ शेष	21.69	16.65
वर्ष के दौरान वृद्धि	25.02	21.69
वर्ष के दौरान हटाई गई राशि	21.69	16.65
इति शेष	25.02	21.69

43. लाभ और हानि लेखा में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(राशि रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

44. लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन

चूंकि बैंक 'एएस-18' की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण नहीं दिया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची:

क) इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां:

क्रम सं.	कंपनियां
1.	नाबार्ड फायनेंशियल सर्विसेज लि.
2.	नैबसमृद्धि फायनान्स लि.
3.	नैब किसान फायनान्स लि.
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.
5.	नैबवेंचर लिमि. (पूर्णतः स्वामित्व में)

ख) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी

नाम	पदनाम
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	अध्यक्ष
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	उप प्रबंध निदेशक
श्री आर अमलोरपवनाथन	उप प्रबंध निदेशक

क. मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:

(राशि रु. करोड़)

पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	लेन-देन का प्रकार	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी -अध्यक्ष	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.50 (0.52)	0.00
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.65 (0.40)	0.00
श्री आर अमलोरपवनाथन	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.59 (0.45)	0.00

संबन्धित पक्षों के मामले में वर्ष के दौरान कोई भी धनराशि अपलिखित / वापस नहीं की गई है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। संबन्धित पक्षों के संबंध प्रबंधन द्वारा मान्य हैं और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है।

ग) व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

- i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।
- ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, राकृयावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
- iii) ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है।
- iv) अनाबंटित: इसमें स्टाफ ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से हुई आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका एवं सामान्य प्रशासनिक खर्चों के लिए किया गया व्यय शामिल हैं।

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि रु. करोड़)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
विवरण	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	3355.75	2987.81	14677.67	12240.71	11585.66	9118.16	48.83	44.01	29667.91	24390.69
परिणाम	1597.97	511.25	2807.31	3416.34	2483.14	2224.96	-1929.07	-1798.76	4959.35	4353.78
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									4959.35	4353.79
आय पर कर									1594.79	1391.85
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									3364.56	2961.94
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियां	48463.49	47809.01	225952.75	190887.18	208820.62	165470.35	4233.62	2475.07	487470.48	406641.61
खंड देयताएं	78950.65	45487.70	197007.59	191389.94	157848.75	124638.23	53663.49	54125.75	487470.48	415641.61
अनाबंटित देयताएं									0.00	0.00
कुल जोड़ देयताएं									487470.48	415641.61

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है।

45. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

46. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनः व्यवस्थापन किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खिमजी कुंवरजी एण्ड कंपनी एलएलपी

(भूतपूर्व खिमजी कुंवरजी एण्ड कंपनी)

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण : 105146 डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं. एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल
निदेशक

सी पार्थसारथी
निदेशक

ए के पाटी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

तारीख: 22 मई 2019

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

(हजार रु.)

विवरण	2018-2019	2017-2018
(क) परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार करपूर्व निवल लाभ के लिए समायोजित:		
मूल्यहास	4959,34,77	4353,79,51
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	33,59,36	16,82,25
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	213,77,54	1,63,11
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि	308,50,00	184,50,00
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (विभेदक ब्याज निधि में वृद्धि/समायोजन सहित)	4,59	-21,04
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	330,93,39	232,95,66
परिचालनगत आस्तियों में परिवर्तन के पहले परिचालनगत लाभ	-3353,90,69	-2983,03,07
	2492,28,96	1806,46,42
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	7043,49,09	-8829,71,73
चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-1962,36,26	-1347,40,12
ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ को आसवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	-77841,43,61	-46271,14,30
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित नकदी	-70268,01,82	-54641,79,73
अदा किया गया आयकर - धनवापसी को छोड़कर	901,94,22	-1454,19,88
जनजाति विकास/वित्तीय समावेशन निधि/वाटरशेड विकास निधि को नामे किया गया डबल्यूआईएफ/एफपीएफ का विभेदक ब्याज		
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (अ)	-69366,07,60	-56095,99,61
(आ) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3353,90,69	2983,03,07
अचल आस्तियों की खरीद	-76,06,05	-103,53,23
अचल आस्तियों की बिक्री	7,73,43	6,48,66
निवेश में वृद्धि/कमी	-9479,02,38	-5618,43,49
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/सृजित निवल नकदी (आ)	-6193,44,31	-2732,44,99
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	-262,07,41	-441,15,07
बॉन्डों की राशि	31781,87,15	23483,61,73
उधारों में वृद्धि/(कमी)	33373,31,09	9625,41,49
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	9696,68,77	20035,15,45
शेयर पूंजी में वृद्धि	2000,00,00	3880,00,00

वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (₹)	76589,79,60	56583,03,60
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	1030,27,70	-2245,41,00
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1869,68,69	4115,09,69
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2899,96,39	1869,68,69

वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	2018-2019	2017-2018
हाथ में रोकड़	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	1405,57,37	187,31,46
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियां	392,60,41	17,28,99
मार्गस्थ प्रेषण	528,59,10	460,84,72
संपादित उधार और ऋण वितरण दायित्व	573,19,51	1204,23,52
कुल	2899,96,39	1869,68,69

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खिमजी कुंवरजी एण्ड कंपनी एलएलपी

(पूर्व खिमजी कुंवरजी एण्ड कंपनी)

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण: 105146 डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं. एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल
निदेशक

सी पार्थसारथी
निदेशक

ए के पाटी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

तारीख: 22 मई 2019

वार्षिक लेखे 2018-19

नाबार्ड और सहायक संस्थाओं (नैबकॉन्स, नैबकिसान, नैबसमृद्धि, नैबफिन्स, नैबवैचर्स)
का समेकित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह 2018-19

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड') और उसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं ('समेकित वित्तीय विवरण')।

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति में समूह के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और इसके समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक प्रशिक्षण संस्थान का विवरण शामिल है जिनका हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया है और इनका, प्रधान कार्यालय सहित अग्रिमों में 81.46%, जमा राशियों में 99.99%, ब्याज आय में 82.36% और ब्याज व्ययों में 99.25% हिस्सा बनता है। इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्र का चयन धारक बैंक के प्रबंधन परामर्श से किया गया है। हमने धारक बैंक के शेष कार्यालयों अर्थात् 14 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा नहीं किया है लेकिन उनकी विवरणियों की समीक्षा प्रधान कार्यालय में की है।

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद्दे

- हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे वे हैं जो वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मद्दों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुंचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते। अपने व्यावसायिक मत में हमने निम्नलिखित को ऐसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दों के रूप में लेने का निर्णय किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में अभिव्यक्त करना है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मद का विवरण	मद की लेखापरीक्षा प्रक्रिया
<p>(1) अनेक आईटी प्रणालियां:</p> <p>धारक बैंक अनेक और अलग-अलग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों के माध्यम से जेनरेट की गई अनेक रिपोर्टों पर निर्भर करती है।</p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • सीएलएमएस- लेनदेनों की प्रोसेसिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रणाली। • टीएलएमएस- ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस- मानव संसाधन और वेतन • विविध वर्कफ़्लो जिनमें सीएलएमएस में डाटा डाला जाता है। • एफएमएस- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/इंटरप्ले से रिपोर्ट निर्मित या जेनरेट होते हैं। <p>एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त रीति से किए जाएं यह सुनिश्चित करने में सामान्य और एप्लीकेशन और आईटी नियंत्रण महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नियंत्रण रहने से संभावित धोखाधड़ी या एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली भूलों की जोखिम का शमन करने में मदद मिलती है।</p> <p>धारक बैंक का प्रबंधन कई सुधारात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिनसे उम्मीद है कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों की जोखिम कम करने में सहायक होंगी।</p> <p>इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारणात्मक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है।</p> <p>इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा मद दी गई है।</p>	<p>हमने कई लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियां अपनाईं जिनमें शामिल हैं:</p> <p>एप्लीकेशनों पर परिचालन प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले डाटा आधारों तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों से संबंधित सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा जांचों की रूपरेखा में निम्नलिखित को शामिल किया गया:</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • आईटी प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए प्रमुख लेनदेनों के वर्कफ़्लो की समीक्षा की गई; • वित्तीय रिपोर्टिंग से संगत प्रणाली सृजित रिपोर्टों के तर्काधार सहित प्रमुख, स्वचालित और मैनुअल व्यवसर चक्र नियंत्रणों की चयन के आधार पर जांच की गई; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तारीखों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेटिंग, परिणामी रिपोर्टों के साथ इनतेरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर सीएलएमएस, टीएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएस के इंटरफेस की जांच की गई;

वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

4. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन, वित्तीय विवरण और उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, शामिल हैं (अन्य सूचना)।

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती। जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को इस विषय को संप्रेषित करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

5. धारक बैंक के प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए संबन्धित प्रबंधन और निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं।

धारक बैंक के संबन्धित निदेशक मण्डल समूह में शामिल कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

6. हमारा उद्देश्य है इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित किए गए विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों। इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

अन्य मद

7. क) हमने 5 (पांच) सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके विवरण/ वित्तीय सूचनाएं दर्शाती हैं कि 31 मार्च 2019 की स्थिति में उनकी कुल आस्तियां रु. 2,96,72,797 हजार थीं और उसी तारीख को समाप्त वर्ष में उनका कुल राजस्व रु. 36,37,032 हजार और निवल नकदी बहिःप्रवाह रु. 2,03,607 हजार था जैसा कि समेकित विवरण में लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक इन सहायक संस्थाओं से संबंधित राशियों और प्रकटनों का प्रश्न है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एकमात्र अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा दी गई रिपोर्टें तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संदर्भ में उक्त मामलों में आशोधित नहीं है।

ख) समेकित किए गए इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष के लिए बैंक की जो तुलनात्मक वित्तीय सूचनाएं दी गई हैं वे पूर्व में व्यास एंड व्यास, सनदी लेखाकर द्वारा भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिन्हें मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित किया गया था और जिनकी मई 25, 2018 की रिपोर्टों में उन वित्तीय विवरणों पर अनाशोधित अभिमत व्यक्त किया गया था। इस मद के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21 - समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किए गए हैं। हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं. 105146 डब्ल्यू

हसमुख बी डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं.: 033494

स्थान : मुंबई

दिनांक: 22 मई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(“समेकित किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व” शीर्षक पैरा 6 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार में हमारी लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही,

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति की जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने की जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली जोखिम से बड़ी होती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।
- हम विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से और न कि समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- हम समूह के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन संबंधी अनुमानों तथा किए गए संबन्धित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के निरंतर संस्था आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में समूह की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबन्धित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां समूह के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं। हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबन्धित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।
- हम सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं जिनकी लेखापरीक्षा हमने नहीं की है, और लेखा मानक 600, “दूसरे लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना” के उपबंधों की संरचना के अनुसार ऐसी सहायक संस्थाओं के संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ संवाद करते हैं।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों। हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2019 की स्थिति

(₹ हजार में)

क्रम सं.	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	(i) पूंजी		12580,00,00	5000,00,00
	(नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)			
	ii) शेयर पूंजी अग्रिम		0	5580,00,00
	कुल		12580,00,00	10580,00,00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	31322,42,85	27915,93,78
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16086,00,00	16082,00,00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	5701,46,74	5456,12,02
5	सरकारी योजनाएं	4	1244,84,46	1423,33,19
6	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1A	146,01,39	121,25,06
7	जमाराशियां	5	224146,66,19	214449,97,42
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	105802,99,28	74020,15,49
9	उधार	7	77971,03,09	44568,75,87
10	चालू देयताएं और प्रावधान	8	12936,63,96	12378,12,38
	कुल		487938,07,96	406995,65,21
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		1088,25,16	834,38,70

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2019 की स्थिति

(₹ हजार में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	नकद और बैंक शेष	9	12318,53,43	18898,32,56
2	निवेश	10	39353,43,97	30805,28,48
3	अग्रिम	11	430712,80,36	352359,73,57
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)	12	524,08,79	486,25,00
5	अन्य आस्तियां	13	5029,21,41	4446,05,60
	कुल		487938,07,96	406995,65,21
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		1088,25,16	834,38,70
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखा के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं.एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल
निदेशक

सी पार्थसारथी
निदेशक

ए के पाढ़ी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

22 मई 2019

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(₹ हजार में)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2018-19	2017-18
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		26306,96,80	21354,70,20
2	निवेश परिचालनों/जमाराशियों से आय		3353,90,70	2982,85,21
3	अन्य आय (अनुसूची 18 का नोट बी-7 देखें)		238,31,74	258,74,88
	कुल "अ"		29899,19,24	24596,30,29
क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2018-19	2017-18
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची -18 का नोट बी-6 देखें)	14	22199,60,97	17848,55,92
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	1996,13,71	2026,96,80
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	61,41,36	52,53,81
4	प्रावधान	16	544,88,69	211,18,35
5	मूल्यहास		35,32,49	18,36,84
	कुल "आ"		24837,37,22	20157,61,72
6	कर से पूर्व लाभ (अ-आ)		5061,82,02	4438,68,57
7	पूर्व अवधि मर्दे		2,25	0
8	आयकर के लिए प्रावधान		1638,60,67	1432,07,94
9	आस्थगित कर (अनुसूची-18 का नोट बी-9 देखें)		-9,63,64	-11,90,72
10	कर पश्चात् लाभ		3432,82,74	3018,51,35
11	माइनॉरिटी इंटरैस्ट		17,30,04	12,73,16
12	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		3415,52,70	3005,78,19
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा पर नोट्स	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखा के अभिन्न अंग हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विनियोजन /आहरण	2018-19	2017-18
1	वर्ष का लाभ	3415,52,70	3005,78,19
2	जोड़ें : लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से	111,20,94	229,76,39
3	आहरण	3526,73,64	3235,54,58
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		
	घटाएं: निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	800,00,00	700,00,00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	1,00,00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,00,00	1,00,00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	35,70,43	29,28,98
ङ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	61,84,15	374,01,07
च)	सहकारिता विकास निधि	16,65,67	18,77,58
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि	1,69,03	2,55,94
ज)	ग्रामीण आधारभूत संवर्धन निधि	10,39,31	6,27,28
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	21,32,28	20,88,29
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	46,18,62	26,78,99
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	5,16,45	6,03,53
ठ)	प्रारक्षित निधि	2525,77,70	2048,92,92
	कुल	3526,73,64	3235,54,58

*अनुसूची-1 देखें

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखा के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण सं. 105146 डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं.एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल

निदेशक

सी पार्थसारथी

निदेशक

ए के पाढ़ी

मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई

22 मई 2019

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/ परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2019 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	18527,35,21	-7,03,63	2525,77,70	0	21046,09,28
2	अनुसंधान और विकास निधि	52,65,03	0	35,70,43	35,45,43	52,90,03
3	प्रारक्षित पूंजी	85,93,54	0	0	0	85,93,54
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	1150,00,00	0	61,84,15	14,34,15	1197,50,00
5	सहकारिता विकास निधि	60,00,00	0	16,65,67	16,65,67	60,00,00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	7785,00,00	0	800,00,00	0	8585,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	100,00,00	0	1,69,03	1,69,03	100,00,00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	20,00,00	0	10,39,31	5,39,31	25,00,00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60,00,00	0	21,32,28	21,32,28	60,00,00
10	ग्राम्य विकास निधि	60,00,00	0	46,18,62	16,18,62	90,00,00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	15,00,00	0	5,16,45	16,45	20,00,00
	कुल	27915,93,78	-7,03,63	3524,73,64	111,20,94	31322,42,85
	गत वर्ष	24920,64,82	-7,78,02	3232,55,34	229,48,36	27915,93,77

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 1अ - माइनोंरिटी इंटरैस्ट

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान समायोजित	31.03.2019 को शेष
1	शेयर पूंजी	77,77,67	7,46,29	0	85,23,95
2	प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	43,47,40	17,30,04	0	60,77,44
	कुल	121,25,07	24,76,33	0	146,01,39

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2019 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14491,00,00	1,00,00	1,00,00	14493,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1591,00,00	1,00,00	1,00,00	1593,00,00
	कुल	16082,00,00	2,00,00	2,00,00	16086,00,00
	गत वर्ष	16078,00,00	2,00,00	2,00,00	16082,00,00

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय / समायोजन	31.03.2019 को शेष
अ.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	आदिवासी कार्यक्रमों हेतु केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V निधि	1,10,95	1,62,99	2,46	2,26,95	49,45
2	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	0	3,89,24	0	3,89,24	0
3	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - यूपीएनआरएम -वित्तीय अंशदान	14,73	0	0	0	14,73
4	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम निधि [अनुसूची 18 का आ-1 देखें]	0	0	0	0	0
5	केएफडब्ल्यू जोखिम शमन निधि	0	7,98,70	0	0	7,98,70
6	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	1,21,73	0	3,49	63,42	61,80
7	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -गुजरात	0	5,28,36	28	4,70,29	58,35
8	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	0	7,55,31	21	7,31,68	23,84
9	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0	1,21,00	0	48,64	72,36
10	जलवायु परिवर्तन- (एफबी) परियोजना निर्माण अनुदान	7,23,17	17,33,83	1,24,27	14,40,24	11,41,03
11	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	213,50,35	109,50,48	7,63,88	127,70,50	202,94,21
12	जीआईजेड मृदा परियोजना	16,56	1,25,33	0	2	1,41,87
13	केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना	0	30,68,74	0	30,68,74	0

आ.	अन्य निधियां					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1241,53,18	73,50,71	80,17,16	93,58,99	1301,62,06
2	विभेदक ब्याज निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	242,34,01	19,01,88	0	21,33,20	240,02,69
3	विभेदक ब्याज निधि - (तावा)	10,00	0	0	0	10,00
4	आदिवासी विकास निधि	5,77,47	0	0	0	5,77,47
5	जनजातीय विकास निधि (ii)	1122,52,97	100,23,70	89,83,71	128,64,37	1183,96,01
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2224,19,38	334,12,32	147,92,77	337,78,28	2368,46,19
7	वित्तीय समावेशन निधि - डिजिटल	214,03,23	97,65,00	0	227,72,89	83,95,34
8	पीओडीएफ-आईडी (iv)	68,77,93	160,37,91	2,71,81	58,40,10	173,47,55
9	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	62,73,23	85,00	0	0	63,58,23
10	आरपीएफ तथा आरआईएफ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22,77,14	0	0	-1,89,69	24,66,83
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेन्स इन को ऑपरेटिव्स (सी-पेक)	2,32,79	0	18,73	0	2,51,52
12	एलटीआईएफ ब्याज उत्तर-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	25,63,20	0	1,13,31	0	26,76,51
	कुल	5456,12,02	972,10,50	330,92,08	1057,67,86	5701,46,74
	गत वर्ष	4943,94,59	1182,30,65	232,94,66	903,07,87	5456,12,02

* अनुसूची 18 का आ-2 देखें

नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबन्धित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों के लंबित संवितरण/ उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है।

निधियों में जमा किए गए ब्याज-अंतर पर भुगतान किया गया आयकर शामिल है:

- (i) ₹ 25.69 करोड़
- (ii) ₹ 35.03 करोड़
- (iii) ₹ 116.76 करोड़
- (iv) ₹ 56.04 करोड़

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान जोड़	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2019 को शेष
अ.	सरकारी सब्सिडी योजनाएं					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी -एनएचबी	55,47	0	0	-2,07	57,54
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	8,40	0	0	0	8,40
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0	0	0	0	0
4	फसल उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन	7,17	0	0	0	7,17
5	बिहार भू-जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78,91,84	0	0	0	78,91,84
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	2,66	0	22	0	2,88
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	6,33	0	51	0	6,84
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	16,11	2,76,17	0	1,28,05	1,64,23
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम -राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,29,45	0	0	0	4,29,45
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	7,70,72	0	0	-6,57,37	14,28,09
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	3,14,43	0	0	-7,40,48	10,54,91
12	आईएसएएम - कृषि विपणन, आधारभूत संरचनाएं	82,87,18	50,00,00	0	50,94,43	81,92,75
13	आईएसएएम- संवर्धनात्मक व्यय खाते हेतु प्राप्त अनुदान	1,23	0	0	0	1,23
14	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ ईडीईजी	104,16,52	175,00,00	0	101,72,36	177,44,16
15	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना	1,66,72	0	0	0	1,66,72
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	5,70	0	46	0	6,16
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण -बैफ - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1,52	0	12	0	1,64
18	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	78,57,52	323,00,00	0	250,87,05	150,70,47

19	सोलर मिशन के लिए सीएसएस	1,83	0	0	-22	2,05
20	सीएसएस-जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	7,77,95	0	0	1,43,16	6,34,79
21	सीएसएस-सोलर फोटो वोल्टेइक वाटर पम्पिंग	29,92,85	0	0	9,74	29,83,11
22	पूँजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केन्द्र	2,39,55	13,59,00	0	12,55,59	3,42,96
23	सीएसएस-एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	49,07	0	0	45,84	3,23
24	कठोर चट्टानी क्षेत्र में भूजल का कृत्रिम रिचार्ज	4,60,75	0	0	0	4,60,75
आ	अन्य सरकारी योजनाएं					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	285,15,45	0	0	-1,85	285,17,30
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	74,17,39	0	0	22,90,57	51,26,82
3	प्रोड्यूस निधि	92,83,64	0	0	31,28,19	61,55,45
4	गैर-लाइसेंसीकृत 23 जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111,22,00	0	0	0	111,22,00
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	18	0	0	0	18
6	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0	30,28	0	13,96	16,32
7	कच्छ सूखा निवारण परियोजना	21,64	0	0	0	21,64
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज	20,00,00	0	0	0	20,00,00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनरुत्थान	6,22,39	0	0	-13,94	6,36,33
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	21,23	0	0	-1,54	22,77
11	ब्याज सहायता (एसएओ एनआरएलएम एनडब्ल्यूआर) \$	425,68,30	5845,31,32	0	6128,95,34	142,04,28
	कुल	1423,33,19	6409,96,77	1,31	6588,46,81	1244,84,46
	गत वर्ष	2145,70,04	8066,61,53	1,00	8788,99,38	1423,33,19

* अनुसूची 18 का आ-2 देखें

नाबार्ड भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों के लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है।

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	केन्द्र सरकार से	0	0
2	राज्य सरकार से	0	0
3	अन्य से		
	क) चाय/रबड़/काँफी जमाराशियां	82,84,26	164,46,64
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	119762,50,73	116313,92,78
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	45000,00,00	45000,00,00
	घ) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	10000,00,00	10000,00,00
	ड) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5971,00,00	4671,00,00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	43000,31,20	38000,58,00
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	330,00,00	300,00,00
	कुल	224146,66,19	214449,97,42

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	करमुक्त बॉण्ड	5000,00,00	5000,00,00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	39434,40,00	38055,00,00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1,29,40	1,29,40
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	421,09,88	3186,86,09
5	पीएमएवाई- जी - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	17998,80,00	7330,00,00
6	एलटीआईएफ बॉण्ड	23463,80,00	15155,00,00
7	एलटीआईएफ भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	10785,40,00	5292,00,00
8	एसबीएम (जी) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	8698,20,00	0
	कुल	105802,99,28	74020,15,49

समेकित अनुसूची 7 - उधार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
	(अ) भारत में		
1	केंद्र सरकार	0	0
2	जेएनएन सोलर मिशन	2,81,20	2,81,20
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
	अन्य :		
	(i) जमाराशि प्रमाणपत्र	14036,75,65	4001,11,56
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	25626,21,32	32040,36,49
	(iii) संपाश्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्वों (सीबीएलओ)/ट्राई पार्टी रेपो	6049,40,35	2457,06,58
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	4067,09,87	3228,58,32
	(v) रेपो खाता	0	2010,73,48
	(vi) बैंक से मीयादी ऋण	27045,10,13	161989
	(vii) वाणिज्य बैंकों से सुविधा	50,00,00	0
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां	1093,64,57	811,88,35
	कुल	77971,03,09	44568,75,87

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	उपचित ब्याज/डिस्काउन्ट	5835,75,01	8870,23,61
2	विविध लेनदार	730,44,51	403,25,18
3	प्रारक्षित सब्सिडी (सह-वित्तपोषण, शीतगृह सीएसएएमआई)	107,22,06	112,66,00
4	गैरच्युटी के लिए प्रावधान	18,78,06	30,14,30
5	पेंशन के लिए प्रावधान	380,77,15	143,14,05
6	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	358,05,69	357,54,23
7	सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	135,10,14	131,05,89
8	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	3,31,52	1,69,60
9	मीयादी जमाराशियों पर दावा न किया गया ब्याज	11,52	11,52
10	परिपक्व जमाराशियां लेकिन दावा न की गई	4,78	4,78
11	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया गया	144,20,22	71,93,02
12	बॉण्ड्स प्रीमियम	62,15,60	10,52,60
13	डेट सर्विसिंग प्रारक्षित निधि	1,74,63	7,70,54
14	प्रावधान और आकस्मिकताएं		
(क)	निवेश खाते के मूल्य में हास - सरकारी प्रतिभूति	14,34,15	146,44,37

(ख)	सरकारी प्रतिभूति का परिशोधन - एचटीएम	52,45,38	26,66,77
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	1739,59,72	142,68,211
(घ)	अनर्जक निवेश	248,32,70	34,14,25
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर	14,44,89	14,44,89
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्तियों के लिए प्रावधान	8,54,95	8,79,41
(छ)	आयकर के लिए प्रावधान [अग्रिम कर को छोड़कर]	3080,75,05	580,22,40
(ज)	अन्य देयताएं	46,23	52,86
	कुल	12936,63,96	12378,12,38

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	हस्ते रोकड़	21	29
2	जमाराशियां :		
	(अ) भारत के बैंकों में		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक	1405,57,37	187,31,46
	ii) भारत के अन्य बैंकों में		
	(क) चालू खाते में	410,63,37	56,28,80
	(ख) बैंकों में जमा	9400,53,87	16989,63,77
	(ग) मार्गस्थ धन प्रेषण	528,59,10	460,84,72
	(घ) संपाश्वीकृत उधार और ऋण वितरण जिम्मेदारियां (सीबीएलओ)/ ट्राई पार्टी रेपो	573,19,51	1204,23,52
	(आ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	12318,53,43	18898,32,56

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	सरकारी प्रतिभूतियां		
	(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	15501,07,52	13029,00,98
	[अंकित मूल्य ₹ 14922,56,40,000 (₹ 12481,14,10,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹ 15350,09,35,860.40 (₹ 12674,43,46,439)]		
	(ख) ट्रेजरी बिल	664,35,21	2560,16,63
	[अंकित मूल्य ₹ 713,71,70,000 (₹ 2715,43,40,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹ 664,35,21,402.10 (₹ 2560,16,62,705)]		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0

3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1000 (1000) -₹10000 प्रति इक्विटी शेयर]	1,00,00	1,00,00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. [53192203 (16000000) - ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर]	966,27,55	966,27,55
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [600000000 (600000000) - ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर]	60,00,00	60,00,00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [377758 (1070096) -₹10/- प्रति इक्विटी शेयर]	30,22	30,22
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [5625000 (5625000) - ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर]	16,87,50	16,87,50
(च)	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स] @ [16000000 (16000000) ₹10/- के प्रति शेयर]	16,00,00	16,00,00
(छ)	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लि. इक्विटी [55000 (55000) शेयर प्रत्येक ₹1000]	9,74,60	9,74,60
(ज)	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया [4000 (4000) प्रत्येक शेयर ₹10]	40	40
(झ)	नेशनल ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लि. [इक्विटी] [1500000 (15000000) शेयर ₹10 प्रत्येक]	1,50,00	1,50,00
(ञ)	नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड [10530000(0) प्रत्येक शेयर रु.10	10,53,00	10,53,00
(ट)	अन्य इक्विटी निवेश [बाजार कीमत ₹82,44,91,556 (₹ 76,35,07,111)]	48,44,67	54,28,96
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
(i)	रासकृषावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-20 देखें)	1738,61,48	2592,77,98
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	3145,97,12	2426,54,78
5	अन्य		
(क)	म्युच्युअल फंड	7586,71,84	0
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹ 600,00,00,000 (₹3650,00,00,000)]	552,55,40	3423,54,30
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹ 8950,00,00,000 (₹5525,00,00,000)]	8615,49,36	5206,20,83
(घ)	वेंचर कैपिटल फंड/ एआईएफ	192,07,40	180,74,61
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	225,90,70	249,76,14
	कुल	39353,43,97	30805,28,48

उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं।

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	पुनर्वित्त ऋण		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	66736,60,36	66128,18,38
(ख)	उत्पादन ऋण के लिए - परिवर्तन ऋण	137,35,45	632,76,66
(ग)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 का नोट आ-20 देखें)	148552,30,45	118478,11,21
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	4449,50,01	2949,50,70
(iii)	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	3,12	14,07
2	प्रत्यक्ष ऋण		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	120162,99,02	110061,76,71
(ख)	वेयर हाउस आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	4984,05,37	4296,12,13
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	2628,58,14	1908,16,01
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	9125,74,48	7241,57,49
(ङ)	उत्पादक संगठन विकास के लिए ऋण	138,71,23	219,61,25
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	11375,25,00	11954,00,00
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	276,24,39	239,40,24
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	34248,75,47	20446,52,47
(झ)	पीएमएवाई-जी	18008,23,00	7329,43,00
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	8698,20,00	0
(ट)	डीआईडीएफ	432,00,00	0
(ठ)	जीसीएफ के अंतर्गत ऋण	344,42,50	0
(ड)	अन्य ऋण :		
(i)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि कार्यक्रम ऋण	10,59	0
(ii)	वाटरशेड विकास निधि से कार्यक्रम ऋण	26,56,44	33,68,88
(iii)	जनजातीय विकास निधि कार्यक्रम ऋण	2,95,32	6,08,15
(iv)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत कार्यक्रम ऋण	164,10,29	181,59,72
(v)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत कार्यक्रम ऋण	218,71,95	252,91,48
(vi)	कृषि क्षेत्र संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत कार्यक्रम ऋण	96	2,88
(vii)	सह-वित्तपोषण ऋण	0	12,14
(viii)	नाबार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण	1,36,82	0
	कुल	430712,80,36	352359,73,57

समेकित अनुसूची 12 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 का नोट आ-19 देखें)		
	अथशेष	185,84,11	181,97,92
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	0	3,86,19
	उप-जोड़	185,84,11	185,84,11
	घटाएं : बेची गई /बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इतिशेष (लागत पर)	185,84,11	185,84,11
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	57,18,86	55,29,63
	बही मूल्य	128,65,25	130,54,48
2	परिसर (अनुसूची 18 का नोट आ-19 देखें)		
	अथशेष	416,79,99	410,97,49
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	7,59,10	5,82,50
	उप-जोड़	424,39,09	416,79,99
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इतिशेष (लागत पर)	424,39,09	416,79,99
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	263,98,17	244,34,37
	बही मूल्य	160,40,92	172,45,62
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	अथशेष	69,31,14	63,09,78
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	2,08,11	6,83,35
	उप-जोड़	71,39,25	69,93,13
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1,00,39	61,98
	इतिशेष (लागत पर)	70,38,86	69,31,15
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	62,68,14	61,34,29
	बही मूल्य	7,70,72	7,96,86
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	अथशेष	123,70,97	109,15,54
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	14,68,84	18,49,48
	उप-जोड़	138,39,81	127,65,02
	घटाएं : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3,59,99	3,94,05
	इतिशेष (लागत पर)	134,79,82	123,70,97
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	109,97,05	103,40,24
	बही मूल्य	24,82,77	20,30,73

5	वाहन		
	अथशेष	8,88,87	8,75,54
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	4,96,63	2,06,66
	उप-जोड़	13,85,50	10,82,20
	घटाएं : बेची हुई/बड़े खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	3,75,36	1,93,33
	इतिशेष (लागत पर)	10,10,14	8,88,87
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	3,96,68	4,97,46
	बही मूल्य	6,13,46	3,91,41
6	चल रहे पूंजीगत कार्य	196,35,67	151,05,90
	कुल	524,08,79	48,62,500

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2019 को
1	उपचित ब्याज	3515,20,36	3300,06,22
2	डिस्काउंट प्राप्त	121,32,29	418,67,60
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,68,15	1,77,11
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	37,73,91	36,60,91
5	स्टाफ को आवास ऋण	141,02,75	127,77,02
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	95,38,84	97,51,32
7	विविध अग्रिम	152,51,20	120,88,74
8	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 का नोट आ-9 देखें)	205,69,10	196,32,50
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त राशियां (अनुसूची 18 का नोट आ-3 देखें)	749,39,88	146,44,18
10	बॉण्ड जारी करने पर डिस्काउंट	9,24,93	0
	कुल	5029,21,41	4446,05,60

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	भुगतान किया गया ब्याज		
क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों पर	6088,80,39	6276,76,17
ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर (अनुसूची 18 का नोट आ-6 देखें)	2029,82,73	1954,54,21
ग)	एसटीआरआरबी ऋण पुनर्वित्त निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-6 देखें)	435,96,20	438,73,22
घ)	भंडारण आधारभूत संरचना निधि	279,49,16	221,74,67
ड)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1812,84,69	1586,40,35
च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	16,08,05	13,48,10
छ)	चाय/कॉफी/रबड़ जमाराशियों पर	6,77,66	7,87,99
ज)	सीबीएस जमाराशियों पर	72	1,05

झ)	मियादी मुद्रा उधार	253,76,07	159,40,74
ज)	बॉण्ड (अनुसूची 18 का नोट आ-6 देखें)	6127,42,54	4475,12,40
ट)	कॉरपोरेट ऋण	827,08,10	1,66,85
ठ)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	30,39,71	22,50,95
ड)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	4,63	50,23
ढ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2785,01,16	1527,90,18
ण)	जमाराशि प्रमाण पत्रों पर डिस्काउंट	563,72,27	346,75,31
त)	रेपो ब्याज व्यय	157,08,89	198,95,61
थ)	निधियों पर ब्याज भुगतान	330,93,39	232,95,66
2	सीबीएलओ /टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	373,17,79	360,19,52
3	बॉन्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय पर	41,61,92	22,96,68
4	स्वैप प्रभार	39,54,90	6,03
	कुल	22199,60,97	17848,55,92

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 का नोट आ-8 देखें)	1085,21,50	898,44,31
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान/ में अंशदान	435,93,72	701,78,87
3	अन्य अभिलाभ एवं भत्ते	66,20,06	57,70,00
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	47,21	40,70
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	20,70	18,90
6	किराया, दरें, बीमा, लाइटिंग आदि	37,51,16	37,04,40
7	यात्रा व्यय	48,29,81	44,85,56
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	6,79,50	6,56,80
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	19,12,11	19,53,30
10	मरम्मत	50,41,50	39,73,77
11	लेखापरीक्षकों के शुल्क	,47,56	45,33
12	विधिक प्रभार	2,04,31	1,53,91
13	विविध व्यय	145,85,31	138,74,94
14	विविध आस्तियों पर व्यय	10,42,97	7,65,39
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	87,16,28	72,30,62
	कुल	1996,13,70	2026,96,80

समेकित अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	सहकारिता विकास निधि	16,65,67	18,77,59
(ii)	उत्पादक संगठन विकास निधि	1,69,03	2,55,94
(iii)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	5,39,31	2,49,48
(iv)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	21,32,28	20,88,28
(v)	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	16,45	1,03,53
(vi)	ग्राम्य विकास निधि	16,18,62	6,78,99
	कुल	61,41,36	52,53,81

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	312,77,61	186,49,15
2 (क)	अनर्जक आस्तियां	232,41,54	24,40,02
2 (ख)	अनर्जक आस्तियां - स्टाफ	-30,46	29,18
3	पुनःसंरचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	0	0
4	अन्य आस्तियां/प्राप्य राशियां	0	0
	कुल	544,88,69	211,18,35

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	32,75,96	83,99,67
	उप जोड़ "अ"	32,75,96	83,99,67
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक गारंटी	25,02,86	21,69,75
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	0	0
	उप जोड़ "आ"	25,02,86	21,69,75
	कुल (अ + आ)	57,78,82	105,69,42

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

(₹ हजार में)

विवरण	2018-2019	2017-2018
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ	5061,79,76	4438,68,57
के लिए समायोजन:		
मूल्यहास	35,32,49	18,36,84
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	229,59,10	22,57,05
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	309,50,44	185,76,20
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	23,16	-21,03
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में की गई वृद्धि/ समायोजन सहित)	330,93,39	232,92,28
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	-3370,93,63	-2996,53,41
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	2596,44,71	1901,56,50
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	6947,15,41	-8771,87,76
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	-1829,78,13	-1255,04,58
ऋण और अग्रिम में वृद्धि (कर्मचारियों के लिए आवास ऋण और अन्य अग्रिम सहित)	-78466,07,24	-46825,18,15
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी	-70752,25,24	-54950,53,99
आयकर का भुगतान - रिफंड को घटाकर	863,05,62	-1485,05,15
जनजातीय विकास निधि/ वित्तीय समावेशन निधि/ वाटरशेड विकास निधि को नामे किए गए डब्ल्यूआईएफ/ एफपीएफ ब्याज अंतर की राशि		
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	-69889,19,62	-56435,59,14
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3370,93,64	2996,53,41
अचल आस्तियों की खरीद	-80,57,00	-106,93,90
अचल आस्तियों की बिक्री	7,17,55	6,49,66
निवेश में वृद्धि/ कमी	-9479,34,46	-5627,99,87
निवेश गतिविधियों से उपयोग किया गया/ अर्जित निवल (आ)	-6181,80,27	-2731,90,70
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	-262,07,41	-441,15,07
बॉण्ड से प्रतिफल	31781,87,15	23483,61,72
उधार में वृद्धि / (कमी)	33787,29,07	10120,19,34
जमा में वृद्धि / (कमी)	9696,68,77	20035,15,45
लाभांश पर कर सहित लाभांश का भुगतान	-10,12,92	-7,73,66

शेयर पूंजी में वृद्धि	2087,25,98	3889,44,00
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी (इ)	77080,90,64	57079,51,79
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	1009,90,75	-2087,98,04
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	2045,56,91	4133,54,95
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	3055,47,66	2045,56,91
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:	2018-2019	2017-2018
हस्ते रोकड़	21	29
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1405,57,37	187,31,46
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष	548,11,47	193,16,92
मार्गस्थ प्रेषण	528,59,10	460,84,72
सीबीएलओ/ ट्राई पार्टी रेपो	573,19,51	1204,23,52
कुल	3055,47,66	2045,56,91

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण सं. 105146 डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं.एफ-033494

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार बंसल
निदेशक

सी पार्थसारथी
निदेशक

ए के पाट्टी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

मुंबई
22 मई 2019

अनुसूची 18

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के अपने निवेश की लागत के अधिक्त्य/ कमी को आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है।

समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उसे उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के एकल रूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार सहायक कंपनियों से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति को पुनःसमूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समेकन में उपयोग किए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित नोटों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का अभिप्राय सूचनापरक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मार्गदर्शन करना है। इस संबंध में बैंक ने ऐसे नोटों तथा नीतियों का प्रकटीकरण किया है जो जरूरी प्रकटीकरण को ठीक-ठीक प्रस्तुत करते हैं और मूल तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोटों एवं सांविधिक अनुरूपताओं को छोड़ दिया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं है।

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को, अंतःसमूह शेषों और अंतःसमूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा देने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को पंक्ति-दर पंक्ति आधार पर एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। अंतःसमूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा लागत वसूल किए जाने तक अंतःसमूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनोंरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई और शेयर धारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायोजित किया गया। समेकित सहायक संस्थाओं की हानि में अन्य हितधारकों का हिस्सा यदि इक्विटी में उनके हिस्से से अधिक होता है तो अन्य हितधारकों से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के हित के समक्ष समायोजित किया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनोंरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है।

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएं शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
		2018-19	2017-18
नैबकिसान फाइनांस लि.	भारत	82.51	80.84
नैबसमृद्धि फाइनांस लि.	भारत	83.50	78.83
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (नैबफिन्स)	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	भारत	100	100
नैबवैचर्स लि.	भारत	100	--

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएं ऐसे परिणामों के वर्ष में दर्शाई जाती हैं।

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज।
- ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय।
- विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार।
- किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर ₹ 10,000 तक के व्यय।
- ऋण प्रसंस्करण के लिए ग्राहकों से लिया गया अपफ्रंट प्रोसेसिंग शुल्क।
- डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत नैबकॉन्स द्वारा प्राप्त की गई अनुप्रवर्तन लागत।

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया। बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है।

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है।

5.4 जहां नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी आधार पर सब्सिडी जारी करने संबंधी लेखांकन किया गया है।

5.5 उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है।

5.6 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- दंडात्मक ब्याज
- लागत और प्रभार
- अतिदेय ब्याज और ब्याज
- मूलधन

5.7 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए अवधिगत अनुपात के आधार पर गणना में लिया गया है।

5.8 सेवाओं से आय (नैबकॉन्स)

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है। सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुसूची व्यय को गणना में लिया गया है। सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना गया है।

- डीपीआर परियोजना के मामले में, जब पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई हो।
- अन्य कार्यों के मामले में, जिनका निष्पादन किसी अवधि में किया जाना है, पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और प्रभावी की जा चुकी सुपुर्दगियों, निष्पादन की स्थिति और पूरी की गई अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है।
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा हो, तो ऐसे मामले में पूरी हुई अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है।

5.8.2 विदेश से प्राप्त कार्यों के मामले में, निष्पादन होते ही आय को मान्य किया गया है।

5.8.3 प्रबंध तंत्र की राय के अनुसार, जिन कार्यों को जारी नहीं रखा जाना है उन्हें "जैसा है जहां है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है।

5.8.4 वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है। इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

5.8.5 करार की शर्तों के अनुसार 'पास थ्रू एजेंसी' और अनुप्रवर्तन एजेंसी के कार्य के संबंध में, नैबकॉन्स प्रत्येक किस्त जारी करते समय जारी की गई राशि से प्रोफेशनल शुल्क के रूप में 1.5% राशि की कटौती करने हेतु अधिकृत है। प्रत्येक किस्त की राशि जारी करते समय आय को मान्य किया गया है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां) और मूल्यहास:

क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है।

ख) भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है।

ग) परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

घ) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की नीति में संशोधन किया गया है और सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 30 वर्षों की अवधि के लिए इसकी गणना की गई है।

ड) ₹1 लाख और उससे कम लागत की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को पूंजीकृत किया गया है यदि प्रत्येक मद की लागत ₹ 10,000 से अधिक है। ₹ 1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है।

- च) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यहास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	मूल्यहास दर
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- छ) पिछले वर्ष के दौरान मूल्यहास नीति में संशोधन किया गया है। तदनुसार खरीदने के वर्ष में आस्ति पूंजीकृत होने के महीने से और आस्ति के बिक्री करने के वर्ष के महीने तक मूल्यहास प्रभारित किया गया है। इससे पूर्व मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया था, चाहे आस्ति का क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो और बिक्री वर्ष में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया था।

- ज) वर्तमान में चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजी अग्रिम शामिल है और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

- झ) सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यहास की गणना निम्नानुसार की गई है:

सहायक संस्था का नाम	मूल्यहास की प्रणाली
नैबकिसान फाइनांस लि.	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि फाइनांस लि.	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नाबार्ड फाइनांशियल सर्विसेस लिमिटेड (नैबफिन्स)	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नाबार्ड कन्सलटेंसी प्रा.लि.(नैबकॉन्स)	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबवैचर्स लि.	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश:

- क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी), "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एफएएस) और "परिपक्वता तक धारित" (एचएमटी) श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणी" लिखा गया है) में वर्गीकृत किया गया है।
- ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियां इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आती उन्हें "एफएएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- ग) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर रखा गया है, जहां लागत अंकित मूल्य के बराबर है अथवा उससे कम। यदि लागत अंकित मूल्य से अधिक है तो, परिपक्वता के लिए शेष अवधि के दौरान के प्रीमियम को परिशोधित किया गया है। "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में, जहां भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी/परिशोधन हेतु प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- घ) "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के उन्मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है और फिर उसे प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है।
- ड) "एफएएस" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्रा.लि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है। "एफएएस" के

रूप में वर्गीकृत श्रेणी वाले निवेशों के लिए निवल मूल्यहास (यदि कोई है) का प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के अंकित मूल्य को नहीं बदला गया है।

- च) "एचएफटी" श्रेणी के अंतर्गत, निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर, स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है। "एचएफटी" श्रेणीकृत निवेशों के लिए मूल्यहास /मूल्यवृद्धि को मान्य किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के अंकित मूल्य को बदला गया है।
- छ) सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ज) खजाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण-पत्रों का मूल्य वहन लागत पर लिया गया है।
- झ) जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उनके अद्यतन लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं तो अनकोटेड शेयरों का मूल्य ब्रेकअप मूल्य पर लिया गया है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी ₹ 1/- पर उनका मूल्य निर्धारित किया गया जाता है।
- ञ) अधिग्रहण के समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी समेत निवेश के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- ट) शेयर बाजार में शेयरों के अधिग्रहण/बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज को पूंजीकृत किया गया है।
- ठ) ऋण निवेश पर अदा/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और लागत/बिक्री हेतु उसे नहीं लिया गया है।
- ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारत औसत लागत प्रणाली अपनाई गई है।
- त) उद्यम पूंजी निधि में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान:

- क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- ख) अग्रिमों की पुनः संरचना/पुनः अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- ग) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को उनसे घटा कर दिखाया गया है।
- घ) निधियों से प्रदान किए गए ऋणों में से अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन:

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन प्रबंध निम्नानुसार किया गया है:

- क) वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुनः मूल्यांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए हिस्से को संविदागत मूल्य पर दर्शाया गया है तथा

वर्ष की समाप्ति पर विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलन-पत्र में कॉण्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद के रूप में) प्रकट किया गया।

ख) आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं हेतु लेखांकन

क) विदेशी विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं।

ख) हेज की गई विदेशी मुद्रा के उधार को संविदागत मूल्य पर दर्शाया गया है।

ग) वर्ष के अंत में हेज नहीं की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का एफडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/घाटे को लाभ और हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा खातों के पुनः मूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है। प्रीमियम/ डिस्काउंट को संविदा जारी रहने की अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है।

घ) विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर लाभ/ घाटे को लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खातों के पुनः मूल्यांकन पर लाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ:

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी समझे गए हैं और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यथा-आवश्यक बीमांकिकीय मूल्यांकन किया गया है।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबहाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात् लाभ:

i) पारिभाषित अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंशदान उपचय आधार पर मान्य किए गए हैं।

क) बैंक ने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं। बैंक ने एक पारिभाषित अंशदान योजना 'एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किए जाते हैं।

ख) नैबकॉन्स के मामले में, बोनस के लिए प्रावधान केवल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ही किया गया है, तथापि, विस्तृत कानूनी मत प्राप्त होना बाकी होने से 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है।

ii) पारिभाषित लाभ योजना

क) सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में प्रक्षेपित इकाई जमा प्रणाली के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाता है। इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। बीमांकिकीय लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में उपचय के आधार पर मान्य किया गया है।

- ख) 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं। सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए पात्र हैं। अन्य प्रदत्त दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकीय मूल्यन के आधार पर किया जाता है। बीमांकीय लाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर दर्शाया गया है।

12. आय पर कर

- क) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं एवं निर्धारणों/अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण किया गया है।
- ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है।
- ग) अवशोषित न हुए मूल्यहास/व्यावसायिक हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए/प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधि के व्यय के रूप में की गई है।

13. खंड रिपोर्टिंग

- क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।
- ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उसे 'अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है।
- ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/खंड को आबंटन-योग्य हैं, उन्हें उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है।
- घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने योग्य आस्तियां और देयताएं शामिल हैं।

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

क) प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

- i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा
- ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो तो, किया जा सके।

ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक स्तर पर किया जा सके यदि,

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व हो,

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो, और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

15.2 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित मामलों में प्रकट किया गया:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि

दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हो।

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, बैंक में मांग जमा राशि और अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है।

(ख) नकदी प्रवाह विवरणी को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर संचालन, वित्त पोषण और निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

17. पूर्व अवधि आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को तभी अलग से प्रकट किया गया है जब पूर्व की एकल आय/ व्यय मद सकल आय के 0.5% से अधिक हो।

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञापित सं.11/10/2009 सीएल-वी के तहत बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए इंड एस आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे जिन्हें 31 मार्च 2018 और इसके बाद समाप्त होने वाली अवधि से तुलनात्मक होना होगा. एआईएफआई द्वारा इंड एस का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगली सूचना प्राप्त होने तक आस्थगित कर दिया गया है।

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/ आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है। इस निधि से दिए गए ऋण को प्रत्यक्ष ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 11 में प्रकट किया गया है। यूपीएनआरएम संबंधी उधार को 'अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार' की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 7 के तहत प्रकट किया गया है। वर्ष के दौरान इस निधि के अंतर्गत आय पर व्यय को दर्शाती हुई ₹ 56.98 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

2. प्रबंधन तंत्र द्वारा किए गए अनुमोदन/ तत्संबंधी करारों के अनुसार निम्नलिखित निधियों में अप्रयुक्त शेष पर ब्याज को जमा किया गया है। संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	2018-19 के लिए ब्याज दर	2017-18 के लिए ब्याज दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	4%	4%
2.	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडोजर्मेन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	4%	4%
3.	केएफडब्ल्यू - सहबद्ध उपाय	4%	4%
4.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	4%	4%
5.	जनजातीय विकास निधि	4%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	4%	4%
7.	केएफडब्ल्यू नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम-गुजरात	4%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)- परियोजना निर्माण अनुदान	4%	--
9.	एलटीआईएफ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	4%	--
10.	पीओडीएफ-आईडी	4%	--
11.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	8.05%	6.57%
12.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु-गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	8.05%	6.57%
13.	सेंटर फॉर प्रॉफेशनल एक्सेलेन्स इन को-ऑपरेटिव्स	8.05%	6.57%
14.	केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX- आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	--	6.57%

3. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य ₹ 1.44 करोड़ (₹ 43.35 करोड़) में विविध निधियों का नाम अधिशेष शामिल है। ऐसी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निधि का नाम	31-03-2019	31-03-2018
1	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	0.91	2.00
2	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडोजर्मेन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (राजस्थान)	0.00	0.62
3	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.53	3.72
4	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडोजर्मेन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (गुजरात)	0.00	0.97
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि [नोट आ-1 देखें]	0.00	35.92
6	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम - तकनीकी सहयोग	0.00	0.12

4. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीआईएफ) के संबंध में अंशदाताओं की बकाया राशियों में विविध लेनदारों की ₹ 30.43 करोड़ (₹ 30.32 करोड़) की राशि शामिल है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा की गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां, भंडारण आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि में

उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक संबंधित मार्जिन बैंक को उपलब्ध होता है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि, जनजातीय विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ में जमा किया गया। पिछले वर्ष, ये राशियां वाटरशेड विकास निधि, जनजातीय विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ में जमा की गई थीं।

6. भारत सरकार से विविध योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता की राशि नीचे दी गई है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	2018-19	2017-18
1	दीर्घावधि सिंचाई निधि	89.46	0.00
2	मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ)	-264.83	319.09
3	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)	8.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	19.63	12.83

7. अन्य प्राप्तियों में ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और मस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों और एनआरएलएम योजना के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को पुनर्वित्त देने पर हुए प्रशासनिक व्ययों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ₹ 106.90 करोड़ (₹ 123.03 करोड़) की राशि भी शामिल है।
8. बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। 01 नवम्बर 2017 से समीक्षा लंबित है। इस लंबित निपटान के लिए वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ (₹ 100 करोड़) की राशि वेतन और भत्ते शीर्ष पर उपलब्ध करायी गयी।
9. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखा मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, ₹ 9.21 करोड़ (₹13.15 करोड़) के आस्थगित कर को लाभ और हानि खाते में दर्शाया. आस्थगित कर का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	171.63	170.22
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	31.92	24.12
	जोड़	203.55	194.34

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है।

10. कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि आयकर विभाग द्वारा ₹ 373.15 करोड़ निर्धारित की गई है। बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था और इस राशि का भुगतान कर दिया गया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है।
11. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के कर निर्धारणों को पुनः खोला, जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त- अपील [सीआईटी(ए)] ने फैसला दिया. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
12. कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कर-निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 313.07 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया था जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था. आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।

13. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 294.31 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आयकर विभाग ने आईटीएटी, मुंबई में सीआईटी(ए) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
14. कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 340.81 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
15. कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 392.94 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
16. कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 438.37 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
17. कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 428.16 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई जिसे सीआईटी(ए) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, मुम्बई में अपील दायर की है। आईटीएटी में लंबित अपील के मद्देनजर आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज सहित रिफंड को आयकर रिफंड खाते में रखा गया है।
18. कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 372.00 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई। लेकिन बैंक ने सीआईटी (अपील) में उपर्युक्त के विरुद्ध अपील दायर की है।
19. (क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीज भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भुगतान की गई ₹ 14.00 करोड़ (₹ 14.00 करोड़) की राशि शामिल है जिनका हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ।
(ख) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लीज भूमि और पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में परिसर की मूल्यहास नीति में संशोधन किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मूल्यहास नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्व की नीति के अंतर्गत हुए ₹ 10.39 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास को प्रत्यावर्तित किया गया।
(ग) बैंक प्रबंधन के मतानुसार, आस्तियों की ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिसके मामले में एएस-28 “आस्तियों की क्षति” लागू हो और किसी तरह के प्रावधान की आवश्यकता हो।
20. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अंशदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:
(क) निवेश के रूप में वर्गीकृत और अनुसूची-10 में 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया।
(ख) इस पर अर्जित ब्याज को 'मान्य अग्रिम' मानते हुए लाभ और हानि लेखा में 'ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दिखाया गया है।
(ग) आईआरएसी मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता और अनुपात की गणना आदि उद्देश्य के लिए 'मान्य अग्रिम'।
21. वित्तीय विवरणों की तिथि पर, आरआईडीएफ के अंतर्गत विविध राज्य सरकारों को संवितरित राशि में से, ₹ 472.56 करोड़ (₹ 560.63 करोड़) शुरू न हुई परियोजनाओं से संबन्धित है। संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ इस राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से लंबित प्रस्ताव के मद्देनजर, इस राशि को इस निधि में से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

22. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 फरवरी 2016 की अधिसूचना के संदर्भ में, नाबार्ड को रु.5000 करोड़ तक की राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(15)(iv)(एच) के अंतर्गत लाभ प्राप्त योग्य कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, 10 वर्षों की अवधि में चुकौती योग्य रु.1,500 करोड़ निजी प्लेसमेंट से तथा 10 और 15 वर्षों की अवधि में चुकौती योग्य रु.3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू से एकत्रित किए गए. कर मुक्त बॉण्ड सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड के स्वरूप में हैं। ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति के समक्ष समरूप प्रभार पर तथा नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋणों पर प्रथम प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्ड से संबंधित राजस्व पर लगाया गया ब्याज ₹365.74 करोड़ (₹365.79 करोड़) है।

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

एक्सिस हाउस, सेकंड फ्लोर

वाडिया इंटरनेशनल सेंटर

पांडुरंग बुधकर मार्ग

वर्ली, मुंबई -400 025

दूरभाष : 022 24255215/5216

23. वेंचर पूंजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित आरबीआई के 01 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/ 104 डीबीआर. सं. एफआईडी. एफआईसी. 3/01.02.00/2015-16 के अनुसार, वीसीएफ की इकाइयों में लगाई गई रु. 33.78 करोड़ (रु.15.92 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में स्थानांतरित किया गया।
24. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	750.00 (648.00)	783.15 (676.64)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो)	8301.13 (8856.00)	8639.18 (8972.64)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट फंड	50.00 (27.00)	52.21 (28.19)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो) डिफाल्ट फंड	50.00 (25.00)	52.21 (26.10)

25. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश- 23 जून 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं समझा जा रहा है और इसलिए इन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है।

26. एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक आकस्मिक देयताओं में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अथशेष	21.69	16.94
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	25.02	21.69
वर्ष के दौरान हटाई गई राशि	21.69	16.94
इतिशेष	25.02	21.69

27. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मर्दे निम्नानुसार हैं:

राशि (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल		0.00	0.00

28. लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

चूंकि एस-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अतः अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है।

संबंधित पार्टियों की सूची :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

पार्टी का नाम	पदनाम
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	अध्यक्ष
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	उप प्रबंध निदेशक
श्री आर अमलोरपवनाथन	उप प्रबंध निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन:

राशि (₹ करोड़ में)

पार्टी का नाम	संबंध का स्वरूप	लेन-देन का स्वरूप	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि	बकाया
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.50(0.52)	0.00(0.00)
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.65(0.40)	0.00 (0.00)
श्री आर अमलोरपवनाथन	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.59(0.45)	0.00 (0.00)

संबंधित पार्टियों के संबंध में वर्ष के दौरान कोई भी राशि अपलिखित/ प्रतिलिखित नहीं की गई अथवा उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। संबंधित पार्टियों के संबंधों को प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है तथा लेखापरीक्षकों ने इनपर विश्वास किया गया है।

29. व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण: ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिया गया ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण और सहकारी बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण इस खंड में शामिल हैं।
- पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों के समक्ष प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है।
- ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है।
- अनाबंटित: इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्ति से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है।

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड से संबंधित सूचना

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष वित्त		अन्य व्यवसाय		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
व्यवसाय खंड										
राजस्व	3355.75	2987.81	14677.67	12240.71	11766.13	9256.82	99.64	110.97	29899.19	24596.30
परिणाम	1597.97	511.25	2807.31	3416.34	2578.23	2287.20	-1921.71	-1776.11	5061.80	4438.69
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									5061.80	4438.69
आयकर									1628.97	1420.17
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									3432.83	3018.52
अन्य सूचनाएं										
अस्तियां खंड	48463.49	47809.01	225952.75	190887.18	209178.56	165719.86	4343.28	2579.60	487938.08	406995.65
देयता खंड	78950.65	45487.70	197007.59	191389.94	158206.69	124887.75	53773.15	45230.27	487938.08	406995.65
अनाबंटित देयता									45230.27	38258.65
कुल देयता									487938.08	406995.65

(ग) चूँकि बैंक का परिचालन भारत के भीतर ही होता है अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई द्वितीय खंड नहीं है।

30. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

31. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां, पुनःसमूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी

(पूर्व खीमजी कुंवरजी एंड कं.)

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू

हसमुख डेढ़िया

साझेदार

सदस्यता सं.एफ-033494

मुंबई

22 मई 2019

सुधीर कुमार जन्नावर

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्षआर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशकअनिल कुमार बंसल
निदेशकसी पार्थसारथी
निदेशकए के पाटी
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 17th July 2019

DBR.PSBD. No. 503/16.01.160/2019-20—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from June 10, 2019 in the Second Schedule to the said Act, namely:—

For the words “The Catholic Syrian Bank Limited”, the words “CSB Bank Limited” shall be substituted.

LILY VADERA
Executive Director

GSR ORDER

Date : 30 July 2019

No. GSR

In pursuance of Section 48(5) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Balance Sheet of the National Bank for Agriculture and Rural Development as on 31 March 2019, the Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2019 (April 2018—March 2019) and the Report of the Auditors for the year are published herewith.

A K PARHI
Chief General Manager & Secretary
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
Mumbai

ANNUAL ACCOUNTS 2018—19
Balance Sheet Profit & Loss Account & Cash Flow 2018—19 of NABARD
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To:

The Board of Directors of
National Bank for Agriculture and Rural Development

REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Bank' or 'NABARD'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements exhibit a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019, its profits and its cash flows for the year ended on that date.

BASIS OF OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our opinion.

Incorporated in these financial statements are the returns of 17 Regional Offices and 1 Training Centre visited by us for the purposes of audit and the same including Head Office, account for 81.46% of advances, 99.99% of deposits,

82.36% of interest income and 99.25% of interest expenses. These Offices and Training Centre have been selected in consultation with the management of the Bank. We have not visited other remaining offices of the Bank i.e. 14 Regional Offices and 2 Training Centres but have reviewed their returns at the Head Office.

KEY AUDIT MATTERS

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements, as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on the key audit matters. In our professional judgement, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report:

Particulars of the Key Audit Matter	Audit processes in the matter
<p>Multiple IT Systems:</p> <p>The Bank is dependent on technology considering significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology ('IT') systems. The audit approach relies extensively on several reports generated by interface of these IT systems and in-built automated controls therein.</p> <p>The major IT systems concerning the financial reporting process include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLMAS – transactions processing and financial reporting system • TALMS – Treasury Operations • Empower HRMS – HR and payroll • Various workflows inputting data into CLMAS • FAMS – Property, Plant and Equipment • Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports <p>IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to the applications and data.</p> <p>Management of the Bank is in the process of implementing several remediation activities that are expected to contribute to reducing the risk over IT applications in the financial reporting process. These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure.</p> <p>Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned our audit by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.</p>	<p>We performed a range of audit procedures, which included:</p> <p>Review of the report of IS Audit carried by an independent firm of Chartered Accountants pertaining to IT systems general controls including access rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting.</p> <p>Our audit tests were designed to cover the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • understanding the Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit; • reviewed the workflow of core transactions as captured by the IT systems; • selectively tested key automated and manual business cycle controls including logic for system generated reports relevant to the financial reporting; • selectively recomputing interest calculations and maturity dates; • Selectively re-evaluating masters updating, interface with resultant reports; • Selective testing of the interface of CLMAS with other IT systems like TALMS, Empower and workflows;

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

4. The Bank's management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Board of Directors and such other disclosures included in the Bank's annual report, excluding the Financial Statements and auditors' report thereon ('Other Information').

The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the standalone Financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other Information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charges with governance as required under SA 720 'The Auditor's responsibilities Relating to other Information'.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

5. Management of the Bank is responsible for the preparation of the Standalone Financial Statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements, as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements. Our audit process in accordance with the SAs is narrated in Annexure 1 to this report.

OTHER MATTER

7. The comparative financial information of the Bank for the previous year ended March 31, 2018 included in these Standalone Financial Statements, are based on the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in India, as audited by Vyas & Vyas, Chartered Accountants for the year ended March 31, 2018 whose reports dated May 25, 2018 expressed an unmodified opinion on those financial statements. Our opinion is not modified in respect of this matter.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up as per Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984.

As required by the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, we report that:

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice in course of our audit, have been within the powers of the Bank.
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the regional offices and training centers not visited by us.
- d. In our opinion, the Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards.

For
Khimji Kunverji & Co LLP
(Formerly Khimji Kunverji & Co)
Chartered Accountants
Firm's Registration No: 105146W

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Membership No: 033494

Place: Mumbai
Date: 22 May 2019

Annexure 1 to the Independent Auditors' Report

(referred to in para 6 titled "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements")

As part of our audit in accordance with SAs we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, to design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence for material items that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management of the Bank.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditor's Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	i) Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		12580,00,00	5000,00,00
	ii) Advance towards Share Capital		0	5580,00,00
	Total		12580,00,00	10580,00,00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	31322,42,85	27915,93,78
3	National Rural Credit Funds	2	16086,00,00	16082,00,00
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	5701,46,74	5456,12,02
5	Government Schemes	4	1244,84,46	1423,33,19
6	Minority Interest	1A	146,01,39	121,25,06
7	Deposits	5	224146,66,19	214449,97,42
8	Bonds and Debentures	6	105802,99,28	74020,15,49
9	Borrowings	7	77971,03,09	44568,75,87
10	Current Liabilities and Provisions	8	12936,63,96	12378,12,38
	Total		487938,07,96	406995,62,21
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		1088,25,16	834,38,70

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No	PROPERTY AND ASSETS	SCHED ULE	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Cash and Bank Balances	9	12318,53,43	18898,32,56
2	Investments	10	39353,43,97	30805,28,48
3	Advances	11	430712,80,36	352359,73,57
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	524,08,79	486,25,00
5	Other Assets	13	5029,21,41	4446,05,60
	Total		487938,07,96	406995,65,21
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		1088,25,16	834,38,70
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co. LLP
(formerly Khimji Kunverji & Co)
Chartered Accountants
FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia
Partner
M No. F-033494

Sudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts Department

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

Anil Kumar Bansal
Director

C Parthasarathi
Director

A.K. Parhi
Chief General Manager & Secretary

Mumbai
Date : 22 May 2019

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
STAND ALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No.	INCOME	SCHE DULE	2018-19	2017-18
1	Interest on Loans and Advances		26141,80,31	21226,01,09
2	Income from Investment Operations/Deposits		3353,90,69	2983,03,07
3	Other Income (Refer Note B-7 of Schedule 18)		172,19,80	181,64,82
	Total "A"		29667,90,80	24390,68,98

Sr. No.	EXPENDITURE	SCHE DULE	2018-19	2017-18
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-6 of Schedule-18)	14	22198,71,63	17847,06,94
2	Establishment and Other Expenses	15 A	1892,56,14	1934,33,36
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	61,41,36	52,53,81
4	Provisions	16	522,27,54	186,13,11
5	Depreciation		33,59,36	16,82,25
	Total "B"		24708,56,03	20036,89,47
6	Profit before Tax (A - B)		4959,34,77	4353,79,51
7	Provision for			
	a) Income Tax		1604,00,00	1405,00,00
	b) Deferred Tax (Refer Note B-9 of Schedule 18)		-9,21,00	-13,15,00
8	Profit after Tax		3364,55,77	2961,94,51
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(₹ in thousands)

Sr. No.	APPROPRIATIONS/WITHDRAWALS	2018-19	2017-18
1	Profit for the year brought down	3364,55,77	2961,94,51
2	Add:		
	Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c [Refer Schedule 1 & 2]		
a)	Co-operative Development Fund	16,65,67	18,77,58
b)	Research and Development Fund	35,45,43	28,93,47
c)	Producers Organisation Development Fund	1,69,03	2,55,94
d)	Investment Fluctuation Reserve	14,34,15	148,01,07
e)	Rural Infrastructure Promotion Fund	5,39,31	2,49,48
f)	Farm Sector Promotion Fund	21,32,28	20,88,29
g)	Climate Change Fund	16,45	1,03,53
h)	Gramya Vikas Nidhi	16,18,62	6,78,99
2.1	Withdrawals of Funds which have been closed		
a)	MFDEF	0	28,03
3	Profit available for Appropriation	3475,76,71	3191,70,89
	Less: Transferred to: [Refer Schedule 1&2]		
a)	Special Reserves u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	800,00,00	700,00,00
b)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1,00,00	1,00,00
c)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,00,00	1,00,00
d)	Research and Development Fund	35,45,43	28,93,47
e)	Investment Fluctuation Reserve	61,84,15	374,01,07
f)	Co-operative Development Fund	16,65,67	18,77,58
g)	Producers' Organizations Development Fund	1,69,03	2,55,94
h)	Rural Infrastructure Promotion Fund	10,39,31	6,27,28
i)	Farm Sector Promotion Fund	21,32,28	20,88,29
j)	Gramya Vikas Nidhi	46,18,62	26,78,99
k)	Climate Change Fund	5,16,45	6,03,53
l)	Reserve Fund	2475,05,77	2005,44,74
	Total	3475,76,71	3191,70,89

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP

(formerly Khimji Kunverji & Co)

Chartered Accountants

FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia

Partner

M No. F-033494

Harsh Kumar Bhanwala

Chairman

R Amalorpavanathan

Deputy Managing Director

Anil Kumar Bansal

Director

Sudhir Kumar Jannawar

Chief General Manager

Accounts Department

C Parthasarathi

Director

A.K. Parhi,

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

Date : 22 May 2019

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2019
1	Reserve Fund	18356,39,15	2475,05,77	0	20831,44,92
2	Research and Development Fund	50,00,00	35,45,43	35,45,43	50,00,00
3	Capital Reserve	74,80,53	0	0	74,80,53
4	Investment Fluctuation Reserve	1150,00,00	61,84,15	14,34,15	1197,50,00
5	Co-operative Development Fund	60,00,00	16,65,67	16,65,67	60,00,00
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	7785,00,00	800,00,00	0	8585,00,00
7	Producers' Organizations Development Fund	100,00,00	1,69,03	1,69,03	100,00,00
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	20,00,00	10,39,31	5,39,31	25,00,00
9	Farm Sector Promotion Fund	60,00,00	21,32,28	21,32,28	60,00,00
10	Gramya Vikas Nidhi	60,00,00	46,18,62	16,18,62	90,00,00
11	Climate Change Fund	15,00,00	5,16,45	16,45	20,00,00
	Total	27731,19,68	3473,76,71	111,20,94	31093,75,45
	Previous year	24770,97,15	3189,70,89	229,48,36	27731,19,68

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2019
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14491,00,00	1,00,00	1,00,00	14493,00,00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1591,00,00	1,00,00	1,00,00	1593,00,00
	Total	16082,00,00	2,00,00	2,00,00	16086,00,00
	Previous year	16078,00,00	2,00,00	2,00,00	16082,00,00

Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions						
Sr. No	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Additions during the year	Interest Credited *	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2019
(₹ in thousands)						
A.	Grants from International Agencies					
1	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	1,10,95	1,62,99	2,46	2,26,95	49,45
2	KfW NB UPNRM - Accompanying Measures	0	3,89,24	0	3,89,24	0
3	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	14,73	,0	0	0	14,73
4	KfW UPNRM Fund [Refer B-1 of Schedule 18]	0	0	0	0	0
5	KfW Risk Mitigation Fund	0	7,98,70	0	0	7,98,70
6	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	1,21,73	0	3,49	63,42	61,80
7	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	0	5,28,36	28	4,70,29	58,35
8	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	0	7,55,31	21	7,31,68	23,84
9	GIZ UPNRM Technical Coraboration	0	1,21,00	0	48,64	72,36
10	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	7,23,17	17,33,83	1,24,27	14,40,24	11,41,03
11	National Adaptation Fund for Climate Change a/c	213,50,35	109,50,48	7,63,88	127,70,50	202,94,21
12	GIZ Soil Project	16,56	1,25,33	0	2	1,41,87
13	KfW Soil Project	0	30,68,74	0	30,68,74	0
B.	Other Funds					
1	Watershed Development Fund (i)	1241,53,18	73,50,71	80,17,16	93,58,99	1301,62,06
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	242,34,01	19,01,88	0	21,33,20	240,02,69
3	Interest Differential Fund – TAWA	10,00	0	0	0	10,00
4	Adivasi Development Fund	5,77,47	0	0	0	5,77,47
5	Tribal Development Fund (ii)	1122,52,97	100,23,70	89,83,71	128,64,37	1183,96,01
6	Financial Inclusion Fund (iii)	2224,19,38	334,12,32	147,92,77	337,78,28	2368,46,19
7	Financial Inclusion Fund – Digital	214,03,23	97,65,00	0	227,72,89	83,95,34
8	PODF-ID (iv)	68,77,93	160,37,91	2,71,81	58,40,10	173,47,55
9	National Bank - Swiss Development Coop. Project	62,73,23	85,00	0	0	63,58,23
10	RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	22,77,14	0	0	-1,89,69	24,66,83
11	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	2,32,79	0	18,73	0	2,51,52
12	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	25,63,20	0	1,13,31	0	26,76,51
	Total	5456,12,02	972,10,50	330,92,08	1057,67,86	5701,46,74
	Previous year	4943,94,59	1182,30,65	232,94,66	903,07,87	5456,12,02

*Refer B-2 of Schedule 18

NABARD is acting as a banker/custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

Includes income tax paid on interest differential credited to funds:

- (i) ₹ 25.69 crore
- (ii) ₹ 35.03 crore
- (iii) ₹ 116.76 crore
- (iv) ₹ 56.04 crore

Schedule 4 - Government Schemes

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Additions during the year	Interest Credited *	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2019
A	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	55,47	0	0	-2,07	57,54
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	8,40	0	0	0	8,40
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	0	0	0	0	0
4	On-farm Water Management for Crop Production	7,17	0	0	0	7,17
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78,91,84	0	0	0	78,91,84
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	2,66	0	22	0	2,88
7	Cattle Development Programme - Bihar	6,33	0	51	0	6,84
8	National Project on Organic Farming	16,11	2,76,17	0	1,28,05	1,64,23
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4,29,45	0	0	0	4,29,45
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	7,70,72	0	0	-6,57,37	14,28,09
11	Poultry Venture Capital Fund	3,14,43	0	0	-7,40,48	10,54,91
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	82,87,18	50,00,00	0	50,94,43	81,92,75
13	ISAM - Grant Recd for Promotional Expenditure a/c	1,23	0	0	0	1,23
14	NATIONAL LIVESTOCK MISSION - PVCF EDEG	104,16,52	175,00,00	0	101,72,36	177,44,16
15	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	1,66,72	0	0	0	1,66,72
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	5,70	0	46	0	6,16
17	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh	1,52	0	12	0	1,64
18	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	78,57,52	323,00,00	0	250,87,05	150,70,47
19	CSS for Solar Mission	1,83	0	0	-22	2,05
20	CSS - JNNM - Solar Lighting a/c	7,77,95	0	0	1,43,16	6,34,79
21	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	29,92,85	0	0	9,74	29,83,11
22	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centre	2,39,55	13,59,00	0	12,55,59	3,42,96
23	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	49,07	0	0	45,84	3,23
24	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4,60,75	0	0	0	4,60,75
B	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	285,15,45	0	0	-1,85	285,17,30
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	74,17,39	0	0	22,90,57	51,26,82
3	PRODUCE FUND	92,83,64	0	0	31,28,19	61,55,45
4	Revival of 23 unlicensed DCCBs	111,22,00	0	0	0	111,22,00
5	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	18	0	0	0	18
6	AMI - Workshop Assistance Fund	0	30,28	0	13,96	16,32
7	Kutch Drought Proofing Project	21,64	0	0	0	21,64
8	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20,00,00	0	0	0	20,00,00
9	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	6,22,39	0	0	-13,94	6,36,33
10	Comprehensive Handloom Package	21,23	0	0	-1,54	22,77
11	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR)	425,68,30	5845,31,32	0	6128,95,34	142,04,28
	Total	1423,33,19	6409,96,77	1,31	6588,46,81	1244,84,46
	Previous year	2145,70,04	8066,61,53	1,00	8788,99,38	1423,33,19

*Refer B-2 of Schedule 18

NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/ utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

Schedule 5 – Deposits

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Central Government	0	0
2	State Governments	0	0
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	82,84,26	164,46,64
	b) Commercial Banks (Deposits under RIDF)	119762,50,73	116313,92,78
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	45000,00,00	45000,00,00
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	10000,00,00	10000,00,00
	e) Warehouse Infrastructure Fund	5971,00,00	4671,00,00
	f) Long Term Rural Credit Fund	43000,31,20	38000,58,00
	g) Fund for Food Processing Units	330,00,00	300,00,00
	Total	224146,66,19	214449,97,42

Schedule 6 - Bonds and Debentures

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Tax Free Bonds	5000,00,00	5000,00,00
2	Non Priority Sector Bonds	39434,40,00	38055,00,00
3	Capital Gains Bonds	1,29,40	1,29,40
4	Bhavishya Nirman Bonds	421,09,88	3187,82,73
5	PMAY-G - GOI Fully Serviced Bonds	17998,80,00	7330,00,00
6	Bonds - LTIF	23463,80,00	15155,00,00
7	LTIF - GOI Fully Serviced Bonds	10785,40,00	5292,00,00
8	SBM (G) - GOI Fully Serviced Bonds	8698,20,00	0
	Total	105802,99,28	74021,12,13

Schedule 7 – Borrowings

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
	(A) In India		
1	Central Government	0	0
2	JNN Solar Mission	2,81,20	2,81,20
3	Reserve Bank of India	0	0
4	Others :		
	(i) Certificate of Deposits	14036,75,65	4001,11,56
	(ii) Commercial Paper	25626,21,32	32040,36,49
	(iii) CBLO / Tri Party Repo	6049,40,35	2457,06,58
	(iv) Term Money Borrowings	4067,09,87	3228,58,32
	(v) Repo a/c	0	2010,73,48
	(vi) Term Loan from Banks	26999,94,11	0
	(vii) Facility from commercial banks	50,00,00	0
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	1093,64,57	811,88,35
	Total	77925,87,07	44552,55,98

Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(₹ in Thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Interest / Discount Accrued	5835,75,01	8871,41,08
2	Sundry Creditors [Refer note B-4 of Schedule 18]	687,31,80	375,87,15
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	104,80,49	109,15,09
4	Provision for Gratuity (Refer Note B-26 of Schedule 18)	18,43,52	29,97,03
5	Provision for Pension (Refer Note B-26 of Schedule 18)	379,18,93	141,42,95
6	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-26 of Schedule 18)	356,05,87	356,05,87
7	Provision for Post-Retirement Medical Benefit (Refer Note B-26 of Schedule 18)	135,10,14	131,05,89
8	Unclaimed Interest on Bonds	3,31,52	1,69,60
9	Unclaimed Interest on Term Deposits	11,52	11,52
10	Term Deposits Matured but not claimed	4,78	4,78
11	Bonds matured but not claimed	144,20,22	71,93,02
12	Bond Premium	62,15,60	10,52,60
13	Debt Servicing Reserve [Refer note B-30.11 of Schedule 18]	1,74,63	7,70,54
14	Provisions and Contingencies		
(a)	Depreciation in Value of Investment a/c - G. Sec.	14,34,15	146,44,37
(b)	Amortisation of G. Sec. - HTM	52,45,38	26,66,77
(c)	For Standard Assets	1729,00,00	1420,50,00
(d)	Non-performing Investments	248,32,70	34,14,25
(e)	Countercyclical Provisioning Buffer	14,44,89	14,44,89
(f)	Provision for Other Assets & Receivables	8,50,96	8,50,96
(g)	Provision for Income Tax [Net of Advance Tax]	3093,57,02	587,62,81
	Total	12888,89,13	12345,31,17

Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Cash in hand	0	0
2	Balances with :		
	A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	1405,57,37	187,31,46
	(ii) Other Banks in India		
	a) in Current Account	392,60,41	17,28,99
	b) Deposit with Banks	9225,00,00	16815,00,00
	c) Remittances in Transit	528,59,10	460,84,72
	d) CBLO / Tri party Repo	573,19,51	1204,23,52
	(B) Outside India	0	0
	Total	12124,96,39	18684,68,69

Schedule 10 – Investments

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government & State Govt. [Face Value ₹14922,56,40,000 (₹ 12481,14,10,000)] [Market Value ₹15350,09,35,860.40 (₹ 12674,43,46,439)]	15501,07,52	13029,00,98
	b) Treasury Bills [Face Value ₹ 713,71,70,000 (₹2715,43,40,000)] [Market Value ₹664,35,21,402.10 (₹2560,16,62,705)]	664,35,21	2560,16,63
2	Other Approved Securities	0	0
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd. [1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]	1,00,00	1,00,00
(b)	Small Industries Development Bank of India [5,31,92,203 (1,60,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	966,27,55	966,27,55
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	60,00,00	60,00,00
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd. [3,77,758 (10,70,096) - Equity shares of ₹10 each]	30,22	30,22
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. [56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]	16,87,50	16,87,50
(f)	Universal Commodity Exchange Ltd [UCX] @ [1,60,00,000 (1,60,00,000) Shares of ₹10 each]	16,00,00	16,00,00
(g)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity [55,000 (55,000) Shares of ₹1000 each]	9,74,60	9,74,60
(h)	Agriculture Skill Council of India [4,000 (4000) Shares of ₹10 each]	40	40
(i)	National E-Governance Services India Ltd [Equity] [15,00,000 (15,00,0000) Shares of ₹10 each]	1,50,00	1,50,00
(j)	National e-Repository Ltd. [105,30,000 (0) Shares of ₹10 each]	10,53,00	10,53,00
(k)	Other Equity Investments [Market Value ₹ 82,44,91,556 (₹ 76,35,07,111)]	48,44,67	54,28,96
4	Debentures and Bonds		
(i)	Special Dev Debentures of SCARDBs (Refer Note B-21 of Schedule 18)	1738,61,48	2592,77,98
(ii)	Non Convertible Debentures	3145,97,13	2426,54,78
5	Shareholding in subsidiaries and Joint Venture		
(a)	Shareholding in subsidiaries		
(i)	NABARD Financial Services Ltd, Karnataka [10,20,06,300 (10,20,06,300) - Equity shares of ₹10 each]	102,00,63	102,00,63
(ii)	NABSMRUDDHI (formerly known as Agri - Business Finance [Andhra Pradesh] Ltd. [5,26,44,000 (2,63,22,000) - Equity shares of ₹10 each]	59,81,80	26,38,91
(iii)	NAB KISAN (formerly known as Agriculture Development Financial [TN] Ltd) [71,66,67,000 (46,66,67,000) - Equity shares of ₹10 each]	85,02,66	46,75,16
(iv)	NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. [50,00,000 (50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	5,00,00	5,00,00
(v)	NABVENTURES Ltd [50,00,000 (0) - Equity shares of ₹10 each]	5,00,00	0
(b)	Joint Venture	0	0

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
6	Others		
(a)	Mutual Fund	7586,71,84	0
(b)	Commercial Paper [Face Value ₹600,00,00,000 (₹3650,00,00,000)]	552,55,40	3423,54,30
(c)	Certificate of Deposit [Face Value ₹8950,00,00,000 (₹5525,00,00,000)]	8615,49,36	5206,20,83
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	192,07,40	180,74,61
(e)	Investment Earmarked towards EOL [Refer note B-26.1.3 of Schedule 18]	225,90,70	249,76,14
	Total	39610,29,07	30985,43,18

All the above investments are made in India

Schedule 11 – Advances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Refinance Loans		
(a)	Production & Marketing Credit	66736,60,36	66128,18,38
(b)	Conversion Loans for Production Credit	137,35,45	632,76,66
(c)	Other Investment Credit		
(i)	Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B -21 of Schedule 18)	150670,42,04	120094,96,12
(ii)	Direct refinance to DCCBs	4449,50,01	2949,50,70
(iii)	JNN Solar Mission	3,12	14,07
2	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	120162,99,02	110061,76,71
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	4984,05,37	4296,12,13
(c)	Long Term Non-Project Loans	70,27,93	42,12,53
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	9125,74,48	7241,57,49
(e)	Loans to Producers' Organization Development	138,71,23	219,61,25
(f)	Credit Facility to Federations[CFF]	11375,25,00	11954,00,00
(g)	Loans under Food Processing Fund	276,24,39	239,40,24
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	34248,75,47	20446,52,47
(i)	PMAY - G	18008,23,00	7329,43,00
(j)	Swacch Bharat Mission Gramin	8698,20,00	0
(k)	DIDF	432,00,00	0
(l)	Loan Under GCF	344,42,50	0
(m)	Other Loans:		
(i)	Micro Finance Development Equity Fund Programme Loans	10,59	0
(ii)	Watershed Development Fund Programme Loans	26,56,44	33,68,88
(iii)	Tribal Development Fund Programme Loans	2,95,32	6,08,15
(iv)	KfW UPNRM Loans	164,10,29	181,59,72
(v)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	218,71,95	252,91,48
(vi)	Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	96	2,88
(vii)	Co-Finance Loans	0	12,14
(viii)	Direct Loan Under Sec 30 of NABARD Act [Refer Note B30.11 of schedule 18]	1,36,82	0
	Total	430272,61,74	352110,55,00

Schedule 12 – Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	LAND : Freehold & Leasehold (Refer Note B-19 of Schedule 18)		
	Opening Balance	180,02,84	176,16,65
	Additions/adjustments during the year	0	3,86,19
	Sub-Total	180,02,84	180,02,84
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	180,02,84	180,02,84
	Less: Amortisation of Lease Premia	57,18,86	55,29,63
	Book Value	122,83,98	124,73,21
2	PREMISES (Refer Note B-19 of Schedule 18)		
	Opening Balance	413,30,25	407,47,74
	Additions / Adjustments during the year	7,59,10	5,82,51
	Sub-Total	420,89,35	413,30,25
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	420,89,35	413,30,25
	Less: Depreciation to date	263,82,27	244,24,01
	Book Value	157,07,08	169,06,24
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	67,95,51	61,98,40
	Additions/adjustments during the year	1,56,73	6,59,09
	Sub-Total	69,52,24	68,57,49
	Less: Cost of assets sold/written off	99,65	61,98
	Closing Balance (at cost)	68,52,59	67,95,51
	Less: Depreciation to date	62,11,30	60,91,15
	Book Value	6,41,29	7,04,36
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	114,72,30	102,59,41
	Additions/adjustments during the year	9,39,01	16,06,23
	Sub-Total	124,11,31	118,65,64
	Less: Cost of assets sold/written off	2,41,34	3,93,34
	Closing Balance (at cost)	121,69,97	114,72,30
	Less: Depreciation to date	104,62,78	98,60,20
	Book Value	17,07,18	16,12,10
5	VEHICLES		
	Opening Balance	8,83,39	8,70,06
	Additions/adjustments during the year	4,96,63	2,06,67
	Sub-Total	13,80,03	10,76,73
	Less: Cost of assets sold/written off	3,75,36	1,93,33
	Closing Balance (at cost)	10,04,67	8,83,40
	Less: Depreciation to date	3,91,74	4,92,58
	Book Value	6,12,93	3,90,82
6	Capital Work in Progress	196,35,67	150,32,73
	Total	505,88,13	471,19,46

Schedule 13 - Other Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Accrued Interest	3520,26,40	3301,90,48
2	Discount Receivable	121,32,29	418,67,60
3	Deposits with Landlords	1,02,65	1,27,61
4	Deposits with Government Departments and Other Institutions	36,63,09	35,73,55
5	Housing loan to staff	141,02,75	127,77,02
6	Other Advances to staff	94,62,70	96,62,62
7	Sundry Advances	79,63,28	66,98,18
8	Deferred Tax Assets (Refer Note B-9 of Schedule 18)	203,55,02	194,34,02
9	Receivable from Government of India/International Agencies. (Refer Note B-3 of Schedule 18)	749,39,88	146,44,18
10	Discount on issue of Bonds	9,24,93	0
	Total	4956,72,99	4389,75,26

Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Interest Paid on		
(a)	Deposits under RIDF	6088,80,39	6276,76,17
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund (Refer Note B-6 of Schedule 18)	2029,82,73	1954,54,21
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund (Refer Note B-6 of Schedule 18)	435,96,20	438,73,22
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	279,49,16	221,74,67
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1812,84,69	1586,40,35
(f)	Fund for Food Processing Units	16,08,05	13,48,10
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	6,77,66	7,87,99
(h)	CBS Deposits	72	1,05
(i)	Term Money Borrowings	253,76,07	159,40,74
(j)	Bonds (Refer Note B-6 of Schedule 18)	6127,42,54	4475,30,27
(k)	Corporate Loans	826,18,76	0
(l)	Borrowings from International Agencies	30,39,71	22,50,95
(m)	Borrowing against ST Deposit	4,63	50,23
(n)	Discount on Commercial Paper	2785,01,16	1527,90,18
(o)	Discount on Certificate of Deposits	563,72,27	346,75,31
(p)	Repo Interest Expenditure	157,08,89	198,95,61
(q)	Interest paid on funds	330,93,39	232,95,66
2	Discount on CBLO / TREPS	373,17,79	360,19,52
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	41,61,92	22,96,68
4	Swap Charges	39,54,90	6,03
	Total	22198,71,63	17847,06,94

Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	2018-19	2017-18
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-8 of Schedule 18)	1044,15,86	865,67,89
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	432,72,13	699,13,36
3	Other Perquisites & Allowances	62,27,17	54,96,15
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	34,77	33,59
5	Directors' & Committee Members' Fees	8,58	9,82
6	Rent Rates Insurance Lighting etc.	35,20,76	34,79,23
7	Travelling Expenses	41,59,35	39,30,88
8	Printing & Stationery	5,72,61	5,43,73
9	Postage Telegrams & Telephones	18,11,06	18,66,50
10	Repairs	50,02,11	39,31,80
11	Auditors' Fees	31,40	31,84
12	Legal Charges	1,48,66	1,16,54
13	Miscellaneous Expenses	103,06,61	95,23,65
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	10,42,97	7,65,39
15	Expenditure on Study & Training	87,02,12	72,22,99
	Total	1892,56,14	1934,33,36

Schedule 15 B - Expenditure on promotional activities

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Cooperative Development Fund	16,65,67	18,77,59
(ii)	Producers' Organization Development Fund	1,69,03	2,55,94
(iii)	Rural Infrastructure Promotion Fund	5,39,31	2,49,48
(iv)	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	21,32,28	20,88,28
(v)	Expenditure under Climate Change Programme	16,45	1,03,53
(vi)	Gramya Vikas Nidhi	16,18,62	6,78,99
	Total	61,41,36	52,53,81

Schedule 16- Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
	Provisions for :		
1	Standard Assets	308,50,00	184,50,00
2 (a)	Non Performing Assets	214,08,00	1,33,93
2 (b)	Non Performing Assets - staff	-30,46	29,18
3	Sacrifice in interest element of restructured Accounts	0	0
4	Other Assets / Receivable	0	0
	Total	522,27,54	186,13,11

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	32,75,96	83,99,67
	Sub Total "A"	32,75,96	83,99,67
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	25,02,86	21,69,75
(ii)	Claims against the Bank not acknowledged as debt.	0	0
	Sub Total "B"	25,02,86	21,69,75
	Total (A + B)	57,78,82	105,69,42

SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank/NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ from these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

3. Revenue recognition:

3.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- i) Interest on non-performing assets identified as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- iii) Service Charges on loans given out of various Funds.
- iv) Expenses not exceeding ₹10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

3.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to floatation of bonds are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

3.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

3.4 i) Income from Venture Capital Funds is accounted on realization basis.

ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

3.5 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

- i) penal interest
- ii) cost & charges
- iii) overdue interest and interest
- iv) Principal

4. Property Plant and Equipment (Fixed Assets)

- a) Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.
- b) Land includes freehold and leasehold land.
- c) Premises include value of land, where segregated values are not readily available.
- d) Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.

- e) -Fixed Assets costing ₹ 1 lakh and less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹ 1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.
- f) Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- g) Depreciation is charged from the month the asset is capitalized in the year of purchase and till the month the asset is sold in the year of sale.
- h) Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

5. Investments

- a) In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”).
- b) Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as “HFT”. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as “HTM”. Securities which are not to be classified in the above categories are classified as “AFS”.
- c) Investments classified under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category “HTM” is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.
- d) Profit on redemption of investment categorized under “HTM” is recognized in Profit & Loss A/c.
- e) Investments under “AFS” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “AFS” and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after the revaluation.
- f) Investments under “HFT” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Depreciation / appreciation is recognized in the category for investments classified as “HFT”. The book value of the individual scrip is changed after revaluation.
- g) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
- h) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.
- i) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guidelines.
- j) Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
- k) Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.
- l) Broken period interest paid/received on debt investments is treated as interest expenses/income and is excluded for cost/ sale consideration.

- m) Transfer of a security between the categories is accounted for, at lower of the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer, is fully provided for.
- n) Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
- o) Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.
- p) Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.

6. Advances and Provisions thereon

- a) Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.
- b) In case of restructuring/rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
- c) Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
- d) Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.

7. Foreign Currency Transactions

As per Accounting Standard (AS-11) (Revised 2003) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the Institute of Chartered Accountants of India; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:

- a) Assets and liabilities in foreign currency are revalued at the exchange rate notified by Reserve Bank of India as at the close of the year. The hedged portion of the foreign currency borrowings are stated at the contracted value and the liability of hedged borrowing as per year-end exchange rate is disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item).
- b) Income and Expenditure items are translated at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

8. Accounting for Foreign Exchange Contracts

- a) Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.
- b) The foreign currency borrowings which are hedged are stated at the contract rate.
- c) The foreign exchange unhedged contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the year end. The resultant gain/loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains/Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account. Premium/ discount are accounted over the life of the contract.
- d) The Profit / Loss on cancellation and renewal of foreign exchange contracts are recognised in Profit and Loss Account under the head 'Profit / Loss on Foreign Currency Loan Account'.

9. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, are carried out at each balance sheet date.

a) Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

b) Post-Retirement Benefits:

(i) Defined Contribution Plan

The Bank has a Provident Fund Scheme in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is managed by RBI. Contribution is recognized on accrual basis.

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the "NPS- Corporate Sector Model", a

defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

(ii) Defined Benefit Plan

- a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

(iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences. All the eligible employees are also entitled for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

10. Taxes on Income

- a) Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/appeals.
- b) Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
- c) Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
- d) Tax paid/provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

11. Segment Reporting

- a) Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment.
- b) Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank income".
- c) Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".
- d) Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

12. Impairment of Assets

- a) As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:
 - (i) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - (ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- b) Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

13. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

13.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

- a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
- b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

13.2 Contingent liability is disclosed in the case of:

- a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
- b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
- c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.

13.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

13.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

14. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand, demand deposits with banks and other short-term investments with an original maturity of three months or less.

15. Prior Period Income / Expenses

Items of Income / Expenditure which are prior period in nature is disclosed separately only when the individual prior period income / expense exceeds 0.5% of Gross Income.

16. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has been deferred by Reserve Bank of India until further notice.

B. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. In terms of the agreement with Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - German Development Bank (KfW), accretion / income and expenditure under UPNRM have been charged to the fund. The loans granted out of this fund have been classified as other loans and disclosed under Schedule 11. The borrowing related to the UPNRM are classified as borrowing from international agencies and disclosed under Schedule 7. During the year, a sum of ₹56.98 crore representing expenditure over income under the fund has been charged to Profit & Loss Account.
2. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/as approved by the management. The details of rate of interest for respective funds are as under:

Sr No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2018-19	Rate of Interest for 2017-18
1.	Watershed Development Fund	4%	4%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan)	4%	4%
3.	KfW Accompanying Measures	4%	4%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	4%	4%
5.	Tribal Development Fund	4%	4%
6.	Financial Inclusion Fund	4%	4%
7	Kfw NB- V Adivasi Development Programme- Gujarat	4%	4%
8.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	4%	--
9	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	4%	--
10	PODF-ID	4%	--
11	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	8.05%	6.57%
12	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	8.05%	6.57%
13	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	8.05%	6.57%

3. Recoverable from Government of India/International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹1.44 crore (₹43.35 crore) being debit balance of various funds. The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr No.	Name of the Fund	31-03-2019	31-03-2018
1	KfW- UPNRM – Accompanying Measures	0.91	2.00
2	KfW- NB IGWDP (Rajasthan)	0.00	0.62
3	KfW- Soil Project	0.53	3.72
4	KfW- NB IGWDP (Gujarat)	0.00	0.97
5	KfW UPNRM Fund [Refer Note B-1]	0.00	35.92
6	KfW UPNRM – Technical collaboration	0.00	0.12

4. Sundry creditors includes ₹30.43 crore (₹30.32 crore) being amounts outstanding to contributors in respect of Micro Finance Development and Equity Fund (MFDEF).
5. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in excess of 0.5 percent in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund, placed by the Commercial Banks is credited to Watershed Development Fund, Tribal Development Fund, Financial Inclusion Fund and PODF. Previous year, the amounts were credited to Watershed Development Fund, Tribal Development Fund, Financial Inclusion Fund and PODF.
6. Interest Subvention received/receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of Interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S.No.	Scheme	2018-19	2017-18
1	Long Term Irrigation Fund	89.46	0.00
2	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	-264.83	319.09
3	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	8.00	0.00
4	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	19.63	12.83

7. Other Income includes ₹106.90 crore (₹123.03 crore) received/receivable from GOI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme.
8. The salaries and allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. The review is due from 01 November 2017. Pending such settlement, an amount of ₹200 crore (₹100 crore) has been provided under the head Salary and Allowances during the year.
9. The Bank, during the year, in accordance with AS 22 “Accounting for taxes on Income”, recognized in the Profit and Loss Account the deferred tax asset of ₹9.21 crore (₹13.15 crore). The details of the deferred tax are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31-03-2019	31-03-2018
1	Provision allowable on payment basis	171.63	170.22
2	Depreciation on Fixed Assets	31.92	24.12
	Total	203.55	194.34

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

10. The tax liability of the Bank for the Assessment Year 2002-03 amounting to ₹373.15 crore was assessed by the Income Tax Department. The Bank has provided and paid the said liability. However, the Bank has filed an appeal against the order of the CIT Appeals with the Income Tax Appellate Tribunal.
11. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year (AY) 2007-08, AY 2008-09 and AY 2009-10, which was ruled against by the Commissioner of Income Tax – Appeals [CIT(A)]. The Income Tax department has preferred appeal against the order of CIT(A) with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
12. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2010-11 a tax liability of ₹313.07 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
13. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2011-12 a tax liability of ₹294.31 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
14. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2012-13 a tax liability of ₹340.81 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
15. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2013-14 a tax liability of ₹392.94 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
16. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2014-15 a tax liability of ₹438.37 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
17. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2015-16 a tax liability of ₹428.16 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
18. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2016-17 a tax liability of ₹372.00 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT(A).
19. (a) Free hold land and Lease Land and Premises include ₹14.00 crore (₹14.00 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.
(b) The depreciation policy for premises on leasehold land and free hold land has been revised during the FY 2017-18. The change in depreciation policy had resulted in reversal of excess depreciation of Rs. 10.39 crore during the FY 2017-18.
20. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.
21. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:
 - a) Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head 'Debenture and Bonds'.
 - b) Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.
 - c) 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.

22. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹472.56 crore (₹560.63 crore) pertains to non-starter projects. Pending receipt of the proposal from State Government for adjustment of the amount with the respective/other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.
23. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹5,000 crore. Accordingly, ₹1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 365.74 crore (₹365.79 crore).

The details of the debenture Trustee is as under:

Axis Trustee Services Limited,
Axis House, Second Floor
Wadia International Centre
Pandurang Budhkar Marg
Worli, Mumbai -400 025
Telephone: 022 24255215/5216

24. In terms of RBI Circular RBI/2015-16/104DBR.No.FID.FIC.3/01.02.00/2015-16 dated 01 July 2015 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹ 33.78 crore (₹15.92 crore) made in the units of VCF was shifted from HTM category, on completion of 3 years, to AFS category
25. Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	750.00 (648.00)	783.15 (676.64)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo)	8301.13 (8856.00)	8639.18 (8972.64)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (27.00)	52.21 (28.19)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (25.00)	52.21 (26.10)

26. Disclosure required under AS 15 (Revised) on “Employee Benefits”

26.1 Defined Benefit Plans

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension, Gratuity, Leave Encashment and Post-retirement Medical Benefits, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

26.1.1 Pension

- a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	4496.91	3694.29
Current Service Cost	74.55	76.52
Interest Cost	332.77	286.31
Actuarial gain/loss	292.11	592.77
Benefits paid	-219.98	-152.98
Present value of defined benefits obligations at the year end	4976.36	4496.91

b. Amount recognized in the Balance Sheet as on 31 March 2019 and previous year from 2014-15 to 2017-18:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Present value of defined benefits obligations as at the year end	4976.36	4496.91	3694.29	2911.93	2411.55
Fair value of plan assets as at the yearend @	4615.81	4355.48	3276.21	2801.56	2351.61
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	379.19	141.43	418.08	110.37	59.94

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Current Service Cost	74.55	76.52
Interest Cost	332.77	286.31
Net Actuarial gain/loss	298.94	539.72
Expected return on Plan Assets	-312.76	-239.87
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	393.49	662.68

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2018-19	2017-18
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.35%	7.40%
Salary growth (per annum)	6.00%	6.50%
Withdrawal rate	1.00%	1.00%

26.1.2 Gratuity

a.Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	540.25	487.52
Current Service Cost	35.66	26.73
Interest Cost	39.98	37.78
Actuarial gain/ loss	7.61	31.28
Benefits paid	-114.60	-43.06
Present value of defined benefits obligations at the year end	508.90	540.25

b. Amount recognized in Balance Sheet as on 31 March 2019 and P.Y. from 2014-15 to 2017-18

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Present value of defined benefits obligations as at the year end	508.90	540.25	487.52	303.02	285.34
Fair value of plan assets as at the year end	498.10	510.28	313.46	301.51	303.01
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	18.44	29.97	174.06	1.51	-17.67

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Current Service Cost	35.66	26.73
Interest Cost	39.97	37.78
Net Actuarial gain/loss	-22.46	44.57
Expected return on Plan Assets	-41.74	-19.93
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	11.43	89.14

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2018-19	2017-18
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.35%	7.40%
Salary growth (per annum)	7.00%	7.00%
Withdrawal rate	1.00%	1.00%

26.1.3 Encashment of Ordinary Leave

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	356.06	305.50
Current Service Cost	8.28	6.19
Interest Cost	26.35	23.68
Actuarial gain/loss	-15.10	40.92
Benefits paid	-31.83	-20.23
Present value of defined benefits obligations at the year end	343.76	356.06

b. Amount recognized in Balance Sheet as on 31 March 2019 and P.Y. from 2014-15 to 2017-18

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Present value of defined benefits obligations as at the year end	343.76	356.06	305.50	265.45	239.69
Funds earmarked by the Bank *	225.91	249.76	258.25	263.37	257.61
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	130.15	106.30	47.25	2.08	-17.92

* Represents the amount invested with Insurance companies towards the liability for Leave Encashment

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Current Service Cost	8.28	6.18
Interest Cost	26.35	23.67
Net Actuarial gain/loss	-13.62	46.78
Expected return on Plan Assets	-22.49	-27.02
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	-1.48	49.62

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2018-19	2017-18
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.35%	7.40%
Salary growth (per annum)	7.00%	7.00%
Withdrawal Rate	1.00%	1.00%

26.1.4 Post-Retirement Medical Benefits

The present value of defined benefit obligation in respect of post-retirement medical benefits accounted in Profit and Loss Account is ₹ 4.04 crore (₹4.18 crore).

26.1.5 The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account NABARD related factors, inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

26.1.6 The aforesaid liabilities include liabilities of employees deputed to subsidiaries.

26.1.7 Amortisation of Post-retirement benefits

The entire liability towards post-retirement benefits are charged to Profit and Loss account and are not amortised.

26.1.8 Investment under Plan Assets of Pension, Gratuity & Leave Encashment Fund as on 31 March 2019

Particulars	Pension	Gratuity	Encashment of OL
	% of Plan Assets	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	18.00	--	--
State Govt. Securities	31.00	--	--
Insurer Managed Funds	--	100.00	100.00
Others	51.00	--	--
Total	100.00	100.00	100.00

26.2 Defined Contribution Plan:

- The bank contributes its share to Provident Fund with RBI. As per the terms the contribution is a defined contribution plan. During the year the bank has contributed ₹30.18 crore (₹92.84 crore) with RBI.
- The employees' recruited on or after 01 January 2012 are covered under New Pension Scheme, which is a defined contribution plan. During the year the bank has contributed ₹2.95 crore (₹2.23 crore) to the said scheme.

27. Capital

27.1 Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet:

The shareholding of Government of India and RBI in the Paid up capital as on 31 March 2018 was at 99.60%: 0.40%. During the current year, balance shareholding of RBI has been transferred to Government of India, as such, as on 31 March 2019, the entire share capital is subscribed by Government of India. The details are given below:

Contributor	31 March 2019		31 March 2018	
	(₹ crore)	%	(₹ crore)	%
Reserve Bank of India	0.00	0.00%	20.00	0.40%
Government of India	12,580.00	100.00%	4,980.00	99.60%
Total	12,580.00	100.00%	5,000.00	100.00%

Pursuant to increase of Authorized Capital of NABARD to ₹30000 crore vide gazette notification No. 1410 dated 10 April 2018, the balance of ₹5580 crore held as Advance towards Capital Account has been transferred to Share Capital Account during the year 2018-19. During the year an amount of Rs. 2000 crore was infused by GoI towards Capital of NABARD in three tranche (Rs. 500 crore on 08 June 2018, Rs. 1000 crore on 10 October 2018 and Rs. 500 crore on 31 December 2018).

27.2 Capital Adequacy

27.2.1 Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2019 was 18.96% (18.85%) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

27.2.2 In accordance with RBI Instructions, assets financed from National Rural Credit – Long Term Operations (NRC LTO) Fund amounting to ₹14493 (₹14491) crore are excluded for the purpose of computing the CRAR.

27.2.3 The details of various parameters of Capital to Risk weighted Assets Ratio is given below:

(Amount in ₹ crore)

Sr.No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Common Equity	41739.28	36511.78
(ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
(iii)	Total Tier 1 capital (i+ii)	41739.28	36511.78
(iv)	Tier 2 capital	2798.07	2480.43
(v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2)	44537.35	38992.21
(vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	234868.85	206869.25
(vii)	Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs)	17.77	17.65
(viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	17.77	17.65
(ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)	18.96	18.85
(x)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the AIFI	100.00	99.60
(xi)	Amount of equity capital raised	2000.00	0.00
(xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	0.00	0.00
	(a) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	0.00	0.00
	(b) Perpetual Debt Instruments (PDI)	0.00	0.00
(xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	0.00	0.00
	(a) Debt capital instruments:	0.00	0.00
	(b) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	0.00	0.00
	(c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	0.00	0.00
	(d) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	0.00	0.00

28. Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Provisions towards Standard Assets	308.50	184.50

29. Floating Provisions

(Amount in ₹ crore)

S.No	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	Opening balance in floating provision account (counter cyclical provisioning buffer)	14.44	14.44
(b)	The quantum of floating provisions made during the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing balance in the floating provision account	14.44	14.44

30. Asset Quality and specific provisions

30.1 Non-Performing Advances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Net NPA to Net Advances (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening Balance	164.45	163.23
(b)	Additions during the year	10.62	9.15
(c)	Reductions during the year	7.01	7.93
(d)	Closing Balance	168.06	164.45
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	4.70
(c)	Reductions during the year	0.00	4.70
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)		
(a)	Opening balance	164.45	163.23
(b)	Provision made during the year	9.37	9.15
(c)	Write off / write back of excess provision	5.76	7.93
(d)	Closing balance	168.06	164.45

30.2 Non-Performing Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Net NPI to Net Investments (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPIs (Gross)		
(a)	Opening Balance	16.00	16.00
(b)	Additions during the year	210.05	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	226.05	16.00
(iii)	Movement of Net NPIs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPIs		
(a)	Opening balance	16.00	16.00
(b)	Provision made during the year	210.05	0.00
(c)	Write off / write back of excess provision	0.00	0.00
(d)	Closing balance	226.05	16.00

30.3 Non-Performing Assets (30.1+30.2)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Net NPA to Net Assets (Advances + Investments) (%)	0.00	0.00
(ii)	Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)		
(a)	Opening Balance	180.45	179.23
(b)	Additions during the year	220.67	9.15
(c)	Reductions during the year	7.01	7.93
(d)	Closing Balance	394.11	180.45
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	4.70
(c)	Reductions during the year	0.00	4.70
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)		
(a)	Opening balance	180.45	179.23
(b)	Provision made during the year	219.42	9.15
(c)	Write off / write back of excess provision	5.76	7.93
(d)	Closing balance	394.11	180.45

During the current financial year one loan account was restructured.

[illegible]

5	Downgradation of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers																			
		Amount outstanding																			
		Provision thereof																			
6	Write offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrowers																			
		Amount outstanding																			
		Provision thereof																			
7	Restructured accounts as on 31 March 2019	No. of Borrowers									1	2	2	0	5	1	2	2	0	5	
		Amount outstanding									1.22	2.02	14.23	0.00	17.47	1.22	2.02	14.23	0.00	17.47	
		Provision thereof									0.06	2.02	14.23	0.00	16.31	0.06	2.02	14.23	0.00	16.31	

30.5 Movement of Non-Performing Advances

(Amount in ₹ crore)

Sr.No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Gross NPAs as on 01 April	164.45	163.23
(ii)	Additions during the year	10.62	9.15
	Sub total (A)	175.07	172.38
Less :			
(i)	Upgradations	5.65	0.00
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1.36	7.44
(iii)	Technical / Prudential Write offs	0.00	0.00
(iv)	Write offs other than those under (iii) above	0.00	0.49
	Sub-total (B)	7.01	7.93
Gross NPAs as on 31 March (A-B)		168.06	164.45

30.6 Write-offs and recoveries

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at 01 April	0.00	0.00
Add : Technical / Prudential write offs during the year	0.00	0.00
Sub total (A)	0.00	0.00
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	0.00	0.00
Closing balance as at 31 March (A-B)	0.00	0.00

Note: Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level.

30.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Assets	0.00	0.00
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

30.8 Depreciation and provisions on investments

(Amount in ₹ crore)

S.No	Particulars	2018-19	2017-18
(1)	Investments		
(i)	Gross Investments *		
	a. In India	37871.68	28392.65
	b. Outside India	---	---
(ii)	Provision for Depreciation *		
	(a) In India	240.39	164.01
	(b) Outside India	---	---
(iii)	Net Investments *		
	(a) In India	37631.29	28228.64
	(b) Outside India	---	---
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i)	Opening balance	164.01	138.43
(ii)	Add: Provisions made during the year	224.39	148.01
(iii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	0.00

(iv)	Less: Write off / write back of excess provisions during the year	148.01	122.43
(v)	Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
(vi)	Closing balance	240.39	164.01

* the figures are excluding investments in Special Dev Debentures of SCARDBs

30.9 Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

S.No	Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2018-19	2017-18
1	Provisions for depreciation on Investment	224.39	148.01
2	Provision towards NPA (Advances + Investments)	228.11	1.63
3	Provision made towards Income tax (Net)	1594.79	1391.85

30.10 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

PCR [ratio of provisioning (including counter cyclical provisioning buffer) to gross non-performing assets] as at close of business for the current year stood at 103.67% (108.24%).

30.11 Loan under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

During the year 2016-17, resolution plan for stressed loan account (HCC) to the extent of ₹ 46.91 crore was considered under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets. The details of resolution plan is given below:

Particulars	Amount (₹ in crore)
Part – A	
(i) Loan outstanding	24.63
Part – B	
(i) Equity Shares	8.06
(ii) Optionally Convertible Debentures	14.22
Total	46.91

The net outstanding of the above loan account stood at ₹ 35.11 crore (₹ 33.60 crore) as on 31 March 2019. The account is continued as NPA and 100% provision held against the outstanding balance as per S4A guidelines. An amount of ₹1.75 crore (₹7.71 crore) received under S4A arrangement has been kept in Debt Servicing Reserve account.

31. Investment portfolio: constitution and operations

31.1 Repo Transactions

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31 March 2019
Securities sold under repo				
i. Government securities	206.69 (0.99)	5470.43 (2010.73)	2360.25 (48.61)	0.00 (2010.73)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	40.28 (0.95)	520.06 (328.85)	8.51 (43.65)	0.00 (0.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (18.33)	0.00 (18.33)	0.00 (6.11)	0.00 (0.00)

31.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	581.40 (869.61)	581.40 (869.61)	—	—	—
(ii)	FIs	16.13 (251.18)	16.13 (251.18)	—	—	—
(iii)	Banks	8615.49 (5206.21)	8615.49 (5206.21)	—	—	—
(iv)	Private Corporates	3100.99 (4729.19)	3100.99 (4729.19)	—	—	—
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	—	—	—	—	—
(vi)	Others	16165.43 (15589.18)	16165.43 (15589.18)	—	—	—
(vii)	Provision held towards depreciation	240.39 (164.01)	240.39 (164.01)	—	—	—
Total		28239.05 (26481.36)	28239.05 (26481.36)	—	—	—

31.3 Sale and Transfers to / from HTM Category

During the year, securities amounting to ₹ 60 crore (₹ 2849.67 crore) was transferred from HTM to AFS category and securities amounting to ₹ 1674 crore (₹2500 crore) was transferred from AFS to HTM category. The market value of Investments held under Held to Maturity (HTM) category as on 31 March 2019 was ₹6527.28 crore (₹5107.50 crore) against the book value of ₹6663.92 crore (₹5396.44 crore). The excess of book value over market value was ₹136.64 crore (₹288.94 crore) for which no provision was made as per RBI guidelines.

32. Details of Financial Assets purchased/ sold

32.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

- A. Details of Sales : NIL
- B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts : NIL

32.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

- A. Details of non performing financial assets purchased : NIL
- B. Details of non performing financial assets sold : NIL

32.3 Operating Results

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Interest income as a percentage to working funds	6.64	6.53
(ii)	Non interest income as a percentage to working funds	0.04	0.05
(iii)	Operating Profit as a percentage to working funds	1.23	1.22
(iv)	Return on Assets (%)	0.76	0.80
(v)	Net Profit per employee (₹ crore)	0.89	0.74

33 Credit Concentration risk

33.1. Capital market exposure

(Amount in ₹ crore)

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1387.53	1316.67
2	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.00
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
7	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
8	Underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	192.07	180.75
Total Exposure to Capital Markets		1579.60	1497.42

33.2 Exposure to Country risk : NIL

33.3 Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the AIFI

33.3.1 The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year: NIL

33.3.2 Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

(Amount in ₹ crore)

	Category	2018-19		2017-18	
		Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
		Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I	Largest Single Borrower	40.43	3.69	57.04	5.47
II	Largest Borrower Group	Not Applicable		Not Applicable	
III	Twenty Largest Single Borrowers for the year	482.50	44.08	459.96	44.10
IV	Twenty Largest Borrower Groups	Not Applicable		Not Applicable	

33.3.3 Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

33.3.4 Factoring exposures : Not Applicable

33.3.5 Exposure where the FI had exceeded that Prudential Exposure Limits during the year : NIL

33.4 Concentration of borrowings / lines of credit, credit exposures and NPAs

(a) Concentration of borrowings and lines of credit

(Amount in ₹ crore)

S.No	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Total borrowings from twenty largest lenders	268436.00	225787.25
(ii)	Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings	65.81	67.80

(b) Concentration of credit exposures

(Amount in ₹ crore)

S.No	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Total exposures to twenty largest borrowers	214894.92	179347.95
(ii)	Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI	49.73	50.54

(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

The sector wise concentration of exposure and NPAs is given below:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
		FY 2018-19			FY 2017-18		
I.	Agricultural sector including allied agricultural activities	432144.41	132.51	0.03	354831.81	145.07	0.04
1	Central Government	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Central PSUs	61.71	0.00	0.00	84.11	0.00	0.00
3	State Governments	141379.65	0.00	0.00	121866.60	0.00	0.00
4	State PSUs	7375.94	0.00	0.00	7869.90	0.00	0.00
5	Scheduled Commercial Banks	58665.66	0.00	0.00	54840.60	0.00	0.00
6	Regional Rural Banks	46888.92	0.00	0.00	45569.54	0.00	0.00
7	Co-operative banks	76915.34	0.00	0.00	71360.02	0.00	0.00
8	Private sector (excluding banks)	72069.30	132.51	0.18	32776.01	145.07	0.44
9	Others SCRADB/LDB/NBFC-MFI/ ADFC	28787.88	0.00	0.00	20465.04	0.00	0.00
II.	Others	271.20	35.55	13.11	243.78	19.38	7.95
1	Construction Sector	35.49	35.49	100.00	19.02	19.02	100.00
2	Staff Loans	235.71	0.06	0.03	224.76	0.36	0.16
	Total (I+II)	432415.60	168.06	0.04	355075.59	164.45	0.05

34. Derivatives

34.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap – NIL

34.2 Exchange Traded Interest Rate derivatives – NIL

34.3 Disclosure on Risk exposure in derivatives:

- (i) The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its International Borrowings to the extent of 94.46 million Euro (103.49 million Euro) and 50 million USD (0 USD). Consequent upon hedging of foreign currency borrowings the same is shown at contracted value as per the Swap agreement. The bank have open exposure of 1.08 million in Euro as on 31 March 2019.
- (ii) The value of outstanding principal amount of hedge contract at the year-end exchange rate stood at ₹1088.25 crore (₹834.39 crore). The value of outstanding principal liability in the books of account stood at ₹1093.65 crore (₹811.88 crore). The quantitative disclosure in this regard is as under:—

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particular	Current Year		Previous Year	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	1088.25	--	871.68	--
	b) For trading	--	--	--	--
(ii)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	1.40	--	28.17	--
	b) Liability (-)	7.09	--	--	--
(iii)	Credit Exposure ^[2]	26.70	--	51.83	--
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	15.08	--	9.43	--
	b) on trading derivatives	--	--	--	--
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging	--	--	--	--
	b) on trading	--	--	--	--

35 Letters of Comfort (LoCs) issued by AIFIs : NIL

36 Asset Liability Management

The maturity pattern of assets and liabilities are prepared in terms of the ALCO policy of the bank as under:—

(Amount in ₹ crore)

[illegible]

Foreign Currency liabilities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	58.55 (0.00)	59.21 (23.35)	77.19 (8.28)	180.15 (187.87)	182.73 (77.16)	535.82 (386.91)	1093.65 (683.56)
------------------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

37. Draw Down from Reserves: NIL

38. Business Ratios

Particulars	2018-19	2017-18
Return on Equity (%)	8.29	8.58
Return on Assets (%)	0.76	0.80
Net Profit Per Employee (₹ crore)	0.89	0.74

39. Disclosure of Penalties imposed by RBI - NIL

40. Disclosure of Complaints

(a) Customer Complaints

S.No	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	7	0
(b)	No. of complaints received during the year	128	143
(c)	No. of complaints redressed during the year	133	136
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	2	7

41. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

There are no SPVs sponsored by NABARD

42. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” is as under:—

(Amount in ₹crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	21.69	16.65
Addition during the year	25.02	21.69
Deletion during the year	21.69	16.65
Closing Balance	25.02	21.69

43. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹crore)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00

44. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 “Related Party Transactions”, the details of the transactions with other state controlled enterprises are not given.

List of Related Parties:

a) Companies where entity has control:

Sr. No.	Companies
1.	Nabard Financial Services Ltd.
2.	NABSAMRUDDHI Finance Limited
3.	NABKISAN Finance Ltd.

4.	Nabard Consultancy Services Pvt. Ltd. (Wholly owned)
5.	NABVENTURES Ltd. (Wholly owned)

b) Key Management Personnel:

Name of the party	Designation
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Chairman
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Deputy Managing Director
Shri R Amalorpavanathan	Deputy Managing Director

a. Transactions with Key Management Personnel:

(Amount in ₹ crore)

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amount of transaction during the year	Outstanding
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Key Management Personnel—Chairman	Remuneration including perquisites	0.50(0.52)	0.00
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.65(0.40)	0.00
Shri R Amalorpavanathan	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.59(0.45)	0.00

No amounts, in respect of the related parties have been written off/back, or provided for during the year. Related party relationships have been identified by the management and relied upon by the auditors.

c) Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognised Primary segments as under:—

- i) Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to Co-operative Banks etc.
- ii) Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, SCARDBs, StCBs Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- iii) Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- iv) Unallocated: Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) Information on Primary Business Segment

(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Particulars	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	3355.75	2987.81	14677.67	12240.71	11585.66	9118.16	48.83	44.01	29667.91	24390.69
Result	1597.97	511.25	2807.31	3416.34	2483.14	2224.96	-1929.07	-1798.76	4959.35	4353.78
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									4959.35	4353.79
Income Taxes									1594.79	1391.85
Extraordinary profit / loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit									3364.56	2961.94
Other Information										
Segment Assets	48463.49	47809.01	225952.75	190887.18	208820.62	165470.35	4233.62	2475.07	487470.48	406641.61

Segment Liabilities	78950.65	45487.70	197007.59	191389.94	157848.75	124638.23	53663.49	54125.75	487470.48	415641.61
Unallocated Liabilities									0.00	0.00
Total Liabilities									487470.48	415641.61

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

45. Figures in brackets pertain to previous year.

46. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP
(formerly Khimji Kunverji & Co)
Chartered Accountants
FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia
Partner
M No. F-033494

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

Anil Kumar Bansal
Director

Sudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts Department

C Parthasarathi
Director

A K Parhi
Chief General Manager & Secretary

Mumbai
Date : 22 May 2019

National Bank for Agriculture and Rural Development

Cash flow for the year ended 31 March 2019

(₹ in thousands)

Particulars	2018-2019	2017-2018
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	4959,34,77	4353,79,51
Adjustment for:		
Depreciation	33,59,36	16,82,25
Provision for Non-performing Assets	213,77,54	1,63,11
Provision for Standard Assets	308,50,00	184,50,00
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	4,59	-21,04
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	330,93,39	232,95,66
Income from Investment (including Discount Income)	-3353,90,69	-2983,03,07
Operating profit before changes in operating assets	2492,28,96	1806,46,42
Adjustment for changes in working capital :		
(Increase) / Decrease in Current Assets	7043,49,09	-8829,71,73
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	-1962,36,26	-1347,40,12
Increase in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff	-77841,43,61	-46271,14,30
Cash generated from operating activities	-70268,01,82	-54641,79,73
Income Tax paid - Net of refund	901,94,22	-1454,19,88
WIF/ FPF differential debited to Tribal Development / Financial Inclusion Fund / Watershed Development Fund)		
Net cash flow from operating activities (A)	-69366,07,60	-56095,99,61
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	3353,90,69	2983,03,07
Purchase of Fixed Asset	-76,06,05	-103,53,23
Sale of Fixed Assets	7,73,43	6,48,66
Increase / Decrease in Investment	-9479,02,38	-5618,43,49
Net cash used / generated from investing activities (B)	-6193,44,31	-2732,44,99
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	-262,07,41	-441,15,07
Proceeds of Bonds	31781,87,15	23483,61,73
Increase / (Decrease) in Borrowings	33373,31,09	9625,41,49
Increase / (Decrease) in Deposits	9696,68,77	20035,15,45
Increase in Share capital	2000,00,00	3880,00,00

Net cash raised from financing activities (C)	76589,79,60	56583,03,60
Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	1030,27,70	-2245,41,00
Cash and Cash equivalent at the beginning of the year	1869,68,69	4115,09,69
Cash and cash equivalent at the end of the year	2899,96,39	1869,68,69

Cash and cash equivalent at the end of the year includes :	2018-2019	2017-2018
Cash in hand	0	0
Balance with Reserve Bank of India	1405,57,37	187,31,46
Balances with other Banks in India	392,60,41	17,28,99
Remittances in Transit	528,59,10	460,84,72
CBLO / Tri party Repo	573,19,51	1204,23,52
Total	2899,96,39	1869,68,69

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP
(Formerly Khimji Kunverji & Co)
Chartered Accountants
FRN: 105146W

Hasmukh Dedhia
Partner
M No. F-033494

Sudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts Department

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

Anil Kumar Bansal
Director

C Parthasarathi
Director

A K Parhi
Chief General Manager & Secretary

Mumbai
Date: 22 May 2019

Annual Accounts 2018-19

Consolidated Balance Sheet Profit & Loss account & Cash Flow 2018-19 of NABARD & Subsidiaries
(NABCONS, NABKISAN, NABSAMRUDDHI, NABFINS, NABVENTURES)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To:

The Board of Directors of
National Bank for Agriculture and Rural Development

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Holding Bank' or 'NABARD') and its subsidiaries (the Holding Bank and its subsidiaries collectively referred to as the 'Group'), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Consolidated Financial Statements' or 'CFS').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid CFS, exhibit a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2019, its consolidated profits and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

BASIS OF OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our opinion.

Incorporated in these CFS are the returns of 17 Regional Offices and 1 Training Centre of NABARD visited by us for the purposes of audit and the same including Head Office, account for 81.46% of advances, 99.99% of deposits, 82.36% of interest income and 99.25% of interest expenses. These Offices and Training Centre have been selected in consultation with the management of the Holding Bank. We have not visited other remaining offices of the Holding Bank i.e. 14 Regional Offices and 2 Training Centers but have reviewed their returns at the Head Office.

KEY AUDIT MATTERS

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the CFS for the year under audit. These matters were addressed in the context of our audit of the CFS, as a whole and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters. In our professional judgment, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report.

Particulars of the Key Audit Matter	Audit processes in the matter
<p>(1) Multiple IT Systems:</p> <p>The Holding Bank is dependent on technology as the significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology ("IT") systems. The audit approach relies extensively on reports generated by interface of</p>	<p>We performed a range of audit procedures, which included:</p> <p>Review of the report of IS Audit carried by an independent firm of chartered accountants pertaining to IT systems general controls including access</p>

<p>these IT systems and in-built automated controls therein.</p> <p>The major IT systems concerning the financial reporting process included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLMAS – transactions processing and financial reporting system • TALMS – Treasury Operations • Empower HRMS – HR and payroll • Various workflows inputting data into CLMAS • FAMS – Property, plant and Equipment • Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports <p>IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to applications and data.</p> <p>Management of the Holding Bank is in the process of implementing several remediation activities that are expected to contribute to reducing the risk over IT applications in the financial reporting process.</p> <p>These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure.</p> <p>Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.</p>	<p>rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting.</p> <p>Our audit tests were designed to cover the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • understanding the Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit; • review the workflow of core transactions as captured by the IT systems; • selectively tested key automated and manual business cycle controls including logic for system generated reports relevant to the financial reporting; • selectively recomputing interest calculations and maturity dates; • selectively re-evaluating masters updating, interface with resultant reports; • selective testing of the interface of CLMAS with other IT systems like TALMS, Empower and workflows;
---	---

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

4. The Management and Board of Directors of the Holding Bank are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Board of Directors and such other disclosures included in the Holding Bank's annual report, excluding the Financial Statements and auditors' report thereon ('Other Information')

The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the CFS does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the CFS, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the CFS or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other Information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charges with governance as required under SA 720 'The Auditor's responsibilities Relating to other Information'

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

5. The Management of the Holding Bank is responsible for the preparation of the CFS in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance, and consolidated cash flows of the Group. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the CFS that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the CFS, the respective Management and Board of Directors of the holding Bank and of companies included in the Group are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the holding Bank and of the companies included in the Group are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the CFS, as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these CFS. Our audit process in accordance with the SAs is narrated in detail in Annexure 1 to this report.

OTHER MATTERS

7. a) We did not audit the financial statements/financial information of 5 (five) subsidiaries, whose financial statements/financial information reflect total assets of Rs. 2,96,72,797 thousands as at 31 March, 2019, total revenues of Rs. 36,37,032 thousands and net cash outflows amounting to Rs. 2,03,607 thousands for the year ended on that date, as considered in the CFS. These financial statements/financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the CFS, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is solely on the reports of the other auditors. Our opinion on the CFS and our report on Other Legal and Regulatory Requirements, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.
- b) The comparative financial information of the Group for the year ended March 31, 2018 included in these CFS, are based on the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in India, audited by Vyas & Vyas, Chartered Accountants for the year ended March 31, 2018 whose reports dated May 25, 2018 expressed an unmodified opinion on those financial statements. Our opinion is not modified in respect of this matter.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

8. We report that the CFS have been prepared by the holding bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 – 'Consolidated Financial Statements'. In our opinion, the CFS comply with the applicable accounting standards.

For Khimji Kunverji & Co. LLP
(formerly Khimji Kunverji & Co.)
Chartered Accountants
Firm's Registration No: 105146W

Hasmukh B. Dedhia

Partner

Membership No: 033494

Place: Mumbai

Date: May 22, 2019

Annexure 1 to the Independent Auditors' Report

(referred to in para 6 titled "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements")

As part of our audit in accordance with SAs we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, to design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence for material items that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management of the Group.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the CFS or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the CFS, including the disclosures, and whether the CFS represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Communicate with those charged with governance of the Holding Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- Review of the audited financial statements of the subsidiaries, not audited by us, and communicating with the respective statutory auditors of such subsidiaries as per the framework of provisions of SA 600, "Using the Work of Another Auditor".
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditor's Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHE- DULE	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	i) Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		12580,00,00	5000,00,00
	ii) Advance towards Share Capital		0	5580,00,00
	Total		12580,00,00	10580,00,00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	31322,42,85	27915,93,78
3	National Rural Credit Funds	2	16086,00,00	16082,00,00
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	5701,46,74	5456,12,02
5	Government Schemes	4	1244,84,46	1423,33,19
6	Minority Interest	1A	146,01,39	121,25,06
7	Deposits	5	224146,66,19	214449,97,42
8	Bonds and Debentures	6	105802,99,28	74020,15,49
9	Borrowings	7	77971,03,09	44568,75,87
10	Current Liabilities and Provisions	8	12936,63,96	12378,12,38
	Total		487938,07,96	406995,65,21
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		1088,25,16	834,38,70

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No	PROPERTY AND ASSETS	SCHED- ULE	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Cash and Bank Balances	9	12318,53,43	18898,32,56
2	Investments	10	39353,43,97	30805,28,48
3	Advances	11	430712,80,36	352359,73,57
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	524,08,79	486,25,00
5	Other Assets	13	5029,21,41	4446,05,60
	Total		487938,07,96	406995,65,21
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		1088,25,16	834,38,70
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP

(formerly Khimji Kunverji & Co.)

Chartered Accountants

FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia

Partner

M No. F-033494

Harsh Kumar Bhanwala

Chairman

R Amalorpavanathan

Deputy Managing Director

Anil Kumar Bansal

Director

Sudhir Kumar Jannawar

Chief General Manager

Accounts Department

C Parthasarathi

Director

A K Parhi

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

Date : 22 May 2019

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

(₹ in thousands)

Sr. No.	INCOME	SCHE DULE	2018-19	2017-18
1	Interest on Loans and Advances		26306,96,80	21354,70,20
2	Income from Investment Operations / Deposits		3353,90,70	2982,85,21
3	Other Income (Refer Note B-7 of Schedule 18)		238,31,74	258,74,88
	Total "A"		29899,19,24	24596,30,29

Sr. No.	EXPENDITURE	SCHE DULE	2018-19	2017-18
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-6 of Schedule-18)	14	22199,60,97	17848,55,92
2	Establishment and Other Expenses	15 A	1996,13,71	2026,96,80
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	61,41,36	52,53,81
4	Provisions	16	544,88,69	211,18,35
5	Depreciation		35,32,49	18,36,84
	Total "B"		24837,37,22	20157,61,72
6	Profit before Tax (A - B)		5061,82,02	4438,68,57
7	Prior period items		2,25	0
8	Provision for Income Tax		1638,60,67	1432,07,94
9	Deferred tax [Refer B-9 of Schedule 18]		-9,63,64	-11,90,72
10	Profit after Tax		3432,82,74	3018,51,35
11	Minority Interest		17,30,04	12,73,16
12	Profit available for appropriation		3415,52,70	3005,78,19
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT**

(₹ in thousands)

Sr. No.	APPROPRIATIONS/WITHDRAWALS	2018-19	2017-18
1	Profit for the year brought down	3415,52,70	3005,78,19
2	Add: Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c*	111,20,94	229,76,39
3	Profit available for Appropriation	3526,73,64	3235,54,58
	Less: Transferred to: *		
a)	Special Reserves u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	800,00,00	700,00,00
b)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1,00,00	1,00,00
c)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,00,00	1,00,00
d)	Research and Development Fund	35,70,43	29,28,98
e)	Investment Fluctuation Reserve	61,84,15	374,01,07
f)	Co-operative Development Fund	16,65,67	18,77,58
g)	Producers' Organizations Development Fund	1,69,03	2,55,94
h)	Rural Infrastructure Promotion Fund	10,39,31	6,27,28
i)	Farm Sector Promotion Fund	21,32,28	20,88,29
j)	Gramya Vikas Nidhi	46,18,62	26,78,99
k)	Climate Change Fund	5,16,45	6,03,53
l)	Reserve Fund	2525,77,70	2048,92,92
	Total	3526,73,64	3235,54,58

* Refer Schedule 1

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP

(formerly Khimji Kunverji & Co.)

Chartered Accountants

FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia

Partner

M No. F-033494

Harsh Kumar Bhanwala
ChairmanR Amalorpavanathan
Deputy Managing DirectorAnil Kumar Bansal
DirectorSudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts DepartmentC Parthasarathi
DirectorA K Parhi
Chief General Manager & SecretaryMumbai
Date : 22 May 2019

SCHEDULES TO BALANCE SHEET
Consolidated Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Additions/ Adjustments during the year	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2019
1	Reserve Fund	18527,35,21	-7,03,63	2525,77,70	0	21046,09,28
2	Research and Development Fund	52,65,03	0	35,70,43	35,45,43	52,90,03
3	Capital Reserve	85,93,54	0	0	0	85,93,54
4	Investment Fluctuation Reserve	1150,00,00	0	61,84,15	14,34,15	1197,50,00
5	Co-operative Development Fund	60,00,00	0	16,65,67	16,65,67	60,00,00
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	7785,00,00	0	800,00,00	0	8585,00,00
7	Producers' Organizations Development Fund	100,00,00	0	1,69,03	1,69,03	100,00,00
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	20,00,00	0	10,39,31	5,39,31	25,00,00
9	Farm Sector Promotion Fund	60,00,00	0	21,32,28	21,32,28	60,00,00
10	Gramya Vikas Nidhi	60,00,00	0	46,18,62	16,18,62	90,00,00
11	Climate Change Fund	15,00,00	0	5,16,45	16,45	20,00,00
	Total	27915,93,78	-7,03,63	3524,73,64	111,20,94	31322,42,85
	Previous year	24920,64,82	-7,78,02	3232,55,34	229,48,36	27915,93,77

SCHEDULE TO CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Consolidated Schedule 1A - Minority Interest

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Addition during the year	Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2019
1	Share capital	77,77,67	7,46,29	0	85,23,95
2	Reserves and Surplus	43,47,40	17,30,04	0	60,77,44
	Total	121,25,07	24,76,33	0	146,01,39

Consolidated Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2019
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14491,00,00	1,00,00	1,00,00	14493,00,00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1591,00,00	1,00,00	1,00,00	1593,00,00
	Total	16082,00,00	2,00,00	2,00,00	16086,00,00
	Previous year	16078,00,00	2,00,00	2,00,00	16082,00,00

Consolidated Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(₹ in thousands)

Sr. No	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Additions during the year	Interest Credited *	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2019
A.	Grants from International Agencies					
1	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	1,10,95	1,62,99	2,46	2,26,95	49,45
2	KfW NB UPNRM - Accompanying Measures	0	3,89,24	0	3,89,24	0
3	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	14,73	,0	0	0	14,73
4	KfW UPNRM Fund [Refer B-1 of Schedule 18]	0	0	0	0	0
5	KfW Risk Mitigation Fund	0	7,98,70	0	0	7,98,70
6	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	1,21,73	0	3,49	63,42	61,80
7	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	0	5,28,36	28	4,70,29	58,35
8	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	0	7,55,31	21	7,31,68	23,84
9	GIZ UPNRM Technical Coraboration	0	1,21,00	0	48,64	72,36
10	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	7,23,17	17,33,83	1,24,27	14,40,24	11,41,03
11	National Adaptation Fund for Climate Change a/c	213,50,35	109,50,48	7,63,88	127,70,50	202,94,21
12	GIZ Soil Project	16,56	1,25,33	0	2	1,41,87
13	KfW Soil Project	0	30,68,74	0	30,68,74	0
B.	Other Funds					
1	Watershed Development Fund (i)	1241,53,18	73,50,71	80,17,16	93,58,99	1301,62,06
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	242,34,01	19,01,88	0	21,33,20	240,02,69
3	Interest Differential Fund – TAWA	10,00	0	0	0	10,00
4	Adivasi Development Fund	5,77,47	0	0	0	5,77,47
5	Tribal Development Fund (ii)	1122,52,97	100,23,70	89,83,71	128,64,37	1183,96,01
6	Financial Inclusion Fund (iii)	2224,19,38	334,12,32	147,92,77	337,78,28	2368,46,19
7	Financial Inclusion Fund – Digital	214,03,23	97,65,00	0	227,72,89	83,95,34
8	PODF-ID (iv)	68,77,93	160,37,91	2,71,81	58,40,10	173,47,55
9	National Bank - Swiss Development Coop. Project	62,73,23	85,00	0	0	63,58,23
10	RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	22,77,14	0	0	-1,89,69	24,66,83
11	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	2,32,79	0	18,73	0	2,51,52
12	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	25,63,20	0	1,13,31	0	26,76,51
	Total	5456,12,02	972,10,50	330,92,08	1057,67,86	5701,46,74
	Previous year	4943,94,59	1182,30,65	232,94,66	903,07,87	5456,12,02

*Refer B-2 of Schedule 18

NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

includes income tax paid on interest differential credited to funds:

- (i) ₹ 25.69 crore
- (ii) ₹ 35.03 crore
- (iii) ₹ 116.76 crore
- (iv) ₹ 56.04 crore

Consolidated Schedule 4 - Government Schemes

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2018	Additions during the year	Interest Credited*	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2019
A	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	55,47	0	0	-2,07	57,54
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	8,40	0	0	0	8,40
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	0	0	0	0	0
4	On-farm Water Management for Crop Production	7,17	0	0	0	7,17
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78,91,84	0	0	0	78,91,84
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	2,66	0	22	0	2,88
7	Cattle Development Programme - Bihar	6,33	0	51	0	6,84
8	National Project on Organic Farming	16,11	2,76,17	0	1,28,05	1,64,23
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4,29,45	0	0	0	4,29,45
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	7,70,72	0	0	-6,57,37	14,28,09
11	Poultry Venture Capital Fund	3,14,43	0	0	-7,40,48	10,54,91
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	82,87,18	50,00,00	0	50,94,43	81,92,75
13	ISAM - Grant Recd for Promotional Expenditure a/c	1,23	0	0	0	1,23
14	NATIONAL LIVESTOCK MISSION - PVCFC EDEG	104,16,52	175,00,00	0	101,72,36	177,44,16
15	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	1,66,72	0	0	0	1,66,72
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	5,70	0	46	0	6,16
17	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareilly, Uttar Pradesh	1,52	0	12	0	1,64
18	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	78,57,52	323,00,00	0	250,87,05	150,70,47
19	CSS for Solar Mission	1,83	0	0	-22	2,05
20	CSS - JNNSM - Solar Lighting a/c	7,77,95	0	0	1,43,16	6,34,79
21	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	29,92,85	0	0	9,74	29,83,11
22	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centre	2,39,55	13,59,00	0	12,55,59	3,42,96
23	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	49,07	0	0	45,84	3,23
24	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4,60,75	0	0	0	4,60,75
B	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	285,15,45	0	0	-1,85	285,17,30
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	74,17,39	0	0	22,90,57	51,26,82
3	PRODUCE FUND	92,83,64	0	0	31,28,19	61,55,45
4	Revival of 23 unlicensed DCCBs	111,22,00	0	0	0	111,22,00
5	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	18	0	0	0	18
6	AMI - Workshop Assistance Fund	0	30,28	0	13,96	16,32
7	Kutch Drought Proofing Project	21,64	0	0	0	21,64
8	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20,00,00	0	0	0	20,00,00
9	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	6,22,39	0	0	-13,94	6,36,33
10	Comprehensive Handloom Package	21,23	0	0	-1,54	22,77
11	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR) \$	425,68,30	5845,31,32	0	6128,95,34	142,04,28
	Total	1423,33,19	6409,96,77	1,31	6588,46,81	1244,84,46
	Previous year	2145,70,04	8066,61,53	1,00	8788,99,38	1423,33,19

*Refer B-2 of Schedule 18

NABARD is acting as a banker/custodian/trustee on behalf of GOI/RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/ utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

Consolidated Schedule 5 – Deposits

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Central Government	0	0
2	State Governments	0	0
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	82,84,26	164,46,64
	b) Commercial Banks (Deposits under RIDF)	119762,50,73	116313,92,78
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	45000,00,00	45000,00,00
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	10000,00,00	10000,00,00
	e) Warehouse Infrastructure Fund	5971,00,00	4671,00,00
	f) Long Term Rural Credit Fund	43000,31,20	38000,58,00
	g) Fund for Food Processing Units	330,00,00	300,00,00
	Total	224146,66,19	214449,97,42

Consolidated Schedule 6 - Bonds and Debentures

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Tax Free Bonds	5000,00,00	5000,00,00
2	Non Priority Sector Bonds	39434,40,00	38055,00,00
3	Capital Gains Bonds	1,29,40	1,29,40
4	Bhavishya Nirman Bonds	421,09,88	3186,86,09
5	PMAY-G - GOI Fully Serviced Bonds	17998,80,00	7330,00,00
6	Bonds - LTIF	23463,80,00	15155,00,00
7	LTIF - GOI Fully Serviced Bonds	10785,40,00	5292,00,00
8	SBM (G) - GOI Fully Serviced Bonds	8698,20,00	0
	Total	105802,99,28	74020,15,49

Consolidated Schedule 7 – Borrowings

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
	(A) In India		
1	Central Government	0	0
2	JNN Solar Mission	2,81,20	2,81,20
3	Reserve Bank of India	0	0
4	Others :		
	(i) Certificate of Deposits	14036,75,65	4001,11,56
	(ii) Commercial Paper	25626,21,32	32040,36,49
	(iii) CBLO / Tri Party Repo	6049,40,35	2457,06,58
	(iv) Term Money Borrowings	4067,09,87	3228,58,32
	(v) Repo a/c	0	2010,73,48
	(vi) Term Loan from Banks	27045,10,13	161989
	(vii) Facility from commercial banks	50,00,00	0
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	1093,64,57	811,88,35
	Total	77971,03,09	44568,75,87

Consolidated Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(₹ in Thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Interest / Discount Accrued	5835,75,01	8870,23,61
2	Sundry Creditors	730,44,51	403,25,18
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	107,22,06	112,66,00
4	Provision for Gratuity	18,78,06	30,14,30
5	Provision for Pension	380,77,15	143,14,05
6	Provision for Encashment of Ordinary Leave	358,05,69	357,54,23
7	Provision for Post-Retirement Medical Benefit	135,10,14	131,05,89
8	Unclaimed Interest on Bonds	3,31,52	1,69,60
9	Unclaimed Interest on Term Deposits	11,52	11,52
10	Term Deposits Matured but not claimed	4,78	4,78
11	Bonds matured but not claimed	144,20,22	71,93,02
12	Bond Premium	62,15,60	10,52,60
13	Debt Servicing Reserve	1,74,63	7,70,54
14	Provisions and Contingencies		
(a)	Depreciation in Value of Investment a/c - G. Sec.	14,34,15	146,44,37
(b)	Amortisation of G. Sec. - HTM	52,45,38	26,66,77
(c)	For Standard Assets	1739,59,72	142,68,211
(d)	Non-performing Investments	248,32,70	34,14,25
(e)	Countercyclical Provisioning Buffer	14,44,89	14,44,89
(f)	Provision for Other Assets & Receivables	8,54,95	8,79,41
(g)	Provision for Income Tax [Net of Advance Tax]	3080,75,05	580,22,40
(h)	Other Liability	46,23	52,86
	Total	12936,63,96	12378,12,38

Consolidated Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Cash in hand	21	29
2	Balances with :		
	A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	1405,57,37	187,31,46
	(ii) Other Banks in India		
	a) in Current Account	410,63,37	56,28,80
	b) Deposit with Banks	9400,53,87	16989,63,77
	c) Remittances in Transit	528,59,10	460,84,72
	d) CBLO / Tri party Repo	573,19,51	1204,23,52
	(B) Outside India	0	0
	Total	12318,53,43	18898,32,56

Consolidated Schedule 10 – Investments

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government & State Govt.	15501,07,52	13029,00,98
	[Face Value ₹14922,56,40,000 (₹ 12481,14,10,000)]		
	[Market Value ₹15350,09,35,860.40 (₹ 12674,43,46,439)]		
	b) Treasury Bills	664,35,21	2560,16,63
	[Face Value ₹ 713,71,70,000 (₹ 2715,43,40,000)]		
	[Market Value ₹664,35,21,402.10 (₹ 2560,16,62,705)]		
2	Other Approved Securities	0	0
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	1,00,00	1,00,00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	966,27,55	966,27,55
	[5,31,92,203 (1,60,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60,00,00	60,00,00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	30,22	30,22
	[3,77,758 (10,70,096) - Equity shares of ₹10 each]		
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	16,87,50	16,87,50
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(f)	Universal Commodity Exchange Ltd [UCX] @	16,00,00	16,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) Shares of ₹10 each]		
(g)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity	9,74,60	9,74,60
	[55,000 (55,000) Shares of ₹1000 each]		
(h)	Agriculture Skill Council of India	40	40
	[4,000 (4000) Shares of ₹10 each]		
(i)	National E-Governance Services India Ltd [Equity]	1,50,00	1,50,00
	[15,00,000 (15,00,0000) Shares of ₹10 each]		
(j)	National e-Repository Ltd.	10,53,00	10,53,00
	[105,30,000 (0) Shares of ₹10 each]		
(k)	Other Equity Investments	48,44,67	54,28,96
	[Market Value ₹ 82,44,91,556 (₹ 76,35,07,111)]		
4	Debentures and Bonds		
(i)	Special Dev Debentures of SCARDBs (Refer Note B-20 of Schedule 18)	1738,61,48	2592,77,98
(ii)	Non Convertible Debentures	3145,97,12	2426,54,78
5	Others		
(a)	Mutual Fund	7586,71,84	0
(b)	Commercial Paper	552,55,40	3423,54,30
	[Face Value ₹600,00,00,000 (₹ 3650,00,00,000)]		
(c)	Certificate of Deposit	8615,49,36	5206,20,83
	[Face Value ₹8950,00,00,000 (₹ 5525,00,00,000)]		
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	192,07,40	180,74,61
(e)	Investment Earmarked towards EOL	225,90,70	249,76,14
	Total	39353,43,97	30805,28,48

All the above investments are made in India

Consolidated Schedule 11 – Advances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Refinance Loans		
(a)	Production & Marketing Credit	66736,60,36	66128,18,38
(b)	Conversion Loans for Production Credit	137,35,45	632,76,66
(c)	Other Investment Credit		
(i)	Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B -20 of Schedule 18)	148552,30,45	118478,11,21
(ii)	Direct refinance to DCCBs	4449,50,01	2949,50,70
(iii)	JNN Solar Mission	3,12	14,07
2	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	120162,99,02	110061,76,71
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	4984,05,37	4296,12,13
(c)	Long Term Non-Project Loans	2628,58,14	1908,16,01
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	9125,74,48	7241,57,49
(e)	Loans to Producers' Organization Development	138,71,23	219,61,25
(f)	Credit Facility to Federations[CFF]	11375,25,00	11954,00,00
(g)	Loans under Food Processing Fund	276,24,39	239,40,24
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	34248,75,47	20446,52,47
(i)	PMAY - G	18008,23,00	7329,43,00
(j)	Swacch Bharat Mission Gramin	8698,20,00	0
(k)	DIDF	432,00,00	0
(l)	Loan Under GCF	344,42,50	0
(m)	Other Loans:		
(i)	Micro Finance Development Equity Fund Programme Loans	10,59	0
(ii)	Watershed Development Fund Programme Loans	26,56,44	33,68,88
(iii)	Tribal Development Fund Programme Loans	2,95,32	6,08,15
(iv)	KfW UPNRM Loans	164,10,29	181,59,72
(v)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	218,71,95	252,91,48
(vi)	Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	96	2,88
(vii)	Co-Finance Loans	0	12,14
(viii)	Direct Loan Under Sec 30 of NABARD Act	1,36,82	0
	Total	430712,80,36	352359,73,57

Consolidated Schedule 12 – Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	LAND : Freehold & Leasehold (Refer Note B-19 of Schedule 18)		
	Opening Balance	185,84,11	181,97,92
	Additions/adjustments during the year	0	3,86,19
	Sub-Total	185,84,11	185,84,11
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	185,84,11	185,84,11
	Less: Amortisation of Lease Premia	57,18,86	55,29,63
	Book Value	128,65,25	130,54,48
2	PREMISES (Refer Note B-19 of Schedule 18)		
	Opening Balance	416,79,99	410,97,49
	Additions / Adjustments during the year	7,59,10	5,82,50
	Sub-Total	424,39,09	416,79,99
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	424,39,09	416,79,99
	Less: Depreciation to date	263,98,17	244,34,37
	Book Value	160,40,92	172,45,62
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	69,31,14	63,09,78
	Additions/adjustments during the year	2,08,11	6,83,35
	Sub-Total	71,39,25	69,93,13
	Less: Cost of assets sold/written off	1,00,39	61,98
	Closing Balance (at cost)	70,38,86	69,31,15
	Less: Depreciation to date	62,68,14	61,34,29
	Book Value	7,70,72	7,96,86
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	123,70,97	109,15,54
	Additions/adjustments during the year	14,68,84	18,49,48
	Sub-Total	138,39,81	127,65,02
	Less: Cost of assets sold/written off	3,59,99	3,94,05
	Closing Balance (at cost)	134,79,82	123,70,97
	Less: Depreciation to date	109,97,05	103,40,24
	Book Value	24,82,77	20,30,73
5	VEHICLES		
	Opening Balance	8,88,87	8,75,54
	Additions/adjustments during the year	4,96,63	2,06,66
	Sub-Total	13,85,50	10,82,20
	Less: Cost of assets sold/written off	3,75,36	1,93,33
	Closing Balance (at cost)	10,10,14	8,88,87
	Less: Depreciation to date	3,96,68	4,97,46
	Book Value	6,13,46	3,91,41
6	Capital Work in Progress	196,35,67	151,05,90
	Total	524,08,79	48,62,500

Consolidated Schedule 13 - Other Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Accrued Interest	3515,20,36	3300,06,22
2	Discount Receivable	121,32,29	418,67,60
3	Deposits with Landlords	1,68,15	1,77,11
4	Deposits with Government Departments and Other Institutions	37,73,91	36,60,91
5	Housing loan to staff	141,02,75	127,77,02
6	Other Advances to staff	95,38,84	97,51,32
7	Sundry Advances	152,51,20	120,88,74
8	Deferred Tax Assets (Refer Note B-9 of Schedule 18)	205,69,10	196,32,50
9	Receivable from Government of India/International Agencies. (Refer Note B-3 of Schedule 18)	749,39,88	146,44,18
10	Discount on issue of Bonds	9,24,93	0
	Total	5029,21,41	4446,05,60

Consolidated Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Interest Paid on		
(a)	Deposits under RIDF	6088,80,39	6276,76,17
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund (Refer Note B-6 of Schedule 18)	2029,82,73	1954,54,21
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund (Refer Note B-6 of Schedule 18)	435,96,20	438,73,22
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	279,49,16	221,74,67
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1812,84,69	1586,40,35
(f)	Fund for Food Processing Units	16,08,05	13,48,10
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	6,77,66	7,87,99
(h)	CBS Deposits	72	1,05
(i)	Term Money Borrowings	253,76,07	159,40,74
(j)	Bonds (Refer Note B-6 of Schedule 18)	6127,42,54	4475,12,40
(k)	Corporate Loans	827,08,10	1,66,85
(l)	Borrowings from International Agencies	30,39,71	22,50,95
(m)	Borrowing against ST Deposit	4,63	50,23
(n)	Discount on Commercial Paper	2785,01,16	1527,90,18
(o)	Discount on Certificate of Deposits	563,72,27	346,75,31
(p)	Repo Interest Expenditure	157,08,89	198,95,61
(q)	Interest paid on funds	330,93,39	232,95,66
2	Discount on CBLO / TREPS	373,17,79	360,19,52
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	41,61,92	22,96,68
4	Swap Charges	39,54,90	6,03
	Total	22199,60,97	17848,55,92

Consolidated Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-8 of Schedule 18)	1085,21,50	898,44,31
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	435,93,72	701,78,87
3	Other Perquisites & Allowances	66,20,06	57,70,00
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	47,21	40,70
5	Directors' & Committee Members' Fees	20,70	18,90
6	Rent Rates Insurance Lighting etc.	37,51,16	37,04,40
7	Travelling Expenses	48,29,81	44,85,56
8	Printing & Stationery	6,79,50	6,56,80
9	Postage Telegrams & Telephones	19,12,11	19,53,30
10	Repairs	50,41,50	39,73,77
11	Auditors' Fees	47,56	45,33
12	Legal Charges	2,04,31	1,53,91
13	Miscellaneous Expenses	145,85,31	138,74,94
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	10,42,97	7,65,39
15	Expenditure on Study & Training	87,16,28	72,30,62
	Total	1996,13,70	2026,96,80

Consolidated Schedule 15 B - Expenditure on promotional activities

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Cooperative Development Fund	16,65,67	18,77,59
(ii)	Producers' Organization Development Fund	1,69,03	2,55,94
(iii)	Rural Infrastructure Promotion Fund	5,39,31	2,49,48
(iv)	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	21,32,28	20,88,28
(v)	Expenditure under Climate Change Programme	16,45	1,03,53
(vi)	Gramya Vikas Nidhi	16,18,62	6,78,99
	Total	61,41,36	52,53,81

Consolidated Schedule 16- Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Provisions for : Standard Assets	312,77,61	186,49,15
2 (a)	Non Performing Assets	232,41,54	24,40,02
2 (b)	Non Performing Assets - staff	-30,46	29,18
3	Sacrifice in interest element of restructured Accounts	0	0
4	Other Assets / Receivable	0	0
	Total	544,88,69	211,18,35

Consolidated Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	32,75,96	83,99,67
	Sub Total "A"	32,75,96	83,99,67
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	25,02,86	21,69,75
(ii)	Claims against the Bank not acknowledged as debt.	0	0
	Sub Total "B"	25,02,86	21,69,75
	Total (A + B)	57,78,82	105,69,42

National Bank for Agriculture and Rural Development

Cash flow for the year ended 31 March 2019

(Amount in ₹)

Particulars	2018-2019	2017-2018
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	5061,79,76	4438,68,57
Adjustment for:		
Depreciation	35,32,49	18,36,84
Provision for Non-performing Assets	229,59,10	22,57,05
Provision for Standard Assets	309,50,44	185,76,20
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	23,16	-21,03
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	330,93,39	232,92,28
Income from Investment (including Discount Income)	-3370,93,63	-2996,53,41
Operating profit before changes in operating assets	2596,44,71	1901,56,50
Adjustment for changes in working capital :		
(Increase) / Decrease in Current Assets	6947,15,41	-8771,87,76
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	-1829,78,13	-1255,04,58
Increase in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff	-78466,07,24	-46825,18,15
Cash generated from operating activities	-70752,25,24	-54950,53,99
Income Tax paid - Net of refund	863,05,62	-1485,05,15
WIF/ FPF differential debited to Tribal Development / Financial Inclusion Fund / Watershed Development Fund)		
Net cash flow from operating activities (A)	-69889,19,62	-56435,59,14
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	3370,93,64	2996,53,41
Purchase of Fixed Asset	-80,57,00	-106,93,90
Sale of Fixed Assets	7,17,55	6,49,66
Increase / Decrease in Investment	-9479,34,46	-5627,99,87
Net cash used / generated from investing activities (B)	-6181,80,27	-2731,90,70
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	-262,07,41	-441,15,07
Proceeds of Bonds	31781,87,15	23483,61,72
Increase / (Decrease) in Borrowings	33787,29,07	10120,19,34
Increase / (Decrease) in Deposits	9696,68,77	20035,15,45
Dividend Paid including Tax on Dividend	-10,12,92	-7,73,66
Increase in Share capital	2087,25,98	3889,44,00
Net cash raised from financing activities (C)	77080,90,64	57079,51,79
Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	1009,90,75	-2087,98,04
Cash and Cash equivalent at the beginning of the year	2045,56,91	4133,54,95
Cash and cash equivalent at the end of the year	3055,47,66	2045,56,91

Cash and cash equivalent at the end of the year includes :	2018-2019	2017-2018
Cash in hand	21	29
Balance with Reserve Bank of India	1405,57,37	187,31,46
Balances with other Banks in India	548,11,47	193,16,92
Remittances in Transit	528,59,10	460,84,72
CBLO / Tri party Repo	573,19,51	1204,23,52
Total	3055,47,66	2045,56,91

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co. LLP
(formerly Khimji Kunverji & Co.)
Chartered Accountants
FRN : 105146W

Hasmukh Dedhia
Partner
M No. F-033494

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

Sudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts Department

Anil Kumar Bansal
Director

C Parthasarathi
Director

A K Parhi
Chief General Manager & Secretary

Mumbai
Date : 22 May 2019

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank/NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Basis of Consolidation

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard 21 – “Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

The excess/deficit of the cost to the Bank of its investment, over the Bank’s portion of net assets at the time of acquisition of shares is recognized in Reserves & Surplus.

The Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances and necessary adjustments required for deviations, if any to the extent possible, are made in the consolidated financial statements and are presented in the same manner as the Bank’s standalone financial statements. The figures pertaining to the Subsidiary Companies have been recast/ reclassified wherever necessary to bring them in line with the parent Bank’s financial statements.

The financial statements of the subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank.

The Notes and Significant accounting policies to the Consolidated Financial Statements are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide to better understanding of the consolidated position of the Group. In this respect, the Bank has disclosed such notes and policies which fairly present the needed disclosures, and such other notes and statutory information disclosed in the financial statements of the parent and the subsidiary companies which are not having any effect on the true and fair view of the Consolidated Financial statements are excluded.

The financial statements of the Bank and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions. The unrealized profits or losses resulting from the intra-group transactions have been eliminated and unrealized losses resulting from the intra-group transactions have also been eliminated unless cost cannot be recovered.

Share of minority interest in the net profit of the consolidated subsidiaries is identified and adjusted against the profit after tax to arrive at the net income attributable to shareholders. Share of minority interest in losses of the consolidated subsidiaries, if exceeds the minority interest in the equity, the excess and further losses applicable to the minority, are adjusted against the Group’s interest.

Share of minority interest in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the company’s shareholders.

3. The consolidated financial statements present the accounts of the Bank with its following subsidiaries:

Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership (%)	
		2018-19	2017-18
NABKISAN Finance Ltd.	India	82.51	80.84
NABSAMRUDDHI Finance Limited	India	83.50	78.83
NABARD Financial Services Limited (NABFINS)	India	63.10	63.10
NABARD Consultancy Pvt. Ltd. (NABCONS)	India	100	100
NABVENTURES Ltd	India	100	--

4. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ for these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

5. Revenue recognition:

5.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- i) Interest on non-performing assets identified as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- iii) Service Charges on loans given out of various Funds.
- iv) Expenses not exceeding ₹10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.
- v) Upfront processing fees collected from customers for processing loans.
- vi) Monitoring cost received by NABCONS under DDU-GKY scheme

5.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to floatation of bonds are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

5.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

5.4 Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

5.5 Income from Venture Capital Funds are accounted on realization basis.

5.6 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

- i) penal interest
- ii) cost & charges
- iii) overdue interest and interest
- iv) Principal

5.7 Interest from the term loan disbursed and interest from banks are recognized on time proportion basis taking into account amount outstanding and the rate applicable.

5.8 Income from services (NABCONS)

5.8.1 Income from Assignments: Income from assignments constitute the main source of income for the Company. Recognition of revenue and corresponding expenses incurred on particular assignments are taken into account at the time when the assignment are completed. An assignment is treated as completed

- in case of preparation of DPR as soon as the draft report has been issued to the party.
- in case of other assignments where execution is spread over a period, the income has been recognized based on the milestones completed and deliveries effected, status of execution and period completed.
- in case assignment is a time bound contract for more than a year income is recognized in proportion to period completed.

5.8.2 In case of foreign assignments, the income has been recognized as soon as the assignment is executed.

5.8.3 As per the view taken by the management, the assignments which are not likely to be continued were closed on "as is where is" basis and the amount received thereon has been treated as income.

5.8.4 An advance received on progressive basis for ongoing assignments is shown as a separate item as advance received from clients and treated as current liability. The expenses incurred on such assignments are shown as current assets.

5.8.5 In respect of Pass through and monitoring agency assignment, as per terms of agreement, NABCONS is entitled to deduct 1.5% of the amount released at the time of release of each installment towards professional fees. The income has been recognized at the time of release of each instalment amount.

6. Property, Plant and Equipment (Fixed Assets) and Depreciation

- a) Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.
- b) Land includes freehold and leasehold land.
- c) Premises include value of land, where segregated values are not readily available.
- d) Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.
- e) Fixed Assets costing ₹1 lakh and less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.
- f) Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

a) Type of Assets	b) Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- g) Depreciation policy has been revised during the previous year, accordingly depreciation is charged from the month the asset is capitalized in the year of purchase and till the month the asset is sold in the year of sale. Hitherto, depreciation was charged for the full year, irrespective of the date of purchase of asset and no depreciation was charged in the year of sale.
- h) Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.
- i) In case of subsidiaries the depreciation on fixed assets is provided on following basis

Name of the Subsidiary	Method of Depreciation
NABKISAN Finance Ltd.	WDV as per Schedule II
NABSAMRUDDHI Finance Limited	WDV as per Schedule II
NABARD Financial Services Limited (NABFINS)	SLM as per Schedule II
NABARD Consultancy Pvt. Ltd. (NABCONS)	SLM as per Schedule II
NABVENTURES Ltd.	SLM as per Schedule II

7. Investments

- a) In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”).
- b) Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as “HFT”. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as “HTM”. Securities which are not to be classified in the above categories are classified as “AFS”.
- c) Investments classified under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category “HTM” is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.
- d) Profit on redemption of investment categorized under “HTM” is recognized in Profit & Loss A/c.
- e) Investments under “AFS” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “AFS” and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after the revaluation.

- f) Investments under “HFT” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Depreciation / appreciation is recognized in the category for investments classified as “HFT”. The book value of the individual scrip is changed after revaluation.
 - g) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
 - h) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.
 - i) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guidelines.
 - j) Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
 - k) Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.
 - l) Broken period interest paid/received on debt investments is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost/ sale consideration.
 - m) Transfer of a security between the categories is accounted for, at lower of the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer, is fully provided for.
 - n) Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
 - o) Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.
 - p) Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.
8. Advances and Provisions thereon
- a) Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.
 - b) In case of restructuring/rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
 - c) Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
 - d) Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.
9. Foreign Currency Transactions
- As per Accounting Standard (AS-11) (Revised 2003) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the Institute of Chartered Accountants of India; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:
- a) Assets and liabilities in foreign currency are revalued at the exchange rate notified by Reserve Bank of India as at the close of the year. The hedged portion of the foreign currency borrowings are stated at the contracted value and the liability of hedged borrowing as per year-end exchange rate is disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item).
 - b) Income and Expenditure items are translated at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
10. Accounting for Foreign Exchange Contracts
- a) Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.
 - b) The foreign currency borrowings which are hedged are stated at the contract rate.
 - c) The foreign exchange unhedged contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the year end. The resultant gain/loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains/Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account. Premium/ discount are accounted over the life of the contract.
 - d) The Profit / Loss on cancellation and renewal of foreign exchange contracts are recognised in Profit and Loss Account under the head 'Profit / Loss on Foreign Currency Loan Account'.
11. Employee Benefits
- All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, are carried out at each balance sheet date.
- a. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

b. Post Retirement Benefits:

i) Defined Contribution Plan

- (a) The Bank has a Provident Fund Scheme in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is managed by RBI. Contribution is recognized on accrual basis.
- (b) The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the “NPS- Corporate Sector Model”, a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.
- (c) In case of NABCONS, Provision for Bonus has been made for FY 2018-19 only, however, pending detailed legal opinion the provision for bonus for the period 01 April 2014 to 31 March 2018 has not been made.

ii) Defined Benefit Plan

- a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences. All the eligible employees are also entitled for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

12. Taxes on Income

- a) Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/appeals.
- b) Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
- c) Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
- d) Tax paid/provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

13. Segment Reporting

- a) Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment.
- b) Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank income".
- b) Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".
- d) Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

14. Impairment of Assets

- a) As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:
 - (i) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - (ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- b) Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

15.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

- the Bank has a present obligation as a result of a past event;
- a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- the amount of the obligation can be reliably estimated.

15.2 Contingent liability is disclosed in the case of:

- possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
- a present obligation when no reliable estimate is possible, and
- a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.

15.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

15.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

16. Cash and cash equivalents

- Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand, demand deposits with banks and other short-term investments with an original maturity of three months or less.
- Cash Flow statement is reported using Indirect method. The cash flow from operating, financing and investing activity is segregated based on the available information.

17. Prior Period Income / Expenses

Items of Income / Expenditure which are prior period in nature is disclosed separately only when the individual prior period income / expense exceeds 0.5% of Gross Income.

18. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has been deferred by Reserve Bank of India until further notice.

B. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. In terms of the agreement with Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - German Development Bank (KfW), accretion / income and expenditure under UPNRM have been charged to the fund. The loans granted out of this fund have been classified as Direct loans and disclosed under Schedule 11. The borrowing related to the UPNRM are classified as borrowing from international agencies and disclosed under Schedule 7. During the year, a sum of ₹56.98 crore representing expenditure over income under the fund has been charged to Profit & Loss Account.

2. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/as approved by the management. The details of rate of interest for respective funds are as under:

Sr. No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2018-19	Rate of Interest for 2017-18
1.	Watershed Development Fund	4%	4%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan)	4%	4%
3.	KfW Accompanying Measures	4%	4%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	4%	4%
5.	Tribal Development Fund	4%	4%
6.	Financial Inclusion Fund	4%	4%
7	Kfw NB- V Adivasi Development Programme- Gujarat	4%	4%
8.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	4%	--
9	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	4%	--
10	PODF-ID	4%	--
11	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	8.05%	6.57%
12	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	8.05%	6.57%
13	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	8.05%	6.57%
14	KfW NB IX Adivasi Development Program – Maharashtra	--	6.57%

3. Recoverable from Government of India/International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹ 1.44 crore (₹ 43.35crore) being debit balance of various funds. The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Name of the Fund	31-03-2019	31-03-2018
1	KfW- UPNRM – Accompanying Measures	0.91	2.00
2	KfW- NB IGWDP (Rajasthan)	0.00	0.62
3	KfW- Soil Project	0.53	3.72
4	KfW- NB IGWDP (Gujarat)	0.00	0.97
5	KfW UPNRM Fund [Refer Note B-1]	0.00	35.92
6	KfW UPNRM – Technical collaboration	0.00	0.12

4. Sundry creditors includes ₹ 30.43 crore (₹ 30.32 crore) being amounts outstanding to contributors in respect of Micro Finance Development and Equity Fund (MFDEF).
5. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in excess of 0.5 percent in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund, placed by the Commercial Banks is credited to Watershed Development Fund, Tribal Development Fund, Financial Inclusion Fund and PODF. Previous year, the amounts were credited to Watershed Development Fund, Tribal Development Fund, Financial Inclusion Fund and PODF.
6. Interest Subvention received/receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of Interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Scheme	2018-19	2017-18
1	Long Term Irrigation Fund	89.46	0.00
2	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	-264.83	319.09
3	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	8.00	0.00
4	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	19.63	12.83

7. Other Receipts includes ₹ 106.90 crore (₹ 123.03 crore) received/receivable from GOI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme.
8. The salaries and allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. The review is due from 01 November 2017. Pending such settlement, an amount of ₹ 200 crore (₹ 100crore) has been provided under the head Salary and Allowances during the year.
9. The Bank, during the year, in accordance with AS 22 “Accounting for taxes on Income”, recognized in the Profit and Loss Account the deferred tax of ₹9.21 crore (₹ 13.15crore). The details of the deferred tax are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31-03-2019	31-03-2018
1	Provision allowable on payment basis	171.63	170.22
2	Depreciation on Fixed Assets	31.92	24.12
	Total	203.55	194.34

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

10. The tax liability of the Bank for the Assessment Year 2002-03 amounting to ₹ 373.15 crore was assessed by the Income Tax Department. The Bank has provided and paid the said liability. However, the Bank has filed an appeal against the order of the CIT Appeals with the Income Tax Appellate Tribunal.
11. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year (AY) 2007-08, AY 2008-09 and AY 2009-10, which was ruled against by the Commissioner of Income Tax–Appeals [CIT(A)]. The Income Tax department has preferred appeal against the order of CIT(A) with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
12. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2010-11 a tax liability of ₹ 313.07 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others, which was struck down by CIT(A). The

Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.

13. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2011-12 a tax liability of ₹ 294.31 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
14. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2012-13 a tax liability of ₹ 340.81 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
15. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2013-14 a tax liability of ₹ 392.94 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
16. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2014-15 a tax liability of ₹ 438.37 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
17. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2015-16 a tax liability of ₹ 428.16 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds, which was struck down by CIT(A). The Income Tax department has preferred appeal against the CIT(A) order with ITAT, Mumbai. Pending appeal with ITAT, the refund received from the IT department is held in Income Tax Refund Account.
18. During the Assessment of the Income for the Assessment Year 2016-17 a tax liability of ₹ 372.00 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC funds. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT(A).
19. (a) Free hold land and Lease Land and Premises include ₹ 14.00 crore (₹ 14.00 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.
 (b) The depreciation policy for premises on leasehold land and free hold land has been revised during the FY 2017-18. The change in depreciation policy had resulted in reversal of excess depreciation of ₹ 10.39 crore during the FY 2017-18.
 (c) In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.
20. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:
 - a) Classified as Investments and shown in Schedule-10 under the head 'Debenture and Bonds'.
 - b) Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.
 - c) 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.
21. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 472.56 crore (₹ 560.63 crore) pertains to non-starter projects. Pending receipt of the proposal from State Government for adjustment of the amount with the respective/other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.
22. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹ 5,000 crore. Accordingly, ₹ 1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹ 3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 365.74 crore (₹ 365.79 crore).

The details of the debenture Trustee is as under:

Axis Trustee Services Limited,
Axis House, Second Floor,
Wadia International Centre,
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai-400 025
Telephone: 022 24255215/5216

23. In terms of RBI Circular RBI/2015-16/104 DBR No. FID.FIC.3/01.02.00/2015-16 dated 01 July 2015 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹ 33.78 crore (₹ 15.92 crore) made in the units of VCF was shifted from HTM category, on completion of 3 years, to AFS category
24. Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	750.00(648.00)	783.15 (676.64)
Pledged for Business Segment (CBLO/Tri Party Repo)	8301.13 (8856.00)	8639.18 (8972.64)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (27.00)	52.21 (28.19)
Pledged for Business Segment (CBLO/Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (25.00)	52.21(26.10)

25. The disclosures required to be given by financial institutions pursuant to RBI Master Direction-Reserve Bank of India (Financial Statements of All India Financial Institutions–Presentation, Disclosure and Reporting Directions 2016) dated 23 June 2016 not being considered relevant for consolidated financial statements of the group and hence the same are not contained in the notes.
26. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” is as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	21.69	16.94
Addition during the year	25.02	21.69
Deletion during the year	21.69	16.94
Closing Balance	25.02	21.69

27. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00

28. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 “Related Party Transactions”, the details of the transactions with other state controlled enterprises are not given.

List of Related Parties:

- a) Key Management Personnel:

Name of the party	Designation
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Chairman
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Deputy Managing Director
Shri R Amalorpavanathan	Deputy Managing Director

Transactions with Key Management Personnel:

(Amount in ₹ crore)

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amount of transaction during the year	Outstanding
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Key Management Personnel—Chairman	Remuneration including perquisites	0.50(0.52)	0.00(0.00)
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.65(0.40)	0.00 (0.00)
Shri R Amalorpavanathan	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.59(0.45)	0.00 (0.00)

No amounts, in respect of the related parties have been written off/back, or provided for during the year. Related party relationships have been identified by the management and relied upon by the auditors.

29. Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognized primary segments as under:

- i) Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to Co-operative Banks etc.
- ii) Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, SCARDBs, StCBs Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- iii) Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- iv) Unallocated: Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) Information on Primary Business Segment

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Business Segments	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	3355.75	2987.81	14677.67	12240.71	11766.13	9256.82	99.64	110.97	29899.19	24596.30
Result	1597.97	511.25	2807.31	3416.34	2578.23	2287.20	-1921.71	-1776.11	5061.80	4438.69
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									5061.80	4438.69
Income Taxes									1628.97	1420.17
Extraordinary profit / loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit									3432.83	3018.52
Other Information										
Segment Assets	48463.49	47809.01	225952.75	190887.18	209178.56	165719.86	4343.28	2579.60	487938.08	406995.65
Segment Liabilities	78950.65	45487.70	197007.59	191389.94	158206.69	124887.75	53773.15	45230.27	487938.08	406995.65
Unallocated Liabilities									0.00	0.00
Total Liabilities									487938.08	406995.65

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

30. Figures in brackets pertain to previous year.

31. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

As per our attached report of even date

Khimji Kunverji & Co. LLP
(formerly Khimji Kunverji & Co.)

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105146W

Hasmukh Dedhia
Partner
Membership No. F-033494Sudhir Kumar Jannawar
Chief General Manager
Accounts DepartmentMumbai
22 May 2019Harsh Kumar Bhanwala
ChairmanR Amalorpavanathan
Deputy Managing DirectorAnil Kumar Bansal
DirectorC Parthasarathi
DirectorA K Parhi
Chief General Manager & Secretary